

॥ णमो दीयतायाने ॥

साधुसाध्वीदिवसिकरात्रिकपाक्षिकचातुर्मासिकसांवत्सरिकप्रतिक्रमणानि प्रकीर्णकविधिसंयुतानि

पडावश्यकसूत्राणि



प्रकाशिका—सुरतवास्तव्य श्रेष्ठि छंगनलाल फुलचंद शक्वेरी विहितार्थसहायेन
रत्नपुरीय श्रेष्ठि ऋषभदेवजी केशरीमलजी जैनश्वेताम्बरसंस्था.

इदं पुस्तकं जामनगरे ' श्रीजैनभास्करोदय प्रेस ' मुद्रणास्पदे ' डाह्र बालचंद्र हीरालाल ' इत्यनेन मुद्रितं .

वीरसम्पत् २४१२

विक्रम संपत् १९९२

{ प्रासिस्थानः—जैनानंदपुस्तकालय-गोपीपुरा-सुरत. }

पण्यम् रु. ०-८-०

प्रथमावृत्तिः १०००,
रु. ०-८-०



श्रीपडावश्यकसूत्राणां विषयक्रमः ।



विषय	सू० पत्रांक
सूत्रनाम	अपरनाम
गुरुचंदनविधि—	
नमस्कारगूत्र-	नवकार० १ १
स्थोत्रचंदनगूत्र-	गणपतगण २ १
गायत्र्यगूत्र-	इष्टकार० ३ १
ध्यानगूत्र-	अष्टमुष्टिभो ४ २
सात्रिकन्याण्य-	} गुरो० चोविहार पाण्डार
नगूत्रानि -	
स्यटिलमुद्रिकारवानो विधि—	
ईशानपद्मिगूत्र	हरियावट्या ६ ३
उत्पीठग " "	उत्तरगण० ७ ११

विषय	सू० पत्रांक
सूत्रनाम	अपरनाम
कादोसर्ग " "	अष्टाथ० ८ १
नामस्तव " "	लोगस्प० ९ ४
स्थटिप्रति-	} आगाढे २४ मंडली
लेख्या " "	
दैवसिकप्रतिक्रमणविधि—	
चेत्यवदन	ॐ नम पार्श्व० ११ ६
शोषवदनसूत्रं	जकिचि० १२ १
नामस्तव " "	नमुद्युण० १३ ११
चेत्यस्य " "	ओरहा० १४ ७
परमेष्ठिनम-	नमोऽईश्व०
स्कार " "	१५ १
पुत्रिकास्तुनि " "	फलाणकद० १६ १

विषय	सू० पत्रांक
सूत्रनाम	अपरनाम
श्रुतस्तव " "	पुस्तकवरदी० १७ १
सिद्धस्तव " "	सिद्धाण्डुद्वाल १८ ८
सुरस्मृति " "	वेद्यवच० १९ १
भगवानादिवदन	भगवानह २० ९
प्रतिक्रमणधीन,"	सद्यस्तवि९ २१ १
सामायिक " "	करेमि भते० २२ १
आलोचना " "	इच्छामिटाभि० २३ १
अतिचारगाथा " "	सयणासणस० २४ १०
सुहृपत्तिना ५० बोल	" ११
द्वादशावतंबद-	घांटगां०
मक " "	२५ ११
दिवसिकअति०	राजेकमणे २६ १२

विषय	सू० पत्रांक	सू० पत्रांक
सूत्रनाम	अपरनाम	अपरनाम
रात्रिकाम्यमंगलं विशाललोचनदलं०४७	३४	३४
धीरस्तुतिसूत्रम्	संसारवाया०	४८
सीमधस्वामि०च०	[धीसीमधरा ज०४९]	३५
"	स्वयन [युक्तरत्नवध]	५०
"	स्तुति धीसीमं०त्रिन०	५१
सिद्धगिरिचैत्य०	धीनांशुंजय त्रिद्व०	५३
"	स्वयन विमलाचल त्रिद्व०	५३
"	स्तुति गुंडरिक्कगिरि०	५४
प्रातः प्रतिलेखनाविधि—		
[सवारी पडिलेहणनीविधि,	५५	३८
स्थापनाजीना तेर योल		३९
प्रातः गुरुवंदनविधि—		
५६		४०
दशवैकालिकसूत्र—		
[चारअध्ययन]		५७

विषय	सू० पत्रांक	सू० पत्रांक
सूत्रनाम	अपरनाम	अपरनाम
पांथंवेत्यवंदन०	चउकसाथ०	२३
सर्वधैत्यवंदन०	आवति०	२३
सर्वसाधुवंदन०	जावंत०	"
पांथंनाथस्तवन०	उपसगहरं०	"
प्रणिधानसूत्र	जयवीर्याय	"
संस्तारक-	मिसीहि २०	"
पोरपी	" अणुजाणह०	२४
रात्रिकप्रतिक्रमणविधि—		
प्रयोधंवेत्यवंदनं	जगदितामणि	४६
शीलयदादिगुण	भारहेस्तर०	४७
स्मरणसूत्र		४७
रात्रिक्रुतिपार०	संधारा उचट०	४४
तपचित्तवर्णीनो काउस्सगाः		४९
सकलतीर्थवंदन०	सकल तीर्थ०	३०
प्रभातिक	नयकानी पोरिसी	४६
प्रत्याख्य-	एकासणुं वेत्तणु	
नानि	आंवील त्रिविहार-	
	पोधिहार-उपवास	

विषय	सू० पत्रांक	सू० पत्रांक
सूत्रनाम	अपरनाम	
प्रतित्रमण	पराम-	२७
"	सत्रापा०	३२
आचार्यादिक-	आवरिय उच०	
शामजक	"	२८
भुतदेवतास्तुति	सुअदेवया०	२९
क्षेत्रदेवता	जीसे त्रियो०	"
देवतिकाभ्य-	मनोऽसु-	"
मंगलम्	पदं०	३३
संतिरं	स्वयन	२२
सहवीराल-		"
त्रिनयंदन-	"	३३
द्रुमपुष्पिवाध्ययन०	पम्पो मंगल०	३४
एणुसालिख्यः	शांतिः शांति०	३५
संधारापोरिसी भणाववानो विधि-		

विषय	सू० पत्रांक
मिनचैल- धंदनविधि. } [रहते चैल- वंदनकरवानी] ५८ ५०	
उदयाया- पोरुषीविधि } [पोरिसिनो विधि] ५९ ५०	
पचफखाण पारवानो विधि ६० ५१	
गोचरीना ४२ दोप ने-	
मांडलीना ५ दोप. ६१ ५२	
गोचरी आलोचवानो विधि ६२ ५३	
सांझना पडिलेहणनो विधि ६३ ५७	
साधुं दररोज सातवार-	
चैलवंदन करे ते. ६४ ५८	
साधु दररोज चारवार	
सज्जाय करे ते. ६५ ५९	

चरण-करणसिचरी ६६ ५९

प्राक्षिकप्रतिक्रमणविधि—६०


सकलाहंवनुं चैलवंदन ६७ ६०
स्नातस्यानीस्तुति ६७ ६२
प्राक्षिकअतिचार ६९ ६३
प्राक्षिकसून ७० ६८
प्राक्षिकशामणकानि ७१ ८५
धुवदेवतास्तुति ७२ ८६
क्षेत्र " " ७३ ८६
अजितयातिस्तव ७४ ८६
बृहच्छान्तिस्तव ७५ ९१

चोमासी प्रतिक्रमण विधि—७६ ९३

संबच्छरीप्रतिक्रमणविधि ७७ ९३
प्रकीर्णक विधिओ—


विषय सू० पत्रांक

प्राक्षिकआदिप्रतिक्रमणमां छीक आवे ल्यारे काउससग करवानो विधि (सर्वे यक्षां)	७८ ९३
चारमासी काउससग करवानो विधि ७९ ९४	
लोच करवाना प्रारंभमां—	
काउसग करवानो विधि } ८० ९४	
कोइ साधु काळ करे ल्यारे— साधुने करवानो विधि } ८१ ९४	
अंतिम देववांदवानो विधि } ८२ ९५	
कोइ साधु काळ धर्म पामे ल्यारे श्रावकने करवानो विधि } ८३ ९६	
पाठ्यविषयगाथा:	८४ ९६
उपयोगिन्य उक्तय:	८५ ९७



संपूर्ण

॥ णमो धीयरायणं ॥



श्रीषडावश्यकसूत्राणि. ६

अथ नमस्कारसूत्रम्—(१) नमो अरिहंताणं । नमो सिद्धाणं । नमो आयरियाणं । नमो उवज्जायाणं । नमो लोपः सव्वसाहण । एसो पंच नसुकारो, सव्वपावप्पणासणो । मंगलाणं च सव्वेसिं, पढमं हवइ मंगलं ॥

अथ गुरुवंदनविधिः ।

स्तोभवंदनं—(२) इच्छामि खमासमणो ! वंदितं जावणिज्जाए निसीहियाए मत्थएण वंदामि ॥

[पछी वीजुं खामासमण तेज प्रमाणे दइ]

सातपृच्छासूत्रम्—(३) इच्छकार सुहराइ सुहदेवसि सुखतर शरीर निरायाध सुखसंजम यात्रा निर्वहो छो जी ! स्वामी ! साता छेजी ?

(ए प्रमाणे कही पंन्यासादि पदस्य होय तो खमासमण दइ, नहिं तो एमने एम)

क्षामणासूत्रम्—(४) इच्छाकारेण संदिसह भगवन् । अब्भुट्टिओमि अब्भितर देवसिअं खामेअं, इच्छं, खामेमि देवसिअं, जंकिंचि अपत्तिअं परपत्तिअं भत्ते पाणे विणए वेयावच्चे आलावे संलावे उच्चासणे समासणे अंतरभासाए उवरिभासाए जंकिंचि मज्झ विणयपरिहीणं सुट्टमं वा यायरं वा तुब्भे जाणह् अहं न जाणामि तस्स मिच्छामिदुकुण्डं । [एम कही पछी खमासमण दइ] इच्छकारि भगवन् ! पसाय करी पचक्खाणनो आदेश देशो जी [एम कही गुरु पासेथी पचक्खाण ले] ते आ प्रमाणेः—तिहां उपवास करी पाणी पण न वापर्युं होय तेजे नीचे प्रमाणे पचक्खाण लेवुं.]

रात्रिकमत्याख्यानसूत्राणि—(५) सूरे उग्गए अब्भत्तट्टं पचक्खाइ चउविहंपि आहारं असणं पाणं खाइमं साइमं अन्नत्थणाभोगेणं सहसागारेणं महत्तरागारेणं सब्वसमाह्वित्तियागारेणं वोमिरइ ॥

[तेमज वली उपवास आंतेल नीचि एकासणुं विगेरे कर्तुं होय, ने उपवास करी पाणी वापर्युं होय तेजे नीचे प्रमाणे पचक्खाण लेवुं] “पाणहार दिवसचरिमं पचक्खाइ अन्नत्थणाभोगेणं सहसागारेणं महत्तरागारेणं सब्वसमाह्वित्तियागारेणं वोसिरइ”

[तथा छुटे मोढे खावावालाए नीचेनुं पचक्खाण लेवुं]

“दिवसचरिमं पचक्खाइ चउव्विहंपि आहारं असणं पाणं खाइमं साइमं अन्नत्थणाभोगेणं सहसागारेणं महत्तरागारेणं सब्वसमाह्वित्तियागारेणं वोसिरइ ॥”



१ पचक्खाण लेनार ‘पचक्खाणि’ कंठे २ पचक्खाण फलनारे ‘वोसित्थमि’ कहेवुं.

स्थंडिलशुद्धिकरवानो विधिः ।

[त्यारपछी शिन्धे गुरुसन्मुख स्थंडिल शुद्धि करवी ते आ प्रमाणेः—(प्रथम खमासमण (मृ० २) वइ) इरियात्रहिया पडिकमवा, ते आ प्रमाणे]—

ईयांपथिकीसूत्रम्—(६) इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! ईरियावहियं पडिकमामि ?; इच्छं, इच्छामि पडिकमिउं इरियात्रहियाए विंराहणाए भमणागमणे, पाणकमणे बीयकमणे हरियकमणे ओसाउत्तिगपणगदगमटीमकडा-संताणासंकमणे जे मे जीवा विराहिया, एगिदिया बेइदिया तेइदिया चउरिदिया पंचिदिया, अभिहया वत्तिया लेसिया संघाइया संघट्टिया परियाविया किलामिया उदविया ठाणाओ ठाणं संकामिया जीवियाओ ववरोचिया तरस मिच्छामिट्टुकडं ॥

(त्यार पछी तस्स उत्तरी कहेवी ते आ प्रमाणे)

उत्तरीकरणसूत्रम्—(७) तस्स उत्तरीकरणेणं पायच्छित्तकरणेणं विसोहीकरणेणं विसह्ठीकरणेणं पावाणं कम्माणं निग्घायणहाए ठामि काउस्सगं ॥

(पछी अन्नत्थ कहेवुं ते आ प्रमाणे)

कायोत्सर्गसूत्रम्—(८) अन्नत्थ ऊससिएणं नीससिएणं खासिएणं छीएणं जंभाइएणं उइइएणं वायनिसग्गेणं

भमलिपि पित्तमुच्छ्राप सुदुमेहि अंगसंचालेहि सुदुमेहि खेलसंचालेहि सुदुमेहि दिद्वीसंचालेहि, एवमाइएहि आगारोहि अभगगो अविराहिओ हुज्ज मे काउस्सगो जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमुक्कारेणं न पारेमि ताव कायं ठाणेणं मोणेणं ज्ञाणेणं अप्पाणं वोसिरामि ॥

[एम कही एरु लोगस्सनो काउस्सग करवो, (चंदेसु निम्मलयरा सुधी,) पछी “नमो अरिहंताणं” कही काउस्सग पारी प्रगट लोगस्स कहेवो, ते लोगस्स आ प्रमाणे,)

नामस्तयसूत्रम्—(८) लोगस्स वज्जोअगरे, धम्मतिथयरे जिणे । अरिहंते किच्चइस्सं, चउवीसंपि केवली ॥ १ ॥

उसम-मज्जिं च वंदे, संभवमभिणंदणं च सुमइं च । पउमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं वंदे ॥ २ ॥

सुविहिं च पुप्फदंतं, सीअल सिजंस चासुपुज्जं च । विमलमणंतं च जिणं, धम्मं संतिं च वंदामि ॥ ३ ॥

कुंतुं अरं च मल्लिं वंदे सुणिसुव्वयं नमिजिणं च । वंदामि रिद्धमेमि पासं तह वद्वमाणं च ॥ ४ ॥

एवं मए अभियुआ विहयरयमला पहीणजरमणा । चउवीसंपि जिणवरा तित्थयरा मे पसीयंतु ॥ ५ ॥

कित्तियवंदिपमहिया जेए लोगस्स उत्तमा सिद्धा । आरुगवोहिलाभं समाहिवरसुत्तमं दिंतु ॥ ६ ॥

चंदेसु निम्मलयरा आइच्चेसु अहियं पयासयरा । सागरवरगंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ ७ ॥

[पछी खयासमण (ख० २) दइ इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पबमख्खाण कथुं छेजी एय कही खयासमण (ख० २) दइ इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! स्थंडिल शुद्धि कवं ?, इच्छं, कही एकेक दिशाए छ छ मांडलां करे, ते आ प्रमाणे—

स्थंडिलप्रतिष्ठेखनासूत्रम्—(१०)

- (१) आगाढे आसन्ने उचारे पासवणे अणहियासे (२) आगाढे आसन्ने पासवणे अणहियासे
 (३) आगाढे मज्जे उचारे पासवणे अणहियासे (४) आगाढे मज्जे पासवणे अणहियासे
 (६) आगाढे दूरे उचारे पासवणे अणहियासे (६) आगाढे दूरे पासवणे अणहियासे, ॥ ६ ॥
 (१) आगाढे आसन्ने उचारे पासवणे अहियासे (२) आगाढे आसन्ने पासवणे अहियासे
 (३) आगाढे मज्जे उचारे पासवणे अहियासे (४) आगाढे मज्जे पासवणे अहियासे
 (५) आगाढे दूरे उचारे पासवणे अहियासे (६) आगाढे दूरे पासवणे अहियासे ॥ १२ ॥
 (१) अणागाढे आसन्ने उचारे पासवणे अणहियासे (२) अणागाढे आसन्ने पासवणे अणहियासे
 (३) अणागाढे मज्जे उचारे पासवणे अणहियासे (४) अणागाढे मज्जे पासवणे अणहियासे
 (५) अणागाढे दूरे उचारे पासवणे अणहियासे (६) अणागाढे दूरे पासवणे अणहियासे ॥ १८ ॥
 (१) अणागाढे आसन्ने उचारे पासवणे अहियासे (२) अणागाढे आसन्ने पासवणे अहियासे
 (३) अणागाढे मज्जे उचारे पासवणे अहियासे (४) अणागाढे मज्जे पासवणे अहियासे
 (५) अणागाढे दूरे उचारे पासवणे अहियासे (६) अणागाढे दूरे पासवणे अहियासे ॥ २४ ॥

(स्थंडिलशुद्धि कर्षा पछी दैवसिरुपरतिरुमण करे तेनो विधि)

अथ वैदसिकप्रतिक्रमणविधिः

प्रथम खमासमण दइ इरियावहि, तस्सउत्तरी, अन्नत्थ (मूत्र २-६-७-८) कही एक नामस्तवसूत्रं (लोगस्स सूत्रं ९) अथवा चार नवकारानो फाउसंसंग करी "नमो अरिहंताणं" कही पारी मगट लोगस्स (मूत्र ९) 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! चैत्यवंदन कर्त्तुं?' इच्छं. [कही नीचे प्रमाणे चैत्यवंदन ढावो ढोचण उभो करी कहे, ते आ प्रमाणे.]

चैत्यवन्दनं—(११) ॐ नमः पार्श्वनाथाय, विश्वचिंतामणीयते । ह्रीं धरणेद्रवैरोट्यापद्मादेवीयुताय ते ॥ १ ॥

शांतिपुष्टिमहापुष्टि-धृतिक्रीतिविधायिने । ह्रीं द्विद्वयलवैतालसर्वाधिब्याधिनाशिने ॥ २ ॥

जयाऽजिताख्याविजयाख्याऽपराजितयाऽन्वितः । दिशांपालैर्ग्रहयक्षैर्विद्यादेवीभिरन्वितः ॥ ३ ॥

ॐ अस्मिआउसाय नमस्तत्र त्रैलोक्यनाथताम् । चतुःपट्टिः सुरेन्द्रास्ते, भासन्ते छत्रचारैः ॥ ४ ॥

श्रीशैलेश्वरमण्डन ! पार्श्वजिन ! प्रणतकल्पतरुकल्प ! । चूरय दुष्टव्रातं पूरय मे वाञ्छितं नाथ ! ॥५॥ [एम. कही] तीर्थवंदनमूत्रम्—(१२) जंक्किचि नाम तित्थं सग्गे पायालि माणुसे लोए । जाइं जिणविवाइं ताइं सव्वाइं वंदामि ॥१॥ कही शक्रस्तयसूत्रम्—(१३) नमुत्तुणं अरिहंताणं भगवंताणं, आइगराणं तित्थयराणं सयंसंबुद्धाणं, पुरिसुत्तमाणं पुरिस-सीहाणं पुरिसवरपुंडरीयाणं पुरिसवरगंधहृत्थीणं, लोगुत्तमाणं लोगनाहाणं लोगद्वियाणं लोगपईवाणं लोगपज्जोअ-गराणं, अभयदयाणं चवलुदयाणं मग्गदयाणं सरणदयाणं बोद्धिदयाणं, धम्मदयाणं धम्मदेसयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवरचाउरंतचक्कवट्ठीणं, अप्पट्टिहयवरनाणदंसणंधराणं विग्रहच्छउत्तमाणं, जिणाणं जाघयाणं

तिन्नाणं तारयाणं बुद्धाणं बोद्धयाणं मुत्ताणं मोयाणं, सन्वन्नूणं सन्वदरिसीणं सिवमपलमरुअमणं तमन्वलय
मव्वापाहमपुणरावित्तिस्सिद्धिगहनामधेयं ठाणं संपत्ताणं नमो जिजाणं जियभयाणं ॥ जे अ अईआ सिद्धा,
जे अ भविसंसंतिग्गागए काले । संपइ अ वट्टमाणा सन्वे तिविहेण वंदामि ॥ ? ॥ (कही उवा यइ)

चैत्यस्तवसूत्रम्—(१४) अरिहंतचेहआणं करेमि काउस्सगं, वंदणवत्तियाए सक्कारवत्तियाए सम्माण-
वत्तियाए बोहिलाभवत्तियाए निरुवसगवत्तियाए सद्धाए मेहाए धिईए धारणाए अणुप्पेहाए वड्डमाणीए ठामि
काउस्सगं (पछी कायोत्सर्गमूत्रं अन्नत्य सू० ८ कही एक नवकारनो काउस्सग करी 'नमो अरिहंताणं' कही काउस्सग

पारीने थोय कहे—

परमेष्ठिनमस्कारसूत्रम्—[१५] “ नमोऽर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यः ” (कही प्रथम थोय कहे, ते आ प्रमाणे) :—
चूलिकास्तुतिसूत्रम्—[१६] कल्लाणकंदं पढमं जिणंदं, संति तओ नेम्मिजिणं मुणिंदं । पासं पयासं सुगुणिक्कठाणं,
भस्सीइ वंदे सिरिचद्धमाणं ॥१॥ [पछी नामस्तव-लोगस्स (सू. ९) कही सन्वलोए अरिहंतचेइ० (सू. १४) (कही
अन्नत्य० (सू. ८) कही एक नवकारनो काउस्सग करी 'नमो अरिहंताणं' कही काउस्सग पारी बीजी थोय कहे, ते आ प्रमाणे)
अपारसंसारसमुद्वारं, पत्ता सिवं दितु सुइक्कसारं । सन्वे जिणिदा सुरविंदवंदा, कल्लाणवल्लीण चिसालकंदा ।२॥
श्रुतस्तवसूत्रम्— (१७) पुक्खरवरदीवहूढे धापइसंटे भ जंबूदीवे भ । भरहेरवयविदेहे धम्माइगरे नमंसांमि ॥१॥ तम-
तिमिरपडलविद्धंसणस्स सुरगणनरिदमदियस्स । सीमाधररस वंदे, पफ्फोडियमोहजालस्स ॥२॥ जाईजरामरण-

सोगपणासगस्त, कल्लाणपुम्बलविसालसुहावहस्त । को देवदाणवनरिदगणचिअस्स, धम्मस्स सारसुव-
लम्भ करे पमायं ॥ ३ ॥ सिद्धे भो ! पयओ णमो जिणमए नंदी सया संजमे, देवंनागसुवन्नकिन्नरगणस्सम्भूय-
भावचिए । लोगो जत्थ पइट्ठिओ जगमिणं तेलुक्कमचासुरं धम्मो वड्ढउ सासओ विजयओ धम्मत्तरं वड्ढउ ॥४॥
सुअस्स भगवओ करेमि काउस्सगं चंदणवत्तिपाए [सूत्रं १४] अन्नत्थ० (सूत्रं ८) कही एऊ नवकारनो काउस्सग
करी 'नमो अरिहंताणं' कही काउस्सग पारी वीजी थोय कहे, ते आ प्रमाणे]

निब्वाणमग्गे वरजाणकप्पं, पणासियासेसकुवाइदप्पं । मयं जिणाणं सरणं बुहाणं, नमामि निचं तिजगप्पहाणं ॥३ [पछी]
सिद्धस्तवसूत्रम्—[१८] सिद्धाणं बुद्धाणं पारगयाणं परंपरगयाणं । लोअगमुवगयाणं नन्नो सया सन्वसिद्धाणं ॥ १ ॥
जो देवाणचि देवो जं देवा पंजलि नमंसंति । तं देवदेवमहियं सिग्सा वंदे महावीरं ॥ २ ॥ इद्धोवि नमुक्कारो
जिणवरवसहस्त वद्धमाणस्स । संसारसागराओ तारेइ नरं व नारि वा ॥ ३ ॥ वज्जितसेलसिहरे दिवखा नानं
निमीहिया जस्स । तं धम्मचक्खवट्ठि अरिठ्ठेनेमि नमंसाभि ॥४॥ चत्तारि अट्ठ दस दो य वंदिया जिणवरा चउवीसं ।
परमट्ठनिट्ठियट्ठा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ ५ ॥ [कही]

सुरस्मृतिसूत्रम् [१९] वेयावचगराणं संतिगराणं सम्मदिट्ठीममाहिगराणं करेमि काउस्सगं अन्नत्थ० (सूत्र ८) [कही एक-
नवकारनो काउस्सग करी 'नमो अरिहंताण कही' पारी नमोइहत्त (सूत्र १५) कही चोथी थोय कहेवी, ते आ प्रमाणे] कुंदिट्ठ-
गोम्बीरतुसारवत्ता, सरोजहत्था कमले निसन्ना । वाएसिरी पुत्थयवगहत्था, सुहाय सा अम्ह सया पसत्था ॥४॥

[स्तुति कथा पछी शक्रस्तव-नमोत्युणं (मू० १३) कही भगवान् आदिने वंदना करे, ते नीचे प्रमाणे]—
 भगवानादिबंदनमूत्रम्—(२०) भगवानहं आचार्यहं उपाध्यायहं सर्वसाधुहं [ए चारने खमासमणथी बांदी] इच्छाका-
 रेण संदिसह भगवन् ! देवसियपडिक्कमणे ठाडं?, इच्छं, [कही जमणो हाथ ओघा उपर राखी स्थापनाजी सन्धुल
 नीचे प्रमाणे बोळवुं]—

प्रतिक्रमणबीजसूत्रम्—(२१) सव्वस्सवि देवसिअ दुच्चित्तिअ दुब्भासिय दुच्चिट्ठिय मिच्छामि दुक्कडं [एम कहा पछी उभा थर]
 सामायिकसूत्रम्—(२२) करेमि भंते ! सामाहयं, सव्वं सावजं जोगं पक्कखामि जावजीवाए तिविहं तिविहेणं, मणेणं
 वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि, तस्स भंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि
 अप्पाणं थोसिरामि ॥ (पछी आ प्रमाणे आलोचनाद्वय कहेवुं) —

आलोचनासूत्रम्—(२३) इच्छामि ठामि काउस्सगं, जो मे देवसिओ अइयारो कओ काइओ वाइओ माणसिओ
 उस्तुत्तो उम्मगो अकप्पो अकरणिज्जो दुब्धाओ दुव्वित्तिओ अणायारो अणिच्छियव्वो असमणपाउग्गो
 नाणे दंसणे चरित्ते सुए सामाए त्तिहं गुत्तीणं चउण्हं कसायाणं पंचण्हं महव्वयाणं छण्हं जीवनिकायाणं
 सत्तण्हं पिडेसणाणं अट्ठण्हं पवयणमाऊणं नवण्हं वंभचेरगुत्तीणं दसविहे समणधम्मे समणाणं जोगाणं जं
 खंडियं जं विराहियं तस्स मिच्छामि दुक्कडं ॥

[पछी तस्सउत्तरी० (मूत्रं ५), अन्नत्थ० (मूत्र ८), कही अतिचार आलोभवानो काउस्सग करवो, अने काउस्सगमां अतिचारने

माटे नीचेनी गाथा अर्थचितवन पूर्वक एकवार अथवा त्रणवार मूलगाथा गणवी,]—
 अतिचारगाथासूत्रम्— (२४) सयणासणन्नपणे चेई जइ सिज्ज कायउच्चारे । समिई भावण गुती वितहायरणे
 य अइयारो ॥ १ ॥

अर्थ:—संथारो विगेरे शय्या, आसन, भातपाणी, चैत्यवंदन, दशविधयतिथर्म, अथवा साधुवेयात्रचे, वसती, पट्काप, स्पंडिलमात्रु, समिती, भावना अने गुप्ति ए सर्वमां उलटुं आचरवायी जे जे अतिचार थया होय ते (विचारी राखवा.)
 [पछी काउस्तग पारी मगट लोगस्स (सू० ९) कही, त्रीजा आवश्यकनी मुहपत्ति* पडिछेहवी, पछी वांदणां देवां, ते नीचे प्रमाणे]

* मुहपत्तिना पचास बोल.

प्रथम मुहपत्ति उकेळी तेने धे पासे जोतां “सूत्र अर्थ तत्व करी सइहुं” [थच्चापूर्वक हृदयमां धारण करुं] एम चितवडुं, ऊर्ध्व पण्णोडा करतां-मुहपत्ति खंखेरतां “सम्यक्त्वमोहनीय, मिथ्यात्वमोहनीय परिहृहं” एम चितवडुं अने डाये हाथे प्रणवार फेरवतां “कामराग, स्नेहराग, इष्टिराग परिहृहं” एम चितवडु. पछी जमणा हाथनी अंगुलीना आन्तरा वचे मुहपत्ति भरावी, डायहाथनुं सवलुं तळ अणस्पर्शतां अन्दर लेतां “सुदेव, सुगुरु, सुधर्म आदहं” एम चितवडुं; अने एज तळने हस्त तरफ मुहपत्ति वडे यतनापूर्वक अडकतां अने वहार काढतां “कुदेव, कुगुरु, कुधर्म परिहृहं” एम चितवडुं. वीजी वखत एज मुजव “ज्ञान, वर्शन, चारित्र आदहं” अने “ज्ञानविराधना, दर्शनविराधना, चारित्रविराधना परिहृहं.” एम चितवडुं. एज प्रकारे त्रीजी वखत “मनगुप्ति, वचनगुप्ति, कायगुप्ति आदहं” अने “मनदंड, वचनदंड, कायदंड परिहृहं” एम चितवडुं. पछी डायो आलो हाथ प्रमाजतां “हास्य, रति, अरति परिहृहं” एम चितवडुं; अने जमणा हाथ प्रमाणे डाय हाथमां मुहपत्ति पकडी ते वडे जमणो हाथ आलो प्रमाजतां

द्रादशाचतंवदनरुद्रत्रम्— (२५) इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिज्जाए निसीहियाए अणुजाणह मे मिउगहं निसीहि. (कही वेसीने ओघो माथुं हाथथी फरसतां) अ-हो का-यं का-यं का-यं ओवे अडाडी) खमणिज्जो मे किलामो (कहे, पछी) अप्पकिलंताणं वहुसुभेण मे दिवसो वइकंतो ? (एय कही फेर ओवे ने माये हाय अडाढतां) ज-जा-भे? ज-व-णि जं-च-भे?, (कही ओवे माथुं लगाडी कहे) खामेमि खमासमणो! देवसिअं वइकमं, (पछी उभा थइ प्रमार्तन करी पाछा जइ) आवस्सिओए पडिक्कमामि खमासमणाणं देवसिआए आसायणाए तित्तीमन्नघराए जंकिं-चिभिच्छाए मणदुक्कडाए वयदुक्कडाए कापदुक्कडाए कोहाए माणाए मायाए लोभाए सव्वकालिआए सव्वमिच्छा-

भय, शोक, बुगुछा परिहरं” एम चित्तयउं. मस्तकनी प्रमार्जना करत्तां “कृष्णलेइया. नीललेइया, कापोतलेइया परिहरं” सुरानी प्रण प्रतिलेपना करत्तां “रसगौरय, ऋद्धिगौरय, सातागौरय परिहरं” अने हृदयनी प्रण प्रतिलेपना करत्तां “मायाशल्य, नियाणशल्य, मिथ्यात्वशल्य परिहरं ” एम चित्तवउं. उया रभा अने जमणा रभानी पडखे प्रतिलेपना करत्तां, एक तरफ “ क्रोध, मान परिहरं ” अने वीजी तरफ “ माया, लोभ परिहरं” एम चित्तवउं. पछी मुहपत्ति नाभिधी नीचे न लइ जवाय तेषी चरवळावडे प्रतिलेपना करथी. तेमां डावे दीचणें प्रतिलेखतां “पृथ्वीकाय, अण्काय, तेउकायनी जयणा करं” अने जमणा दीचणे “ वायुकाय; वनस्पतिकाय, व्रत्तकायनी जयणा करं” एम चित्तवउ.

ए प्रकारे साधु तथा धायके मुहपत्ति पडिलेइतां पचास योल कहेया, अने प्रण लेइया, प्रण शल्य, चार फयाय ए वरा सिवायना चालीश योल साध्वीए कहेया.

१ वीजा पांढणामां ‘आचस्सिआण’ पद नहिं कहेवु’ अने पाछा पण न हउउं, पण त्पाने त्यांज उभा थइ शेषसुय योलउं, अने प्रतिप्रमणावुत्र पण ‘तस्स धम्मस्स’ सुधी अवप्रहमांज कहेवुं. अने वाकीउं सुत्र अथप्रह पट्टार निक्कळी कहेवुं.

धयाराए सव्वधम्ममाइक्कमणाए आसायणाए जो मे अइआरो कओ तस्स खमासमणो! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि (पछी) इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! देवसियं आलोडं!, इच्छं, आलोएमि जो मे देवसिओं (सू० २३)नो पाठ कही [देवसिक अतिचार आलोववा, ते नीचे प्रमाणे]—

देवसिकअतिचारसूत्रम्— (२६) ठाणे कमणे चंक्रमणे, आउत्ते अणाउत्ते, हरियकायसंघट्टे वीयकायसंघट्टे त्रसकाय-संघट्टे थावरकायसंघट्टे ठाणाओ ठाणं संक्रामिया, देहरे गोचरी वाहिरभूमि मार्गे जातां आवतां खी-तिर्यचतणा संघट्ट परिताप उपद्रव हुवा, दिवसमांहि चारवार सज्जाय सातवार चैत्यवंदन कीधां नहि, प्रति-लेखणा आधी पाछी भणावी, अस्तव्यस्त कीथी, आर्त्तध्यान रौद्रध्यान धयायां, धर्मध्यान शुक्लध्यान धयायां नहि, गोचरीतणा वेतालीस दोप उपजता जोया नहि, पांच दोप मंडलीतणा टाल्या नही, माहुं अणपुजे लीयुं, अणपुजीभूमिकाए परठव्युं, परठव्या पुठे वारत्रण वोसिरे वोसिरे कीयुं नहि, देहराउपाश्रयमांहि पेसतां नीसरतां निसीहि आवस्सही कहेवी चिसारी, जिनभुवने चोराशी आशातना, गुरु प्रत्ये तेत्रीश आशातना कीधी होय, अनरो जे कोइ दिवस संबंधी पापदोप लाग्यो होय ते सविहुं मने वचने कायाए करी मिच्छामिदुक्कडं ॥

(पछी) सव्वस्सविं० (सू० २१) आदि पाठ कही, इच्छाकारेण संदिसह भगवन् (गुरु कहे पडिक्कमह, पछी) इच्छ तस्स मिच्छामि दुक्कडं (कही पछी जमणो ढींचण उभो करी प्रतिक्रमणसूत्र कहे, ते नीचे प्रमाणे)—

प्रतिक्रमणसूत्रम्— (२७) नमो अरिहंताणं० (सू० १) ॥ करेमि भंते सामाहअं० (सू० २२) ॥ चत्तारि मंगलं अरिहंता

मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहृ.मंगलं, केवलपन्नतो धम्मो मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लो-
गुत्तमा, साहृ लोगुत्तमा, केवलपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो । चत्तारि सरणं पवज्जामि, अरिहंते सरणं पवज्जामि, सिद्धे
सरणं पवज्जामि, साहृ सरणं पवज्जामि. केवलपन्नत्तं धम्मं सरणं पवज्जामि ॥ इच्छामि पडिक्कमिडं जो मे देव-
सिओ० (सू० २३) इच्छामि पडिक्कमिडं ईरिआवहिआए० (सू० ६) इच्छामि पडिक्कमिडं पगामसिज्जाए
निगामसिज्जाए संथारा उच्चट्टणाए परिअट्टणाए आउंणपसारणाए छप्पइयसंयट्टणाए कुइए ककराइए छीए
जंभाइए आमोसे ससरक्खामोसे आउलमाउलाए सोअणवत्तिआए इत्थीविप्परिआसिआए दिट्ठीविप्परि-
आसिआए मणविप्परिआसिआए ' पाणभोअणविप्परिआसिआए जो मे देवसिओ अइआरो कओ तस्स
मिच्छामिइक्कडं ॥ पडिक्कमामि गोअरचरिआए भिक्खायरिआए उग्घाउकवाउग्घाडणाए साणावच्छादारासं-
यट्टणाए मंडिपाहुडिआए धलिपाहुडिआए ठवणापाहुडिआए संकिए सहसागारिए अणेसणाए पाणेसणाए
पाणभोअणाए वीअभोअणाए हरिअभोअणाए पच्छेक्कम्मिआए पुरेक्कम्मिआए अदिट्टहडाए दगसंसट्टहडाए
रयसंसट्टहडाए पारिसाडणिआए पारिद्वारिआए ओहासणभिरूखाए जं उग्गमेणं उप्पायणेसणाए अपरिसुद्धं
पडिगहिअं परिसुचं वा जं न परिद्विअं तस्स मिच्छामिइक्कडं ॥ पडिक्कमामि चाउक्कालं सज्झायस्स अकरणयाए
वभओकालं भंडोवगरणस्स अप्पडिलेहणाए दुप्पडिलेहणाए अप्पमज्जणाए दुप्पमज्जणाए अइक्कमे वइक्कमे
अइआरे अणायारे जो मे देवसिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छामिइक्कडं । पडिक्कमामि एगविहे असंजमे. ?

घयाराए सव्वधम्मइकमणाए आसायणाए जो मे अइआरो कओ तस्स खमासमणो! पडिकमामि निदामि गरिहामि
अप्पाणं वोसिरामि। (पछी) इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! देवसियं आलोडं, इच्छं, आलोएमि जो मे देवसिओं
(सू० २३)नो पाठ कही [देवसिक अतिचार आलोचवा, ते नीचे प्रमाणे]—

देवसिकअतिचारसूत्रम्— (२६) ठाणे कमणे चंक्रमणे, आउत्ते अणाउत्ते, हरियकायसंघटे वीयकायसंघटे चसकाय-
संघटे धावरकायसंघटे ठाणाओ ठाणं संकामिया, देहरे गोचरी वाहिरभूमि मार्गे जातां आवतां खी-
तिर्घचतणा संघट परिताप उपद्रव हुवा, दिवसमांहि चारवार सज्जाय सातवार चैलवंदन कीधां नहि, प्रति-
छेवणा आयी पछी भणावी, अस्तव्यस्त कीधी, आर्त्तध्यान रौद्रध्यान ध्यायां, धम्मध्यान शुक्लध्यान ध्यायां
नहि, गोचरीतणा वेतालीस दोप उपजता जोया नहि, पांच दोप मंडलीतणा टाल्या नही, मात्तुं अणपुंजे लीधुं,
अणपुंजीभूमिकाए परठव्युं, परठव्या पुठे वारत्रण वोसिरे कीधुं नहि, देहराउपाथ्रपमांहि पेसतां नोसरतां
निसीहि आवस्सही कहेवी विसारी, जिनमुवने चोराशी आशातना, गुरु प्रत्ये तेवीश आशातना कीधी होय,
अनेरो जे कोइ दिवस संयथी पापदोप लाग्यो होय ते सचिहुं मने वचने कायाए करी मिच्छामिटुकडं ॥

(पछी) सव्वस्सविं० (सू० २१) आदि पाठ कही, इच्छाकारेण संदिसह भगवन् (गुरु कहे पडिकमह, पछी) इच्छ तस्स
मिच्छामि टुकडं (कही पछी जपणो ढोचण उभो करी प्रतिक्रमणमूत्र कहे, ते नीचे प्रमाणे)—

प्रतिक्रमणसूत्रम्— (२७) नमो अरिहंतानं० (सू० १) ॥ करेमि भंते सामाहअं० (सू० २२) ॥ चत्तारि मंगलं अरिहंता

मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू. मंगलं, केवलपन्नतो धम्मो मंगलं । चचारि लो गुत्तमा, अरिहंता लो गुत्तमा, सिद्धा लो-
 गुत्तमा, साहू लो गुत्तमा, केवलपन्नतो धम्मो लो गुत्तमो । चचारि सरणं पवज्जामि, अरिहंते सरणं पवज्जामि, सिद्धे
 सरणं पवज्जामि, साहू सरणं पवज्जामि. केवलपन्नत्तं धम्मं सरणं पवज्जामि ॥ इच्छामि पडिक्कमिडं जो मे देव-
 सिओ० (सू० २३) इच्छामि पडिक्कमिडं इरिआवहिआए० (सू० ६) इच्छामि पडिक्कमिडं पगामसिउजाए
 निगामसिउजाए संथारा उव्वट्टणाए परिअट्टणाए आउंटणपसारणाए छप्पइयसंयट्टणाए कुइए कक्कराइए छीए
 जंभाइए आमोसे ससरक्खामोसे आउलमाउलाए सोअणवत्तिआए इत्थीचिप्परिआसिआए दिट्ठीचिप्परि-
 आसिआए मणचिप्परिआसिआए पाणमोअणविप्परिआसिआए जो मे देवसिओ अइआरो कओ तस्स
 मिच्छामिदुक्कडं ॥ पडिक्कमामि गोअरचरिआए भिक्खुआयरिआए उग्घाउकवाडउग्घाडणाए साणावच्छादारासं-
 घट्टणाए मंडिपाहुडिआए धलिपाहुडिआए ठवणापाहुडिआए संकिए सहसागारिए अणेसणाए अणेसणाए
 पाणमोअणाए वीअमोअणाए हरिअमोअणाए पच्छेक्कमिआए पुरेक्कमिआए अदिट्टहड्डाए दगसंसट्टहड्डाए
 रयसंसट्टहड्डाए पारिसाडणिआए पारिद्धावणिआए ओहासणभिइवाए जं उग्गमेणं उप्पायणेसणाए अपरिसुद्धं
 पटिग्गहिअं परिमुत्तं वा जं न परिट्ठविअं तस्स मिच्छामिदुक्कडं ॥ पडिक्कमामि चाउक्कालं सज्झापस्स अकरणयाए
 उभओरालं भंडोवगरणस्स अप्पडिलेहणाए दुप्पडिलेहणाए अप्पमज्जणाए दुप्पमज्जणाए अइक्कमे वइक्कमे
 अइआरे अणायारे जो मे देवसिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छामिदुक्कडं । पडिक्कमामि एगविहे असंजमे. ?

पडिक्कमामि दोहि बंधणेहि-रागबंधणेणं दोसबंधणेणं २ पडिक्कमामि तीहि दंडेहि-मणदंडेणं कायदंडेणं,
 पडिक्कमामि तीहि गुत्तीहि-मणगुत्तीए वयगुत्तीए कायगुत्तीए, पडिक्कमामि तीहि सल्लेहि-मायासल्लेणं निआणसल्लेणं
 मिच्छादसणसल्लेणं, पडि० तीहि गारवेहि-इइढीगारवेणं रसगारवेणं सांयागारवेणं, पडि० तीहि विराहणाहि-
 नाणविराहणाए दंसणविराहणाए चरित्तविराहणाए ३ पडि० चउहि कसाएहि--कोहकसाएणं माणकसाएणं
 मायाकसाएणं लोभकसाएणं, पडि० चउहि सवाहि-आहारसवाए भयसवाए मेहुणसवाए परिगहसवाए, पडि०
 चउहि विकहाहि-इत्थीकहाए भत्तकहाए देसकहाए रायकहाए, पडि० चउहि ज्ञाणेहि-अट्टेणं ज्ञाणेणं रुद्धेणं ज्ञाणेणं
 धग्गेणं ज्ञाणेणं सुक्केणं ज्ञाणेणं पडि० पंचहि किरिआहि-काइआए अहिगरणिआए पाउसिआए पारिता-
 वणिआए पाणाइवायकिरिआए, प० पंचहि कामगुणेहि--सद्धेणं रसेणं गंधेणं फासेणं, प० पंचहि महच्चएहि-
 पाणाइवायाओ वेरमणं सुसावायाओ वेरमणं अदिन्नादाणाओ वेरमणं मेहुणाओ वेरमणं परिगहाओ वेरमणं, प०
 पंचहि समिद्धिहि-ईरियासमिद्धिए भासासमिद्धिए एसणासमिद्धिए आयाणभंडमत्तनिक्खेवणासमिद्धिए उचारपासव-
 णखेलजल्लसिघाणपारिट्ठावणिआसमिद्धिएव प० छहि जीविकाएहि-पुढविकाएणं आउकाएणं तेउकाएणं वाउकाएणं
 धणस्सइकाएणं तसकाएणं, प० छहि लेसाहि-किणहलेसाए नीललेसाए काऊलेसाए तेऊलेसाए पग्गलेसाए सुक्कले-
 साएइ प० सत्तहि भयठाणेहि अट्ठहि मयठाणेहि नवहि बंभवेरगुत्तीहि दसविहे समणधम्मे इगारसहि उवासगणडि-
 माहि धारसहि भिक्खुपडिमाहि तेरसहि किरिआठाणेहि चउदसहि भूअगामेहि पन्नरसहि परमाहम्मिणहि सोलसहि

गाहासोलसणहि सत्तरसविहे असंजमे अठ्ठारसविहे अयंभे एगूणवीसाए नायज्झयणेहि वीसाए असमाहि-
 ट्ठानेहि इक्कवीसाए सवलेहि पावीसाए परीसहेहि तेवीसाए सूअगडज्झयणेहि चउवीसाए देवेहि पणवीसाए
 भावणाहि छन्वीसाए दसाकप्पववहराणं उद्वेसणकालेहि सत्तावीसाए अणगारगुणेहि अट्ठावीसाए आयारप्प-
 कप्पेहि एगूणतीसाए पावसुअप्पसंगेहि तीसाए मोहणीयठणेहि इगतीसाए सिद्धाइगुणेहि यत्तीसाए जोगसगहेहि
 तित्तीसाए आसायणाहि, अरिहंताणं आसायणाए १ सिद्धाणं आसायणाए २ आयरियाणं आसायणाए ३
 उवज्झायाणं आसायणाए ४ साहणं आसायणाए ५ साहुणीणं आसायणाए ६ सायधानं आसायणाए ७ सावि-
 याणं आसायणाए ८ देवानं आसायणाए ९ देवीणं आसायणाए १० इहलोगस्स आमायणाए ११ परलोगस्स
 आसायणाए १२ केवल्लिपन्नत्तस्स धम्मस्स आसायणाए १३ सदेवमणुआसुरस्स लोगस्स आसायणाए १४
 सव्यपाणभूअजीवसत्ताणं आसायणाए १५ कालस्स आसायणाए १६ सुअस्स आसायणाए १७ सुअदेवयाए
 आसायणाए १८ वायणायरिअस्स आसायणाए १९ जं वाइद्धं २० वचामेलिअं २१ हीणस्सवरं २२ अचम्मवरं २३
 पगहीणं २४ विणयहीणं २५ घोसहीणं २६ जोगहीणं २७ सुत्तु दिन्नं २८ दुत्तु पडिच्छिअं २९ अकाले कओ सज्जाओ
 ३० काले न कओ सज्जाओ ३१ असज्जाए सज्जाइअं ३२ सज्जाए न सज्जाइअं ३३ तस्स मिच्छामिदुकइं ॥
 नमो चउवीसाए तित्थयराणं उसभाइमहावीरपज्जवसाणाणं, इणमेव निग्गंथं पावयणं सच्चं अणुत्तरं केवल्लिअं
 पडिपुत्तं नेआउअं संसुद्धं सल्लगत्तणं सिद्धिमगं सुत्तिसगं निज्जाणमगं निच्चाणमगं अचित्तहमचिसंधि

सन्वदुक्त्वप्पहीणमगं, इत्थं ठिआ सिञ्चति मुञ्चति परिनिव्वायंति सन्वदुक्खाणमंतं करंति,
 तं धम्मं सदहामि पत्तिआमि रोएमि फासेमि पालेमि अणुपालेमि, तं धम्मं सदहंतो पत्तियंतो रोअंतो फासंतो
 पालंतो अणुपालंतो तस्स धम्मस्स केवल्लिपन्नत्तस्स अब्भुद्धिओ मि आराहणाए विरओमि चिराहणाए असंजमं
 परिआणामि संजमं उवसंपज्जामि अर्थमं परिआणामि धंमं उवसंपज्जामि अकल्पं परिआणामि कल्पं उवसंपज्जामि
 अन्नाणं परिआणामि नाणं उवसंपज्जामि अकिरिअं परिआणामि किरिअं उवसंपज्जामि मिच्छत्तं परिआणामि
 सम्मत्तं उवसंपज्जामि अयोहिं परिआणामि योहिं उवसंपज्जामि अमगं परिआणामि मगं उवसंपज्जामि, जं
 संभरामि जं च न संभरामि जं पडिक्कामामि जं च न पडिक्कामामि तस्स सन्वस्स देवसिअस्स अहआरस्स पडिक्क-
 मामि समणोऽहं संजयविरयपडिहयपच्चक्खायपायकम्मे अनिआणो दिट्ठिसंपन्नो मायामोसविचज्जिओ अइहा-
 इज्जेसु दीवससुइसु पन्नरससु कम्ममूमीसु जावंत केवि साहू रयहरणगुच्छपडिग्गहधारा पंचमहव्वयधारा
 अद्वारससहस्ससीलंगधारा अक्खयायारचरिआ ते सन्वे सिरसा मणसा मत्थणणवंदामि, खामेमि सन्वजीवे, सन्वे
 जीवा खमंतु मे । मिची मे सन्वभूएसु, वेरं मज्झ न केणई ॥ १ ॥ एवमहं आलोइअ निदिअ गरहिअ दुगुंछिअं
 सम्मं । निविहेण पडिक्कंतो वंदामि जिणे चउन्वीसं ॥ २ ॥ इति श्रीप्रतिक्रमणसूत्रम् ॥

[प्रतिक्रमणमूत्र कथा पछी वे वांदणां० (मू० २५) देवां, पछी अब्भुद्धिओ० (मू० ४) थी खामीने पछी वे वांदणां (ख० २५)
 दइ अवग्रहथी बहार जइ वे हाय जोडी नीचे प्रमाणे पाठ कहेवो.]—

आचार्यादिकक्षामणसूत्रम्—(२८) आगरिप उवञ्जाए सीसे साहम्मिए कुल गणे अ । जे मे केह रुसाया सन्वे ति-
 विहेण खामेमि ॥ १ ॥ सन्वस्स समणसंघस्स भगवओ अंजलि करिय सीसे । सन्धं खंमावइत्तां ग्वमामि'सन्वस्स
 अहयंपि ॥ २ ॥ सन्वस्स जीवरासिस्स भावओ धम्मनिहियनियचित्तो । सन्धं ग्वमावइत्ता ग्वमामि
 सन्वस्स अहयंपि ॥ ३ ॥

[पृष्ठी करेमि भंते० (सू० २२) इब्भामि ठामि० (सू० २३) तस्सउत्तरी० अन्नत्थ० (सू० ७,८) क्खी वे लोगस्स अथवा
 आठ नोकारनो काउस्सग करी पारी लोगस्स० (सू० ९) क्खी सन्नलोए अरिहंतचेह० (सू० १४) अन्नत्थ० (सू० ८)
 क्खी, एक लोगस्स अथवा चार नक्कारनो काउस्सग करी पारी पुक्खरवरदी० सुअस्स० भग० (सू० १७) करेमि काउ०
 वंदणवत्ति (सू० १४) क्खी अन्नत्थ (सू० ८) क्खी, एक लोगस्स के चार नक्कारनो काउस्सग करी, पारी, मिद्धानं बुद्धानं
 (सू० १८) क्खी सुअदेवाए करेमि काउस्सगं अन्नत्थ (सू० ८) क्खी एक नक्कारनो काउस्सग करी नमोऽहंत् (सू० १५)
 क्खी, नीचेनी थोय कहेवी]

श्रुतदेवतास्तुतिः—(२२)सुअदेवया भगवई नाणावरणीयरुम्मसंयायं । तेसिं ग्ववेउ सययं जेतिसिं सुअसागरे मत्ती ॥ १ ॥

[पृष्ठी खित्तदेवयाए करेमि काउस्सगं अन्नत्थ० (सू० ८) क्खी एक नक्कारनो काउस्सग करी पारी नमोऽहंत्
 (सू० १५) क्खी नीचेनी थोय कहेवी]—

क्षेत्रदेवतास्तुतिः—(३०) जीसे विचे साह दंमणनाणेहिं चरणसहिपहिं । साहंति सुक्खमगं सा देवी हरउ इरियाहं । १ ।

[पृष्ठी मगट एक नवकार (ख० १) कही छथा आवश्यक्की मुहपत्ति पचास बोलथी पडिलेहवी, पळी वे वांदणां (ख० २५) देवां, पळी सामायिक चतुर्विंशतिस्तच बंदन प्रतिक्रमण कायोत्सर्ग प्रत्याख्यान कर्तुं छेजी ! इच्छामो अणुसट्टि नमो त्र्यमासणां नमोऽहंत् (ख० १५) कही नीचेनी वीरस्तुति कहेवी]

वैवसिकान्द्यमंगलं—(३१) नमोऽस्तु बद्धमानाय, स्पर्धमानाय कर्मणा । तज्जयावाप्तमोक्षाय, परोक्षाय कुतीर्थिनाम् ॥१॥
 येषां चिरुचाराविदराज्या ज्यायःक्रमकमलाबलिं दधत्या । सदशैरिति संगतं प्रशस्यं कथितं संतु शिवाय ते जिनेन्द्राः ॥२॥ कयायतापार्दितजन्तुनिर्धृतिं, करोति यो जैनमुखांबुदोद्गतः । स शुक्रमासोद्भववृष्टिसन्निभो, दधातु तुष्टिं मयि विस्तरो गिराम् ॥ ३ ॥

[पृष्ठी नमुत्युणं (ख० १३) कही, इच्छाकारेण संदिसह भगवन् स्ववन्न भणुं ! एष कही नमोऽहंत् (ख० १५) कही स्वन्न कहेयुं वे नीचे प्रमाणे]—

संतिकरं सूत्रम्—(३२) संतिकरं संतिजिणं जगसरणं जयसिरीइ दायरं । समरामि भत्तपालगनिव्वाणिगरुडकयसेवं ॥१॥ ॐ सनमो विष्णोसहिपत्ताण सतिसामिपायाणं । झौं स्वाहामंतेणं सञ्वासिवदुरिअहरणाणं ॥२॥ ॐ संतिनमु-
 कारो खेलोसहिमाइलट्टिपत्ताणं । सौं ह्रीं नमो सञ्बोसहिपत्ताणं च देह सिरिं ॥ ३ ॥ वाणो तिहुअणसाप्पिणि
 सिरिदेवि जम्बराय गणिपिडगा । गहदिसिपाल सुरिंदा सयावि र्खवंतु जिणभत्ते ॥४॥ र्खवंतु मम रोहिणि
 पत्तत्ति चज्जसिबला य सया । वज्जंक्कसि चक्केसरि नरदत्ता कालि महकालि ॥ ५ ॥ गोरी तह गंधारी महज्जाला

माणवी भ वदृष्टा॥ अच्युता माणसिया उ देवीओ ॥६॥ जखला गोमुह महजफ्ल तिमुह जखलेम
तुंषर कुसुमो । मायंगो विजयाजिअ बंभो मणुओ सुरकुमारो ॥ ७ ॥ छम्मुह पयाल किन्नर गरलो गंधव्व तहय
जखिबंदो । कूधर वरुणो भिउडी गोमेहो पास मायंगो ॥८॥ देवीओ चक्रेसरी अजिआ दुरिआरि कालि मह-
काली॥अच्युअ संता जाला सुतारयाऽसोय सिरिवच्छा ॥९॥ चंडा विजयंकुसी पन्नइत्ति निव्वाणि अच्युआ धरणी॥
चहृष्टछुत्त गंधारि अंय पउमावई सिद्धा ॥१०॥ इअ तित्थरक्खणरया अन्नेऽवि सुरा सुरी अ चउहाविा वंतरजोइणि-
पमुहा कुणंतु रक्खं सथा अम्हं ॥११॥ एवं सुदिट्ठिसुरगुण सहिओ संघस्स संनिजिणचंदो। मज्झवि करेउ रक्खं
सुणिसुंदरस्सरिथुअमहिमा ॥ १२ ॥ इअ संतिनाह! सन्मदिट्ठी रक्खं सरइ तिकाळं जो । सन्वोवदहरहिओ
स लहइ सुहसंपयं परमं ॥ १३ ॥ [उपरंतुं अगर गमे ते वीजुं स्तवन कया पछी वरकनक कहे]—

ससतिशतजिनवन्दनसूत्रम्—(३३) वरकनकशंखविहुमरकतघनसन्निभं विगतमोहं । ससतिशतं जिनानां सर्वामर-
पूजितं वंदे ॥ १ ॥

[पछी भगवानहं आचार्यहं उपाध्यायहं सर्वसाधुहं एम चार खमासमणयी वांदी इच्छाकारेण संदिसह भगवन् !
देवसियपायच्छित्तविसोहणत्थं काउस्सग करं, इच्छं, देवसियपायच्छित्तविसोहणत्थं करेमि काउस्सगं अन्नत्थ
(ख० ८) कही, चार लोगस्सओ काउस्सग करवो. पछी 'नमो अरि०' कही काउस्सग पारी मगट लोगस्स० (ख० ९) कहेवो,
पछी खमा० (ख० २) दइ इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सज्जाय संदिसाहुं?, इच्छं, कही इच्छाकारेण संदिसह

भगवन् सर्वज्ञाय कर्त्तुं, इच्छं, कही एक नक्कार कही नीचेनी सञ्ज्ञाय कहे]

द्रुमपुल्पिकाध्ययनसूत्रम्—(३४) धम्मो मंगलमुक्किहं, अहिंसा संजमो तवो । देवावि तं नमंसंति, जस्स धम्मो सया मणो ॥१॥ जहा दुमस्स पुप्फेसु, भमरो आवियह रसं । नय पुप्फं किलामेइ, सो य पीणेइ अप्पयं ॥२॥ एमेए समणा सुचा; जे लोए संतिसाहुणो । विहंगमा व पुप्फेसु, दाणभत्तेसणे रया ॥३॥ वयं च वित्ति लब्भामो, न य कोइ उयहम्मइ । अहागडेसु रीयन्ते, पुप्फेसु भमरा जहा ॥४॥ महुकारसमा बुद्धा, जे भवंति अणिस्सिया । नाणापि-डरंया वंता, तेण बुधंति साहुणो चिचेमि ॥ ५ ॥

[ते कया पछी एक नक्कार गणी खंमा० (ख० ८) दई इच्छाकारेण संदिहह भगवन् दुःखखल्वयकम्मखलयनिमित्तं काउस्सग कर्त्तुं, इच्छं, दुक्खलखल्वयकम्मखलयनिमित्तं करेमि काउस्सगं अब्रत्थ (ख० ८) कही संपूर्णं चार लोगस्सणो काउस्सग करी पारी नमोऽर्हत् (ख० १५) कही, लघुशांति कहेवी, ते आ प्रमाणे—

लघुशांतिस्त्वसूत्रम्—(३४) शांतिः शांतिनिशांतं शांतं शांताशिवं नमस्कृत्य । स्तोतुः शांतिनिमित्तं मंत्रयदेः शांतपे स्तौमि ॥ १ ॥ ओमिति निश्चितवचसे नमो नमो भगवतेऽर्हते पूजाम् । शांतिजिनाय जयवते यशस्विने स्यामिने दमिनाम् ॥२॥ सकलातिशेषक्रमहासंपत्तिसमन्विताय शस्याय । त्रैलोक्यपूजिताय च नमो नमः शांतिदेवाय ॥३॥ सर्वाभरसुसमृहस्वामिकसंपूजिताय नजिताय । सुवनजनपालनोद्यतमाय सततं नमस्तस्मै ॥४॥ सर्वदुरितौघनाशनकराय सर्वाशिवप्रशमनाय । द्रुष्टग्रहंभूतपिशाचशाकिनीनां प्रमथनाय ॥ ५ ॥ यस्येति

नाममंत्रप्रधानवाक्योपयोगकृततोषा । चिजया कुरुते जनहितमिति च नृता नमत तं शांतिम् ॥ ६ ॥ भयतु
नमस्ते भगवति ! चिजये सुजये परापरैरजिते ! अपराजिते ! जगत्यां जयतीति जयावहे भवति ! ॥ ७ ॥
सर्वस्यापि च संघस्य भद्रकल्याणमंगलप्रददे । साधूनां च सदा शिवसुतुष्टिपुष्टिप्रदे जीयाः ॥ ८ ॥ भव्यानां
कृतसिद्धे ! निर्धृतिनिर्वाणजननि ! सत्त्वानाम् । अभयप्रदाननिरते ! नमोऽस्तु स्वस्तिप्रदे ! तुभ्यम् ॥ ९ ॥ भक्तानां
जंतूनां शुभावहे ! नित्यमुद्यते ! देवि ! । सम्यग्दृष्टीनां धृतिरनिमतिबुद्धिप्रदानाय ॥ १० ॥ जिनशासन
निरतानां शांतिनतानां च जगति जनतानाम् । श्रीसंपत्कीर्त्तियशोवर्द्धनि ! जयदेवि ! विजयस्य ॥ ११ ॥ सलिला-
नलविपविपधरदुष्टग्रहराजरोगरणभयतः । राक्षसरिपुगणमारीचैरेतिश्वपांदादिभ्यः ॥ १२ ॥ अथ रक्ष रक्ष
सुशिवं कुरु कुरु शांतिं च कुरु कुरु सदेति । तुष्टि कुरु कुरु पुष्टि कुरु कुरु स्वस्तिं च कुरु कुरु त्वं ॥ १३ ॥
भगवति ! गुणवति ! शिवशांतिस्तुष्टिपुष्टिस्वस्तीद् कुरु कुरु जनानां । ओमिति नमो नमो ह्रीं ह्रीं ह्रीं यः क्षः ह्रीं
कुद् कुद् स्वाहा ॥ १४ ॥ एवं यन्नामाक्षरपुरस्सरं संस्तुता जयादेवी । कुरुते शांतिं नमतां [पाठांतरे कुरुते
शांतिनिमित्तं] नमो नमः शांतये तस्मै ॥ १५ ॥ इति पूर्वसूरिर्दिशितमंत्रपदविधिर्भक्तः स्तवः शांतेः । सलिलादि-
भयविनाशी शांत्यादिकश्च भक्तिमताम् ॥ १६ ॥ यश्चैनं पठति सदा शृणोति भावयति वा यथायोगं । स
ह्नि शांतिपदं यायात् (पाठांतरे शिवशांतिपदं यायात्) सूरिः श्रीमानदेवश्च ॥ १७ ॥ उपसर्गाः क्षयं यांति-
च्छिद्यन्ते चिन्नवह्यः । मनः प्रसन्नतामेति, पूज्यमाने जिनेश्वरे ॥ १८ ॥ सर्वमंगलमंगल्यं, सर्वकल्याणकारणम् ।

प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम् ॥ १९ ॥

[पछी काउस्तग पाली प्रगट लोगस्स (सू० ९) कही, अविधि आशातनानो मिच्छामि दुक्कडं देवो.]

इति देवासिकप्रतिक्रमणविधि

[छ घडी रात गया पछी संथारा पोरसी भणावाय,—

अथ संथारा पोरिसी भणाववानो विधि:

प्रथम खमासमण (सू० २) कही “इच्छाकारेण संदिसह भगवन् बहुपडिपुन्ना पोरसी” कही खमासमण (सू० २) इरियावहियं (सू० ६), तस्सउत्त० (सू० ७), अन्नत्थ० (सू० ८), कही एक लोगस्स अथवा चार नवकारनो काउस्तग करवो, पछी ‘नमो अरिहंताणं’ कही काउस्तग पारी प्रगट लोगस्स० (सू० ९) कहे पछी “इच्छाकारेण संदिसह भगवन् बहुपडिपुन्ना पोरिसी राइयसंथारए ठामि?, इच्छं” कही—

पार्श्वचैत्यवंदनसूत्रम्— (३६) चउक्कसायपडिमल्लुल्लूरुणु, इज्जयमयणयाणमुसुमूरुणु। सरस्सपिअंगुवन्नुगपगामिउ, जयउ पासु भुवणत्तयसा मिउ ॥ १ ॥ जसु तणुकंतिकडप्पसिणिद्धउ, सोहह फणिमणिकिरणालिद्धउ। नंनव-जलहरतडिह्ययलंछिउ, सो जिणु पासु पयच्छउ वंछिउ ॥ २ ॥

[पछी नसुत्थुणं० (सू० १३) कही]

सर्वचैत्यवन्दनसूत्रम्— (३७) जावन्ति चेइआई उइडे अ अहे अ तिरिअलोए अ । सन्वाई ताई धंदे इह संतो'तत्य संताई ॥ १ ॥ [पछी खमासमण (सू० २) दइ]

सर्वसाधुवन्दनसूत्रम्— (३८) जावंत केवि साहू भरहे-खग-महाविदेहे अ । सन्वेसि तेसि पणओ तिविहेण तिदंडविरयाणं ॥ १ ॥ पछी नमोऽर्हत्त० (सू० १५) कही. उवसगहरं कहे—

पार्थनाथस्तवनसूत्रम्— (३९) उवसगहरं पासं पासं वंशामि कम्मघणमुक्कं । विसहरविसनिन्नासं मंगलकछाणआवासं ॥ २ ॥ विसहरफुल्लिगमंतं कंठे धारेइ जो सया मणुओ । तस्स गहरोगमारी दुइजरा जंति उवसामं ॥२॥ चिइउ दूरे मंतो तुज्झ पणामोऽचि बहुफलो होइ । नरतिरिएसुचि जीवा पावंति न दुक्खदोगच्चं ॥ ३ ॥

तुह सम्मत्ते लद्धे चित्तामणिकप्पपायव्वमहिए । पावंति अविघ्घेण जीवा अयरामरं ठाणं ॥ ४ ॥ इय संयुओ महायस ! भत्तिभरनिव्वभरेण हियएण । ता देव ! दिज्ज वोहि भवे भवे पासजिणचंद ! ॥ ५ ॥ [कही पछी] प्रणिधानसूत्रम्— (४०) जय वीथराय जगगुरु होउ ममं तुह पभावओ भयवं ! । भवनिव्वेओ मग्गणुमारिआ इट्ठफलसिद्धी ॥१॥ लोगविरुद्धचाओ गुरुजणपूआ परत्थकरणं च । सुहगुरुजोगो तव्वयणसेवणा आभवमखंडा ॥ २ ॥ वारिज्झइ जइवि निआणवंधणं वीथराय ! तुह समए । तहवि मम हुज्झ सेवा भवे भवे तुम्ह चलणाणं ॥३॥ दुक्खवत्खउ कम्मत्खओ समाहिमरणं च वोहिलाओ अ । संपज्जउ मह एअं तुह नाह ! पणामकरणेणं ॥४॥ सर्वमंगलमांगलयं, सर्वकल्याणकारणम् । प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम् ॥ ५ ॥

[पृष्ठी त्रयमासमण० (३० २) कही “इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! संथारापोरिसी भणाववा मुहपत्ति पडिलेहुं ? (गुरु कहे “पडिलेदेह” पृष्ठी इच्छं” कही मुहपत्ति पडिलेहवी, पृष्ठी आ सुत्र बोलवुं.]

संस्तारकपौरसीगृत्रम्—(४१) निसीहि निसीहि नमो खमासमणां गोयमाईणं महासुणीणं [एम कहा पृष्ठी एरु नगर तथा ऋमि भंते० त्रणवार कहेवां. ल्यारपृष्ठी नीचे प्रमाणे भणवुं] अणुजाणह जिट्टिज्जा!, अणुजाणहं परमगुरु गुरुणरयणेहि मंडियसरीरा । यहुपडिपुत्रा पोरिसी राहयसथारए ठामि ॥१॥ अणुजाणह संथारं चाहुवहाणेण यामपासेणं । कुम्भुडिपायपसारण अतरंत पमज्जाए भूमि ॥ २ ॥ संकोइअसंडासा उव्वट्ठते य कायपडिलेहा । दग्गईउवभोगं ऊसाखनिंभणाऽलोए ॥३॥ जइ मे हुज्ज पमाओ इमस्स देहस्सिमाइ रयणीए । आहारमुवहि देहं मव्वं तिविहेण वोसिरिअं ॥४॥ चचारि मंगलं, अरिहतामंगलं साह मंगलं साह मंगलं केवल्लिपन्नतो धम्मो मंगलं ॥ चचारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा साह लोगुत्तमा केवल्लिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो ॥ चतारि सरणं पवज्जामि, अरिहंते सरणं पवज्जामि सिद्धे सरणं पवज्जामि साह सरणं पवज्जामि केवल्लिपन्नत्तं धम्मं सरणं पवज्जामि ॥ पाणाइवायमलिअं चोरिकं मेहुणं दविणमुच्छं । कोहं माणं मायं लोअं पिज्जं तथा दोसं ॥५॥ कलहं अग्गमख्खणं पेसुन्नं रहअरइसमाउत्तं । परपरिवायं मायामोसं मिच्छत्तसल्लं च ॥६॥ वोसिरिसु इमाइं सुग्गमग्गसंसग्गविग्घभूआइं । दुग्गइनिंयंघणाइं अद्वारस पावठाणाइं ॥७॥ एगोऽहं नत्थि मे कोइं, नाहमन्नस्स कस्सइ । एवं अदीणमणसो, अप्पाणमणुसासह ॥ ८ ॥ एगो मे सासओ अप्पा, नाणादे-

सणसंजुओ । सेसा मे याहिरा भावा, सब्बे संजोगलम्बणा ॥ १२ ॥ संजोगमूला जीवेण, पत्ता दुःखपरंपरा ।
 तम्हा संजोगसंबंध, सब्बं तिचिहेण घोसिरिअं ॥ १३ ॥ अरिहंतो मह देवो जावज्जीवं सुसाहुणो गुहणो ।
 जिणपन्नत्तं तत्तं, इअ सम्मत्तं मए गहिअं ॥ १५ ॥ [आ गाथा त्रणवार बोलवी, पछी त्रण नवकार गणवा, तेवार पंछी
 नीचेनी त्रण गाथा बोलवी.]

खमिअ खमाविअ मह खमिअ, सब्बह जीवनिक्काय । सिद्धहं साख आलोपणह, सुज्झह चइर न भाव ॥ १५ ॥ सब्बे
 जीवा कम्मवत्त, चउदहराज भंमंत । ते मे सब्ब खमांविआ, सुज्झवि तेह खंमंत ॥ १६ ॥ जं जं मणेण वद्धं
 जं जं चाएण भासिअं पावं । जं जं काएण कयं मिच्छामिदुक्कंडं तस्म ॥ १७ ॥
 तेवार पछी अरिहंतनुं ध्यान करतो कुक्कुडिपायपसारण एरीते ज्ञयन करे.



चार घडी पाछली रात रहे त्तारे उभों थइ मनमां नवकारमंत्रनुं स्मरण करतो थोडो टाइम आत्मानो विचार करे, पछी मात्रा-
 दिरुनी शंका टाली स्वस्थचिचवालो थइ प्रोभातिक्रिया करवायां जोबाय, तिहां प्रथमं स्थापनात्री सन्धुल राइप्रतिक्रमण करे,
 तेनो विधि आपमाणे जाणवो—

अथ रात्रिकप्रतिक्रमणविधि

प्रथम खमासमण० (ख० २) इरियावहियं० (ख० ६) तस्स उत्तरी० (ख० ७) अद्वत्थ० (ख० ८) कही एरु लोगस्स

अथवा चार नवकारानो काउस्सग करवी, पछी 'नमो अरिहंताणं' कही पारी प्रगट लोगस्स (सू० ९) कही पछी खमासमण (सू० २) कही "इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! कुसुमिणदुसुमिणओहडावणी राइपायच्छित्तविसोहणत्थं काउस्सग करुं?, इच्छ, कुसुमिणदुसुमिणओहडावणी राइपायच्छित्तविसोहणत्थं करेमि काउस्सगंगं" कही अन्नत्थं (सू० ८) कही, चारें लोगस्स अथवा सोळ नवकारानो काउस्सग करी पारी प्रगट लोगस्स (सू० ९) कहेवो, पछी खमासमण (सू० २) दइ "इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! चैलवंदन करुं?, इच्छं" कही वेवीने पंचांगप्रणिपाते जगचित्तमणिनुं चैलवंदन करयुं, ते आ प्रमाणे:—

प्रयोधचैलवंदनसूत्रम्—(४२) जगचित्तमणि जगनाह, जगगुरु जगरकूखण । जगबंधव जगसत्थवाह, जगभावविअकूखण । अट्ठावप संठवियरुव, कम्मट्टविणासण । चउवीसंपि जिणवर जयंतु अप्पडिहय सासण ॥१॥ कम्मभूमिहिं कम्मभूमिहिं पढमसंघयणि, उक्कोसय सत्तरिसय, जिणवराण विहरंत लब्भह । नवकोडिहिं केवल्लिण, फोटिसहस्स नव साहु गम्मइ । संपइ जिणवर वीस सुणि, चिहुं कोडिहिं वरनाण । समणह कोडि सहसइअ, युणिज्जइ निच्च विहाणि ॥ २ ॥ जयउ सामिय जयउ सामिय, रिसह सचुंजि वज्जिति पट्टु नेमिजिण, जयउ वीर सचउरिमंडण, भरुअच्छहिं सुणिसुव्वयं, सुहरिपास दुहट्टुरिअखंडण । अवरविदेहिं तित्थयरा, चिहुं

१ रात्रिप कामभोगादिनां दुःस्वप्न आव्यं ह्येष तो 'सागरवलांभीरा' सुधी, अने धीजां स्वप्नां आव्यं होय के न पण आव्यां होय तो 'चंवेसु निम्मलयरा' सुधीना चार लोगस्स गणवा,

दिसि विदिसि जिंकेचि । तीआणागय संपह अ, वंटु जिण सन्वेचि ॥३॥ सत्ताणवइ सहस्सा लरूवा छप्पन
अट्ट कोडीओ । वचिसय चासिआइं, तिअलोए चेइए वंदे ॥४॥ पनरस कोडिसयाइं, कोडि यायाल लक्ख अड-
: वन्ना । छत्तीससहस असियाइ, सासयवियाइं पणमामि ॥ ५ ॥

[पछी जंकिंचि० (ख० १२), नमुत्तुणं० (ख० १३), जावंति चेइ० (ख० ३७), खमासमण (ख० २), जावंत के०
(ख० ३८), नमोऽर्हत्त० (ख० १५), उवसग्गहं० (ख० ३९), जय वीयराय० (ख० ४०), कहेवा, पछी भगवानादि (ख० २०
प्रमाणे) चार थोभवंदन करवुं, खमासमण (ख० २) पछी “इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सज्झाय संदिसाहुं ?, इच्छं”
खमासमण (ख० २) इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सज्झाय करं ?, इच्छं, कही बेसीने नवकार० (ख० १) गणी भरे-
सरनी सज्झाय कहे, ते आ प्रमाणे:—

शीलवदादिगुणस्मरणसूत्रम्—(४३) भरहेसर बाहुवली अभयकुमारो अ दंढणकुमारो । सिरिओ अणियाउतो अइमुत्तो
नागदत्तो अ ॥ १ ॥ सेअज्ज थूलिभदो वयररिसी नंदिसेण सीहगिरी । कयवन्नो अ सुकोसल पुंडरिओ केसि
करकंइ ॥ २ ॥ हल्ल विहल्ल सुदंसण साल महासाल सालिभदो अ । भदो दसन्नभदो पसन्नचंदो अ जमभदो
॥ ३ ॥ जंबुपट्ट वंकचूलो गयसुकुमालो अवंतिसुकुमालो । धन्नो इलाहपुत्तो चिलाइपुत्तो अ बाहुमुणी ॥ ४ ॥
अज्जगिरि अज्जरक्खिअ अज्जसुहत्थी उदायगो मणगो । कालयसुरी संयो पज्जुवो मूलदेवो अ ॥ ५ ॥ पभवो
विणहुकुमारो अइकुमारो दडंप्पहारी अ । सिज्जंस कूरगइ अ सिज्जंभव मेहकुमारो अ ॥ ६ ॥ एमाइ महासत्ता

दितु सुहं गुणगणेहि संजुता । जेसि नामगहणे पावप्पबंधा विलय जंति ॥ ७ ॥ सुलसा चंदयणाला मणोरमा
 मयणरेहा दमयंती । नमयासुंदरी सीया नंदा भद्रा सुभद्रा य ॥ ८ ॥ रायमई रिसिदत्ता पडमावई अंजणा
 सिरीदेवी । जिठ सुजिठ मिगावइ पभावइ चिल्लणादेवी ॥ ९ ॥ बंभी सुंदरि रुप्पिणि रेवइ कुंती सिवा जयंती
 य । देवइ दोवइ धारणि कलावई पुफ्फचूला य ॥ १० ॥ पडमावई य गोरी गंधारि लखलमणा सुसीमा य ।
 जंरुवइ सच्चभामा रुप्पिणि कण्हठमहिंसीओ ॥ ११ ॥ जक्खा य जक्खदिन्ना भूआ तह चैव भूअदिन्ना य ।
 सेणा वेणा रेणा भईणीओ धूलिभइस्स ॥ १२ ॥ इचाइ महासइओ जयंति अकलंकसीलकलिआओ । अज्जवि
 चज्जइ जासि जसपडहो तिहुअणे सयले १३ ॥

[पछी' इच्छकार सुहराइ० (सू० ३) कही, "इच्छाकारेण संदिसह भगवन् राइयपडिक्कमणे ठाउं ?, इच्छं" (कही
 जमणो हाय रजोहरण उपर स्थापी सच्चस्सवि० (सू० २१) कहेहुं, पछी नमुत्थुणं० (सू० १३), करेमि भंते० (सू० २२),
 इच्छामि ठामि० (सू० २३), तस्सउत्तरी० (सू० ७) अन्नत्थ० (सू० ८) कही एक लोगस्स अंघवा चार नक्कारनो काउस्सग
 करवो. पछी पारी लोगस्स० (सू० ९) सच्चलोए अरि० (सू० १४), अन्नत्थ० (सू० ८) कही एक लोगस्स अंघवा चार नक्का-
 रनो काउस्सग करवो. पछी पुम्भरवरदी० सुअस्स भगवओ करेमि काउस्सगं (सू० १७) वंदणवत्ति (सू० १४) अन्नत्थं
 (सू० ८) कही अतिचरानी ञ्ण गाथा (सू० २४) नो काउस्सग करवो, पछी सिद्धाणं बुद्धाणं (सू० २१) कही वेमी त्रीजा
 आवइयकनी सुइपत्ति (पचास चोलपी) पडिलेहवी, पछी उमा थइ चे वांदणां (सू० २५) देवां, पछी 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन्'

राइअं आत्योडं?, इच्छं' आत्योपमि, जो मे राइओ अइगारो कओ० (सू० २३) कही रात्रिक्रभ्रतिचार कहेवा, ते आ प्रमाणोः-
 रात्रिक्रभ्रतिचार—[४४] संयाग उव्यटणकी परिगटणकी आउंटणकी पमारणकी छप्पइय संघटणकी संयारो उत्तर-
 पटो दाली अयिकुं उपंगरण वापर्युं अणपडिलेखुं हलाब्युं, माहुं अणपडिलेखुं लीधुं अणपुंजी भूमिकाए. परठळ्युं
 परठयतां अणुजाणहं दासुंगहो कीधो नही, परठळ्यां पुंठे व्रणवार वोसिरे नं कीधो, संयारापोरमि
 भगवी विसारी भणाव्या चिना सुता, फुस्यन्न दुःस्वप्न लाधुं, सुपनांतर मांहि शीयळनणी विंराथना हुड, आह-
 द्योहद गितळ्युं संरूपयिकल्प कीधो, अनेरो जे कोइ रात्रि संबंधी पापदोप लाग्यो होए. ते सचि हुं मन चचन
 कायाचे करी भिच्छामियुघाडं ॥

पछी मन्मममचि राइअ० (सू० २१) कही वीगासने, ते न आवडे तो जमणो हींचण उभो करी प्रतिक्रमणएत (सू० २७) कहेयुं,
 पाठी वे चांदणां (सू० २५) देयां, पछी 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् । अब्भुद्धिओहं अब्भिनर राइअं खामेडं ? इच्छं',
 गही धामणागू० (सू० १३) कहेयुं, पछी अचग्रह वंहार नीकळी वे चांदणां (सू० २५) देयां, पछी आपरियउव० (सू० २८) करेमि-
 भंते० (सू० २२) कही इच्छामि ठामि० (सू० २३) तस्सउच० (सू० ७) अन्नरथ० (सू० ८) कही तप चित्तवणीनो काउस्सग करवो,
 न प्रावडे तो गोल नरकारनो, काउस्सग करवो पारी प्रगट लोगसस० (सू० ९) कही छट्टा आउउयकनी मुहपत्ति पडिलेहवी. पछी

तपचित्तवणीकाउस्सगनी रीति

१ भगवान् महावीरमहाराजा शासनमां छ महिनागुं उट्टए तप छे, अने ते भगवान् महावीरस्महारजे कयुं छे ते तुं करीशो-
 दाकि नगी, एक, ये, प्रण, चार, पांच दिवस न्यून छमासी तप करीश ?; शक्ति नथी, छ, सात, आठ, नव, दश दिवस न्यून छमासी तप

उभा थर वे वांदणां (५० २४) दर अवग्रहनी अंदर 'सकलतीर्थ' कहेवुं, ते आ प्रमाणे:—

सकलतीर्थवंदनसूत्रम्—(४५) सकलतीर्थ वंदुं करजोड, जिनवर नामे मंगल कोड । पहेले स्वर्गे लाख वत्रीशं, जिन-
वर चेत्य नमुं निशदिश ॥ १ ॥ वीजे लाख अट्टावीश कक्षां, व्रीजे चार लाख सद्दक्षां । चोथे स्वर्गे अड लख
धार, पांचमे वंदुं लाखन चार ॥ २ ॥ छठे स्वर्गे सहस्र पचास, सातमे चालीश सहस्र प्रासाद । आठमे स्वर्गे
छ हजार, नवदशमे वंदुं शत चार ॥३॥ अग्यारवारमे व्रणशें सार, नव त्रैवेगके व्रणशें अठार । पांच अनुत्तर सर्वे
' मन्त्री, लाख चौराशी अधिकां वळी ॥ ४ ॥ सहस्र सत्पाणुं त्रैवीश सार, जिनवर भुवन तणो अधिकार । लांघां
सो जोजन विस्तार, पचास उंचां वहेतेर धार ॥ ५ ॥ एकसो एंशी विंश परिमाण, समासहित पृक्त चैत्ये जाण ।

करीश?, शक्ति नथी. अग्यार, धारं, तेर, चउद, पंदर दिवस न्यून छमासी तप करीश? शक्ति नथी, १६, १७, १८, १९, २० दिवस न्यून छमासी
तप करीश?, शक्ति नथी. २१, २२, २३, २४, २५, दिवस न्यून छमासीतप करीश? शक्ति नथी. २६, २७, २८, २९ दिवस न्यून
छमासी तप करीश? शक्ति नथी, ५ मासी तप करीश?, शक्ति नथी. आ प्रमाणे पांच. पांच दिवस ओछा कर्तां चार, व्रण वे अने
एक महिना सुधी जंहुं, अने पछी एक, वे, व्रण, चार, पांच दिवस न्यून मासपमण करीश? शक्ति नथी. ६, ७, ८, ९, १० दिवस
न्यून मासपमण करीश?, शक्ति नथी. ११, १२, १३ दिवस न्यून मासपमण करीश?, शक्ति नथी. एवी रीते ३४, ३२, ३०, २८,
२६, २४, २२, २०, १८, १६, १४, १२, १०, ८, ६, ४, भक्तने माटे पण प्रश्न पूछगे, आगळ आर्यविल, नीची. एकासणुं, वेसणुं,
परिसुद्धे, साढगेरसी, पोस्ती अने नमुआरसद्वियं सुधी प्रश्नोत्तरे कल्या, आ स्थाने जे तप पोते करेलुं होय त्यां वधे शक्ति छे.
पण संपमण्यापार (गुरं प्राणा) कते शक्याप नदि, एम कहेवुं, अने जे तप ते व्हाडे कळुं होय त्यां ते तप चिततीने काउस्तग पारवो

मो कोड घावन कोड संभाल, लाख चोराणुं सहस चौआल ॥ ६ ॥ सातशें उपर साठ विशाल, सवि विच
 प्रणमुं त्रण काल । सात कोड ने बहोतेर लाख, भुवनपतिमां देवल भाख ॥ ७ ॥ एकसौ एंसी विच प्रमाण, एक
 एक चैत्ये संख्या जाण । तेरशें कोड नेव्यासी कोड, साठ लाख वंडुं कर जोड ॥ ८ ॥ बत्रीशें ने ओगणसाठ,
 तिच्छां लोकमां चैत्यनो पाठ । त्रणलाख एकाणुं हजार, त्रणशें वीश ते विंख जुहार ॥ ९ ॥ व्यंतर ज्योतिपीमां
 बळी जेह, शाश्वता जिन वंडुं तेह । ऋपभ चंद्रानन वारिपेण, वर्द्धमान नामे गुणसेण ॥ १० ॥ समेतशिखर वंडुं
 जिन वीश, अष्टापद वंडुं चोवीश । विमलाचल ने गढ गिरनार, आबु उपर जिनवर जुहार ॥ ११ ॥ शंखेश्वर केस-
 रियो सार, तारंगे श्रीअजित जुहार । अंतरीक बरकाणो पास, जीगावलो ने थंभणपास ॥ १२ ॥ गाम नगर पुर
 पाटण जेह, जिनवरचैत्य नमुं गुणगेह । विहरमान वंडुं जिन वीश, सिद्ध अनंत नमुं निशदिश ॥ १३ ॥ अढी-
 द्रीपमां जे अणगार, अढारसहससीलांगना धार । पंचमहात्रत समिति सार, पाले पलावे पंचाचार ॥ १४ ॥
 ..घाह्यअभ्यंतरतप उजमाल, ते मुनि वंडुं गुणमणिमाल । नित नित बढी कीर्ति करुं, जीव कहे भवसायर तरुं ॥ १५ ॥
 [पृष्ठी 'इच्छकारि भगवन् ! पसाय करी पचक्खाण करावोजी' एम आदेश मागी यथाशक्ति पचक्खाण करवुं, ते आ प्रमाणे:-
 अथ प्राभातिकप्रत्याख्यानानि (नमुक्कारसहिअंनुं) :- "उगए सुरे नमुक्कारसहिअं मुद्धिसहिअं पचक्खाइ, चउन्विहंपि
 आहारं, असणं, पाणं, खाहमं, साहमं, अन्नतथणाभोगेणं, सहसागारेणं महत्तरागारेणं, सब्बसमाहिवचिआंगा-
 रेणं वोसिरे" इति ॥

अथ पोरिसिसाढपोरिसिनुं पञ्चखण—“उगए सूरे, नमुक्कारसहिअं, पोरिसि, साढपोरिसि, मुट्टिसहिअं, पञ्चखण्ण, पञ्चखण्ण, उगए सूरे, चउन्विहंपि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छन्नकालेणं दिसामोहेणं, साहुचयणेणं, महत्तरागारेणं, सब्वसमाहिवत्तियागारेणं, बोसिरे” इति ॥

पुरिमदुअयदुनुं पञ्चखण—सूरे उगए पुरिमदुअं मुट्टिसहिअं पञ्चखण्ण, चउन्विहंपि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छन्नकालेणं, दिसामोहेणं, साहुचयणेणं, महत्तरागारेणं, सब्वसमाहिवत्तियागारेणं बोसिरइ ॥

एकासण, वियासण, नीवीनुं पञ्चखण—उगए सूरे, नमुक्कारसहिअं पोरिसि मुट्टिसहिअं पञ्चखण्ण, उगए सूरे, चउन्विहंपि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छन्नकालेणं, दिसामोहेणं, साहुचयणेणं, महत्तरागारेणं, सब्वसमाहिवत्तियागारेणं, विगइओ निव्विगइयं पञ्चखण्ण, अन्नत्थणाभोगेणं सहसागारेणं, लेवालेवेणं, गिहत्थसंसट्ठेणं, षड्खिलत्तविवेगेणं, पडुच्चमखिलएणं, पारिद्वावणियागारेणं, महत्तरागारेणं, मच्चसमाहिवत्तियागारेणं, एगासणं वियासणं, पञ्चखण्ण, तिव्विहंपि आहारं, असणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, सागारियागारेणं, आउंटणपसारेणं, गुरुअब्भुट्ठणेणं, पारिद्वावणियागारेणं, महत्तरागारेणं, सब्वसमाहिवत्तियागारेणं, पाणस्स लेवेण वा, अलेवेण वा, अच्चेण वा, बहुलेवेण वा, ससित्थेण वा, असित्थेण वा, बोसिरइ.

आर्ययिल्लुं पचमत्वाण—उग्गए सूरे, पोरिसि, साढपोरिसि, छुटिसिहिअं पचमत्वाइ उग्गए सूरे, चउच्चिहंपि
 आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छन्नकालेणं, दिसामोहेणं,
 साहुवयणेणं, महत्तरागारेणं, सब्वसमाहिवत्तियागारेणं । आर्ययिल्लं पचमत्वाइ अन्नत्थणाभोगेणं, सहसा-
 गारेणं, लेवालेवेणं, गित्थसंसट्ठेणं, उप्पिचचिवेगेणं, पारिद्वावणियागारेणं, महत्तरागारेणं, सब्वसमाहि-
 वत्तियागारेणं । एगासणं पचमत्वाइ । तिचिहंपि आहारं, असणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सफ-
 सागारेणं, सागारियागारेणं, आउंटणपसारेणं, गुरुअब्बुट्टाणेणं, पारिद्वावणियागारेणं, महत्तरागारेणं, सब्व-
 समाहिवत्तियागारेण, । पाणस्स लेवेण वा, अल्लेवेण वा, षडुलेवेण वा, ससित्थेण वा, असित्थेण
 वा, योसिरइ ॥

तिचिहारं उपवात्तुं पचमत्वाण—सूरे उग्गए अब्भत्तहं पचमत्वाइ । तिचिहंपि आहारं, असणं, खाइमं, साइमं अन्नत्थ-
 णाभोगेणं, सहसागारेणं, पारिद्वावणियागारेणं, महत्तरागारेणं, सब्वसमाहिवत्तियागारेणं । पाणद्वार पोरिसि
 साढपोरिमि छुटिसिहिअं, पचमत्वाइ । अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छन्नकालेणं, दिसामोहेणं, साहुवयणेणं
 महत्तरागारेणं, सब्वसमाहिवत्तियागारेणं, पाणस्स लेवेण वा, अल्लेवेण वा, षडुलेवेण वा, ससि-

१ छट, अट्टम, दशम, दुयाल्लस, सोल्लस, अट्टारस, धीस, वावीस, चोवीस, छन्नीस, अट्टावीस, तीस, वनीश, चोत्रीश अने
 छत्रीश भक्त सुधीनां पचमत्वाण लेमाय,

त्येण वा, असित्येण वा योसिरइ ॥

चउच्चिहारउपवासतुं पशुस्वाण—सूरे उग्गए अन्भत्तट्ठं पचस्वाइ । चउच्चिहंपि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अक्षथणाभोगेणं, सहसागारेणं पारिद्धायणियागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिच्चियागारेणं, वोसिरइ ॥ उपरसुनचना पशुस्वाणोमांथी यथाशक्ति पचस्वाण करे.

[पथी 'सामायिक, चतुर्विंशतिस्त्रय, वंदन, प्रतिक्रमण कायोत्सर्ग, प्रत्याख्यान कयुं छेजी, इच्छामो अणुसट्ठि' (करी बंसी) नमो त्वमासमणाणं, नमोऽर्हत्त० (ख० १५) कही

रात्रिकप्रतिक्रमणान्त्यमंगलसूत्रम्—(४७) विशाललोचनदलं प्रोद्यद्दन्तांशुकेसरम् । प्रातर्वीरजिनेन्द्रस्य, सुखपद्मं पुनातु वः ॥ १ ॥ पेयामभियेककर्म कृत्वा मत्ता हर्षभरात सुखं सुरेन्द्राः । तृणमपि गणयन्ति नैव नाकं प्रातः सन्तु शिवाय ते जिनेन्द्राः ॥ २ ॥ कलंकनिर्मुत्तमसुक्तपूर्णतं, कुतर्कराहुग्रसनं सदोदयम् । अपूर्वचन्द्रं जिनचन्द्रभाषितं, दिनागमे नोमि युर्थेनमस्कृतम् ॥ ३ ॥ अहि साध्वीए संसारदावानी चारमांथी त्रण थोथो कहेवी—

वीररतुतिस्त्रयम्—(४८) संसारदायानलदाहनीरं, संमोहधूलीहरणे । समीरं मायारसादारणसारसीरं, नमामि वीरं गिरिमारथीरम् ॥ १ ॥ भावावनामसुरदानवमानवेनचूलाविलोकमलावलिमालितानि । संपूरिताभिनतलोक-समीहितानि, कामं नमामि जिनराजपदानि तानि ॥ २ ॥ बोधागाथं सुपदपदवीनीरपूराभिरामं, जीवाहिंसाविर-ललहरीसंगमागाहदेहम् । चूलावेलं गुरुगममणीसंकुलं दूरपारं, सारं वीरागमजलनिधिं सादरं साधु सेवे ॥ ३ ॥

॥ १ ॥ सकलं भक्त तुमे धणी, जो होवे अम नाथ । भवो भव हुं छुं ताहरो, नहीं मेलुं हवे साथ ॥ २ ॥ सयल संग छंडी करी, चारित्र लेइशुं । पाय तुमारा सेवीने, शिवरमणी वरीशुं । ॥ ३ ॥ ए अळजो मुजने घणोए, पूरो सीमंधर देव । इहां थकी हुं वीनंबुं, अवधारो मुज सेव । ॥ ४ ॥

[पछी जंकिंचिं (सू० १२) नमुत्थुणं (सू० १३) जावंतिं (सू० ३७), खमासमण (सू० २) जावंत केविं (सू० ३८) नमोऽहंतं (सू० १५) कही स्तवन कहे, ते आ प्रमाणे.

श्रीसीमथरस्वामिनुं स्तवन—पुक्खलवई विजये ज्यो रे, नयरी पुंडरिगिणी सार । श्रीसीमंधर साहिवारे, राघ श्रेयांस कुमार ॥ १ ॥ जिणंदराय ! धरजो धर्मस्नेह । ए आंकणी । मोटा न्हाना आंतरो रे, गिरुआ नवि दाखंत । शशि दरिसण सायर वधे रे, कैरववन विकसंत ॥ २ ॥ जिं ॥ ठाम कुठाम न लेखवे रे, जग वरसंत जलधार । कर दोय कुसुमे वासीये रे, छाया सवि आधार ॥ ३ ॥ जिं ॥ राय ने रांक सरिखा गणे रे, उद्योते शशि सूर । गंगाजल ते चिहुंतणा रे, ताप करे सवि दूर ॥ ४ ॥ जिं ॥ सरिखा सहुने तारवा रे, तिम तुमे छे महा-राज । मुजशुं अंतर किम करो रे, बांछ्य ग्रह्यानी लाज ॥ ५ ॥ जिं ॥ मुख देखी टीलुं करे रे, ते नवि होय प्रमाण । मुजरो माने सवि तणो रे, साहिय तेह सुजाण ॥ ६ ॥ जिं ॥ वृषभलंछन माता सत्यकी रे, नंदन रुक्मणिकंत । वाचक जस हम विनचे रे, भयभंजन भगवंत ॥ ७ ॥ जिं ॥ इति ॥

पछी जघवीयराय (सू० ४०) कही उमा थइ अरिहंतचेइं (सू० १४) अन्नत्थं (सू० ८) कही एक नवकारनो काउस्सग

करी, पारी नमोऽर्हत्० (सू० १५) कही थोय कहे—

श्रीसीमंथरस्वामीनी थोय—(५१) श्रीसीमंथर जिनवर सुखकर, साहिप देव, अरिहंत सकलनी, भाच धरी करुं सेव
। सकलागम पारग, गणधर भापित वाणी, जयवंती आणा, ज्ञानविमल गुणखाणी ॥ १ ॥

[पछी सिद्धाचलजीनुं चैत्यवंदन करे, ते आ प्रमाणे:—

पछी स्वमा० (सू० २) दइ 'इच्छाकारेण संदिसह भगवत् ! श्रीसिद्धाचलजीआराधनार्थं चैत्यवंदन करुं ? इच्छं,'
कही चैत्यवंदन कहे, ते आ प्रमाणे—

श्रीसिद्धगिरिचैत्यवंदन—(५२) श्रीशत्रुंजयसिद्धक्षेत्र, दीठे दुर्गति चारे । भावधरीने जे चडे, तेने भवपार उतारे
॥ १ ॥ अनंतसिद्धनो एह ठाम, सकलतीर्थनो राय । पूर्व नवाणुं ऋषभदेव, ज्यां ठविया प्रमुपाय ॥ २ ॥ सूरज-
कुंड सोहामणो, कवडजक्ष अभिराम । नाभिरायाकुलमंडणो, जिणवर करुं प्रणाम ॥ ३ ॥

[पछी जंकिंचि० (सू० १२), नमुत्थुणं० (सू० १३), जावंति० (सू० ३७), स्वमा० (सू० २) जावंत० (सू० ३८)
नमोऽर्हत् (सू० १५). कही स्तवन कहे, ते आ प्रमाणे—

श्रीसिद्धगिरिस्तवनं—(५३) विमलाचल नितु वंदीए, कीजे एहनी सेवा । मानुं हाथ ए धर्मनो, शिवतरुफल लेवा
॥ चि० ॥ १ ॥ उज्ज्वल जिनगृह मंडळी, तिहां दीपे उत्तंगां । मानुं ह्मिगिरि विभ्रमे, आई अंवर गंगा ॥२॥ कोह
अनेरुं जग नदि, एह तीरथ तोले । एम श्रीमुख हरि आगळे, श्रीसीमंथर घोळे. ॥ चिम० ॥३॥ जे सवळां तीरथ

कर्या, यात्रा फळ कहीये । तेह्यी ए गिरि भेटतां शतगणुं फळ ल्हिए, ॥ ३ ॥ जन्म सफळ होय तेहनो, जे ए गिरि वंदे । सुजसविजय संपद लहे, ते नर चिर नंदे ॥ विम० ॥ ५ ॥

पछी जयवीयराघ० (सू० ४०), अरिहंतचेइ० (सू० १४), अन्नत्थ० (सू० ८), कही एक नवकारनो काउस्तग करी पारी नमोऽहंत० (सू० १५) कही थोय कहे—

श्रीसिद्धगिरिस्तुति—(५४), पुंडरिकगिरिमहिमा, आगमसां प्रसिद्ध । विमलाचल भेटी, लहीए अविचल रिद्ध । पंचमी गति प्होंला, मुनिवर कोडाकोड । एणे तीर्थे आवी, कर्मविपातक छोड ॥ १ ॥

पछी 'अविधि अशातना मिच्छामि दुक्कडं' कहेवुं ॥

इति श्रीरात्रिकप्रतिक्रमणविधिः—



१२

[प्रतिक्रमणरूप छ आवश्यक कर्या पछी साधुने प्रतिलेखना करवी, ते प्रतिलेखना उपकरणनी जाणवी, तेयां अहि 'वख'नीं कहे छेः (५५) प्रातः प्रतिलेखनाविधिः—

प्रथम खमासमण० (सू० २) दइ इयावहियं० (सू० ६), तस्सउत्स० (सू० ७), अन्नत्थ० (सू० ८), कही एक एक लोगस्स अथवा चार नवकारनो काउस्तग करवो, काउस्तग पारी प्राट लोगस्स० (सू० ९) कही खमासमण० (सू० २) देखुं, पछी "इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पडिलेहण करं?, इच्छं" कही मुहपत्ति (५० बोले) पडिलेहवी, पछी रजोहरण (१० बोलथी)

આસન (૨૫ ચોલથી) પડિલેહી ચેસવાની જગ્યા પુંજી ત્યાં પાયરે, પછી કંદોરો (દશ ચોલથી) ને ચોલપટ્ટો (૨૫ ચોલથી) પડિલેહીને
 પદને, એમ પાંચ પડિલેહી પછી જ્વમાસમણ (મૂં ૨) દર ઇરિયાવહિયં (મૂં ૬) તસ્સડત્તં (મૂં ૭) અન્નતથં (મૂં ૮) કહી
 એક લોગસ્સ અથવા ચાર નવકારનો કાડસ્સગ કરી, પારી; પ્રગટ લોગસ્મં (મૂં ૯) કહે, પછી જ્વમાસમણં (મૂં ૨) દર
 'ઈચ્છકારિ ભગવન્ ! પસાય કરિ પડિલેહણા પડિલેહાચોજી ? ઇચ્છં' ! કહી તેર ચોલથી સ્થાપનાની પ્રતિલેખના
 કરે, પછી જ્વમાસમણં [મૂં ૨] દર 'ઈચ્છાકારેણ સંદિસહ ભગવન્ ! ઉપધિમુહપત્તિ પંડિલેહું ? ઇચ્છં' કહી
 મુહપત્તિ પડિલેહવી, પછી જ્વમાસમણં [મૂં ૨] દર 'ઈચ્છાકારેણ સંદિસહ ભગવન્ ! ઉપધિસંદિસાહું ? ઇચ્છં' કહી
 જ્વમાસમણં [મૂં ૨] દર 'ઈચ્છાકારેણ સંદિસહ ભગવન્ ! ઉપધિ પડિલેહું ? ઇચ્છં' કહી સર્વ ઉપધિ પડિલેહે, તેમાં
 પહેલાં અને પછી સુતરનાં પડિલેહવાં [મહિં પહેલાં ગુરુની, પછી તપસ્વીની, પછી ગ્લાનની, ત્યારવાદ નવદીક્ષિતવિગેરેની
 ઉપધિ પડિલેહવી અને પછી પોતાની ઉપધિ પડિલેહવી, તે ઉપધિને આસન ઉપર એક મ્હેલવી જોડે.]

[પછી ઢાંઢો પડીલેહી, ડંઢામણ પડિલેહી જ્વમાસમણ ઇરિયાવહિયા, તસ્સડત્તં અન્નતથં [મૂં ૨, ૬, ૭, ૮] કહી એક

૧ પ્રથમ ગમ્ભાની કામલી પડિલેહી સંકેલીને તેના ઉપર સ્થાપનાચાર્ય મૂકે, પછી તે છોડી પ્રથમ ઉપરની એક મુહપત્તિપડિલેહે,
 પછી શુદ્ધ સ્વરૂપના ધારક શુભ, પ્રાનમય, વ્યર્થનમય, ચારિત્રમય, શુદ્ધ પ્રરૂપણામય, શુદ્ધ સ્પર્શનામય, પંચાચાર પાલે,
 પલાયે, અનુમોદે, મંગોગુપ્તિ, પચનગુપ્તિ, કાયગુપ્તિય ગુપ્તા" આ પ્રમાણે તેર તેર ચોલ ચોલ પાંચ સ્થાપનાની પૃથક્ પડિલેહણ કરે,
 પછી પીઝી મુહપત્તિઓ પડિલેહે. (માંજે યધી મુહપત્તિઓ વેંલં પડિલેહવીને સ્થાપનાની પછી પડિલેહવા,)

लोगस्स० अथवा चार नवकारनो काउस्सग करी पारी प्रगट लोगस्स० [सू० ९] कही काजो लेवो, पछी खमासमण० इरि-
यावहियं० तस्सउत्त० अन्नत्थ० (सू. २, ६, ७, ८) कही एरु लोगस्स० अथवा चार नवकारनो काउस्सग करी, पारी प्रगट लोग-
स्स (सू. ९) कही काजामा तसादि जीवो होय तेनो उद्धारक ते परठववो, पछी खमासमण० इरियावहियं० तस्स० अन्नत्थ०
(सू. २, ६, ७, ८) कही एक लोगस्स० अथवा चार नवकारनो काउस्सग करी प्रगट लोगस्स० [सू. ९] कहेवुं, पछी खमा-
समण दइ 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! सज्झाय करं? 'इच्छं' कही एक नवकार गणी 'धम्मो मंगल' नी (सू. ३४) पांच
गाथा कहे, पछी:—'इच्छांकारेण संदिसह भगवन्! उपयोग करं?, इच्छं', इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! उपयोग करा-
वणी काउस्सग करं, ? इच्छं', उपयोग करावणी करेमि काउस्सगगं अन्नत्थ० (सू. ८) कही एक नवकारनो काउस्सग
करवो, पछी प्रगट नवकार गणी, इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! (गुरु कहे) "लाभं" (शिव्य कहे) लेथुं? (गुरु कहे) 'जहगहियं
पुव्वसाह्हि' आवस्सिआए जस्सजोगो कही सज्जातरघर पूछे, (गुरुमहाराज कहे ते घरसज्जातर करवुं)

(५६) प्रातः गुरुवन्दनविधि.

पूर्वे पाना पहेलामां जणाव्या प्रमाणे क्षामणा (सू० ४) सुधी गुरुवन्दन करी, खमासमण० [सू० २] दइ 'इच्छकारि भगवन्!
पसाय करी पच्चवखाणनो आदेश आपशोजी?, इच्छं', (गुरुमहाराज पासे जे पच्चवखाण लेवानुं होय ते छे) पछी खमासमण
(सू० २) दइ 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! बहुवेल संदिसाहुं?, इच्छं' खमासमण दइ 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन्!
बहुवेल करन्हुं?, इच्छं', कहे—



[पदेली पोरसी सुधी स्वाध्याय करवो, ते स्वाध्यायतरीके अहि दशवैकालिकनां चार अध्ययन आपनामां आन्यां छे.]

॥ ५७ ॥ अथ दशवैकालिकसूत्रम् ॥ (चार अध्ययन सुधी)

भस्मो मंगलमुक्छिदं, अहिंसा संजमो तवो । देवायि तं नमंसंति, जस्स 'धम्मे' सया मणो ॥ १ ॥ जहा दुमस्स पुप्फेसु, भमरो आधिगई रसं । ण य पुप्फं किलामेइ, सो अ पीणेइ अप्पयं ॥ २ ॥ एमेए समणा सुत्ता, जे लोए सेति साहुणो । निर्हगमा य पुप्फेसु, दाणभत्तेसणे रया ॥ ३ ॥ ययं च चिति लब्भामो, नय कोइ उवहम्मई । अहागइसु रीगते, पुप्फेसु भमरा जहा ॥ ४ ॥ महुकारसमा युद्धा, जे भवंति अग्निस्मिया । नाणाविडरया दंता, तेण पुप्फंति साहुणो ॥ ५ ॥ ति बेमि (इति दुमपुप्फिअनाम अद्धयणं सम्मत्तं) ॥ १ ॥ कहं नु कुज्जा सामणणं, जो कामे न निवारए । पए पए यिसीअंतो, संरुप्पस्स यसं गओ ? ॥ २ ॥ वत्थगंधमलंकारं, इत्थीओ सयणाणि प । अण्ठरा जे न भुंजोमि, न से याइसि पुणई ॥ २ ॥ जे अ कंते पिए भोए, लद्धे विविद्धिकुच्चई । साहीणे पणई भोए, से ए याइसि पुणई ॥ ३ ॥ समाइ पेहाइ परिब्बयंतो, सिआ मणो निस्सरई बहिद्धा । न सा महं पोयि भादंसि तीसे, इत्थेय ताओ यिणइज्ज रागं ॥ ४ ॥ आयावयाही चय सोगमहं कामे कमाही कभियं लु सुणं । यियादि दोसं यिणइज्ज रागं, एधं सुही होहिस्सि संपराए ॥ ५ ॥ पक्खंटे जलियं जोइं, धूमकेलं दुरासयं । भगवति गतां भोए, कूले जाया अगंभणे ॥ ६ ॥ धिरत्यु तेऽजसोकामी; जो तं जीवियकारणा । वंतं इच्छसि

आवेडं, सेयं ते मरणं भवे ॥ ७ ॥ अहं च भोगरायस्स, तं चडसि अंधगवण्हणो । मा कुल्ले गंधणा होमो,
 संजमं निहुओ चर ॥ ८ ॥ जइ तं काहिसि भावं, जा जा दिच्छसि नारिओ । वायाविक्खुब्ब हडो, अट्टिअप्पा
 भविस्ससि ॥ ९ ॥ तीसे सो चयणं सोच्चा, संजयाए सुभासियं । अंकुसेण जहा नागो, धम्मं संपडिवाइओ ॥ १० ॥
 एवं करंति संबुद्धा, पंडिया पचियक्खणा । विणियट्ठति भोगेसु, जहा से पुरिखुत्तमोत्ति वेवि ॥ ११ ॥ (इति सामन्न-
 पुत्रियनामं अज्झयणं सम्मतं ॥ २ ॥) संजमे सुट्ठिअप्पाणं, विप्पसुक्खाणं ताइणं । तेसिमेयमणाइन्नं, निग्गं-
 धाणं महेसिणं ॥ १ ॥*

उदेसियं कीयगंडं, नियागं अभिइडाणि य । राइभत्ते सिणाणे य, गंध मल्ले य वीयणे ॥ २ ॥ संनिही गिहिमत्ते य, रायपिंडे कि-
 मिच्छए । संत्ताहणा दंतपहोयणा य, संपुच्छणा देहपळोयणा य ॥ ३ ॥ अट्टावए य नालिए, छत्तस्स य धारणट्टाए । तेगिच्छं
 पाहणा पाए, सभारंभं च जोइणो ॥ ४ ॥ सिज्जायरपिंडं च, आसंती पळियंकर । गिहंतरनिसिज्जाए, गायस्सुव्वट्टणाणि य ॥ ५ ॥
 गिहिणो वेयावडियं, जा य आजीववत्तिया । तत्तानिन्नुडभोइत्तं, आडरस्सरणाणि य ॥ ६ ॥ मूलए सिगवेरे य, उच्छुखंडे अ-
 निन्नुडे । कंदे मूले य सच्चित्ते, फले वीए य आमए ॥ ७ ॥ सोवचल्ले सिधवे लोणे, रोमाळोणे य आमए । सामुदे पंसुखारे य,
 काळालोणे य आमए ॥ ८ ॥ धूवणित्ति वमणे य, वत्थिरुम्म-विरयेणे । अंमणे दंतवणे य, गाथायंग विधूसणे ॥ ९ ॥ सव्वमेय-
 मणाइन्नं. निग्गंथाणं महेसिणं । संजमंमि य जुत्ताणं, लहुभूयविहारिणं ॥ १० ॥ पंचासवपरिभाया, तिगुत्ता छसु संजया । पंचनिग्ग-

* पयपफत्ताण पायां पछी "सत्तर गायां" बोलयानो गावे छे ते खदि सुधी जाणवी.

इणा धीरा, निगंथा उज्जुदंसिणो ॥ ११ ॥ आयावयंति गिम्हेसु, हेमंतेसु अवाउडा । चासासु पढिसंलीणा, संजया सुसमाहिया ॥ १२ ॥ परीसहरिउदंता, धूपमोहा जिइंदिया । सञ्चदुकुलपद्दीणहा, पधमंति म्हेसिणो ॥ १३ ॥ दुकराई करिचाणं, दुस्तहाई सहित्तु य । केइत्य देवलोपसु, केइ सिञ्छंति नीरया ॥ १४ ॥ खविता पुव्वकम्माई, संजमेण तवेण य । सिद्धिमगमणुपत्ता, ताइणो परिनिञ्चुडे ॥ १६ ॥ चि वेमि इति रुड्डियायारकहानामं तइयं अज्झयणं सम्मत्तं ॥

॥ अथ चतुर्थं पइजीवनिकायाध्ययने ॥

सुयं मे आउत्तं ! तेणं भगवया एवमकखापं । इह खलु छज्जीवणियानामऽज्झयणं समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइया सुभयखाया सुपन्नत्ता सेयं मे अहिज्जिउं अज्झयणं धम्मपन्नत्ती ॥ १ ॥ कंयरा खलु सा छज्जीवणियानामऽज्झयणं समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइया सुभयखाया सुपन्नत्ता सेयं मे अहिज्जिउं अज्झयणं धम्मपन्नत्ती ? ॥ २ ॥ इमा खलु सा छज्जीवणिया-नामज्झयणं समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइया सुभयखाया सुपन्नत्ता सेयं मे अहिज्जिउं अज्झयणं धम्मपन्नत्ती । तंजहा पुट्टविकाइया १ आउक्काइया २ तेउक्काइया ३ वाउक्काइया ४ वणस्सइक्काइया ५ तसक्काइया ६ । पुठ्ठी चित्तमंतमयखाया अणेगजीवा पुट्टोत्तत्ता अन्नत्य सत्थपरिणएणं १ ॥ आऊ चित्तमंतमयखाया अणेगजीवा पुट्टोत्तत्ता अन्नत्य सत्थपरिणएणं २ ॥ तेऊ चित्तमंतमयखाया अणेगजीवा पुट्टोत्तत्ता अन्नत्य सत्थपरिणएणं ३ ॥ वाऊ चित्तमंतमयखाया अणेगजीवा पुट्टोत्तत्ता अन्नत्य सत्थपरिणएणं ४ ॥ वणस्सइ चित्तमंतमयखाया अणेगजीवा पुट्टोत्तत्ता अन्नत्य सत्थपरिणएणं, तंजहा-अगवीया मूलवीया पोस्वीया खंथवीया वीयरुहा संमुच्चिमा तणलया वणस्सइक्काइया सवीया चित्तमंतमयखाया अणेगजीवा पुट्टोत्तत्ता, अन्नत्य सत्थपरिणएणं ५ ॥ से जे

पुण इमे अणेने-वहवे तसा पाणा, तंतहा-अंडया पोययां जराउया रसया संसेइया संमृच्छिमा उन्निभया उववाइया, जेसि कंसिचि
 पाणाणं अभिंत्तं पडिकंतं संकुचियं पसारियं रूपं भंतं तसियं पलाइयं आगई गई-विन्नाया, जे य-कीडपयंगा, जा य कुंथुपिचीलिया,
 सन्वे येइदिया सन्वे तेइदिया सन्वे चउरिदिया सन्वे पंचिदिया सन्वे तिरिक्खजोणिया सन्वे नेरइया सन्वे मणुया सन्वे देव
 सन्वे पाणा परमाहम्मिया । एसो-खलु छट्ठो जीवनिक्काओ तसकाओत्ति-पयुचइ-६ ॥ इच्चेसि-छण्हं जीवनिक्कायाणं नेव सयं
 दंडं समारंभिज्जा नेवन्नेहि दंडं समारंभाविज्जा दंडं समारंभंतेऽवि अन्ने न समणुजाणेज्जा-जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं,
 मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतंऽपि अन्नं न समणुजाणामि, तस्स भंते ! पडिक्कामि निदामि गरिहामि अप्पाणं
 वोसिरामि । पढमे भंते ! महब्बए पाणाइवायाओ वेरमणं, सव्वं भंते ! पाणाइवायं पच्चक्खामि से सुहुमं वा वायरं वा तसं वा यावरं
 वा, नेव सयं पाणे अइवाएज्जा नेवऽन्नेहि पाणे अइवायंतेऽत्रि अन्ने न समणुजाणेज्जा जावज्जीवाए तिविहं
 तिविहेणं, मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतंऽपि अन्नं न समणुजाणामि, तस्स भंते ! पडिक्कामि निदामि
 गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । पढमे भंते ! महब्बए उवट्ठिओमि सव्वाओ पाणाइवायाओ वेरमणं १ ॥ अहावरे दुच्चे भंते ! महब्बए
 सुसात्तायाओ वेरमणं, सव्वं भंते ! सुसात्तायं पच्चक्खामि से कोहा वा लोहा वा भया वा हासा वा, नेव सयं सुंसं वएज्जा नेव-
 ऽन्नेहि सुंसं वायाविज्जा सुंसं वयंतेऽवि अन्ने न समणुजाणेज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं, मणेणं वायाए काएणं न करेमि न
 कारवेमि करंतंऽपि अन्नं न समणुजाणामि, तस्स भंते ! पडिक्कामि निदामि गरिहामि अप्पाणं-वोसिरामि । दुच्चे भंते ! महब्बए
 उवट्ठिओमि सव्वाओ सुसात्तायाओ वेरमणं २ । अहावरे तच्चे भंते ! महब्बए अदिन्नादाणाओ वेरमणं, सव्वं भंते ! अदिन्नादाणा

पञ्चरत्नामि, से गामे वा नगरे वा रत्ने वा अर्प्य वा वहुं वा अणुं वा थूलं वा चित्तमंतं वा 'अचित्तमंतं वा नेत्र सयं' अदिन्नं
 गिण्टिज्जा नेवन्नेहि अदिन्नं गिण्हाविज्जा अदिन्नं गिण्हंतेऽपि अन्ने न समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहं, मणेणं वायाए
 फ़ाएणं न करेमि न कारयेमि करंतंऽपि अन्नं न समणुजाणामि, तस्स भंते ! पडिक्कमामि' निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ।
 तथे भंते ! महव्वए उचट्ठिओमि सव्वाओ अदिन्नादाणाओ वेरमणं ३ ॥ अहावरे चउत्थे भंते ! महव्वए मेहुणाओ वेरमणं, सव्वं भंते !
 मेहुणं पच्चस्वामि से दिव्वं वा माणुस्सं वा तिरिक्खजोणियं वा नेव सयं मेहुणं सेविज्जा नेवन्नेहि मेहुणं सेवावेज्जा मेहुणं
 सेवंतेऽपि अन्ने न समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहं, मणेणं वायाए ! फ़ाएणं न करेमि न कारवेमि करंतंऽपि अन्नं
 न समणुजाणामि, तस्स भंते ! पडिक्कमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । चउत्थे भंते ! महव्वए उचट्ठिओमि सव्वाओ मेहुणाओ
 वेरमणं ४ ॥ अहावरे पंचमे भंते ! महव्वए परिग्हाओ वेरमणं, सव्वं भंते ! परिग्हं पच्चस्वामि से अप्यं वा चहुं वा अणुं वा
 थूडं वा चित्तमंतं वा अचित्तमंतं वा, नेव सयं परिग्हं परिगिण्हिज्जा नेवन्नेहि परिग्हं परिग्हं परिगिण्हंतेऽपि अन्ने
 न समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहं, मणेणं वायाए फ़ाएणं न करेमि न कारवेमि करंतंऽपि अन्नं न समणुजाणामि, तस्स
 भंते ! पडिक्कमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । पंचमे भंते ! महव्वए उचट्ठिओमि 'सव्वाओ परिग्हाओ वेरमणं ५ ॥
 अहावरे छट्ठे भंते ! इए राइभोयणाओ वेरमणं, सव्वं भंते ! राइभोयणं पच्चस्वामि से असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा, नेव
 सयं राइ भुंजिज्जा नेवन्नेहि राइं भुंजाविज्जा राइं भुंजंतेऽपि अन्ने न समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहं, मणेणं वायाए
 फ़ाएणं न करेमि न कारयेमि करंतंऽपि अन्नं न समणुजाणामि, तस्स भंते ! पडिक्कमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ।

छन्दे भंते ! चए उग्रद्विभोमि सव्याओ राशभोयणाओ वेरमणं ६ ॥ इचेइयाई पंच महव्ययाई राइभोयणवेरमणछद्दाइ अचहियद्वयाए उरसंपज्जित्तानं विहरामि ॥

से भिसू वा भिसुणी वा संजयविरयपडिहयपचस्वायपावकम्मे दिया वा राओ वा एगओ वा परिसागओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा से पुद्वि वा भित्ति वा सिळं वा लेळं वा ससरखं वा कायं ससरखं वा वत्थं हत्येण वा पाएण वा कट्टेण वा क्लिचेण वा अंगुलियाए वा सिन्नागाए वा सिन्नागहत्येण वा नालिहिज्जा न विलिहिज्जा न घट्टिज्जा अन्नं नालिहाविज्जा न विन्दिहाविज्जा न घटाविज्जा न भिदाविज्जा अन्नं आलिहंतं वा विलिहंतं वा घट्टंतं वा भिदंतं वा न समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए निविहं तिरिहेणं, मणेणं चायाए काएणं न करेमि न कार्वेमि करंतंऽपि अन्नं न समणुजाणामि, तस्म भंते ! पडिक्कामि निदामि गिरिहामि अप्पाणं चोत्तिरामि ? ॥ से भिवलू वा भिसुणी वा संजयविरयपडिहयपचस्वायपावकम्मे दिया वा राओ वा एगओ वा परिसागओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा से उदगं वा ओसं वा हिभं वा महियं वा करगं वा हरतणुं वा सुद्धोदगं वा उदउळं वा कायं उदउळं वा वत्थं ससिणिद्धं वा कायं ससिणिद्धं वा वत्थं नामुसिज्जा न संफुसिज्जा नावीलिज्जा न पवीलिज्जा न अवखो-
ट्टिज्जा न परखोट्टिज्जा न आयाविज्जा न पयाविज्जा अन्नं नामुसाविज्जा न संफुसाविज्जा न आवीलाविज्जा न पवीलाविज्जा न अखोटाविज्जा न परखोटाविज्जा न आयाविज्जा न पयाविज्जा अन्नं आमुसंतं वा संफुसंतं वा आवीलंतं वा पवीलंतं वा अवखो-
टंतं वा परखोटंतं वा आयावंतं वा पयावंतं वा न समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए निविहं तिरिहेणं, मणेणं चायाए काएणं न करेमि न कार्वेमि करंतंऽपि भन्नं न समणुजाणामि, तस्म भंते ! पडिक्कामि निदामि गरिहामि अप्पाणं चोत्तिरामि २ ॥ से भिवलू

वा भिरगुणी वा संजयविरयपडिहयचख्वायपाचक्रम्मे दिया वा राओ वा एगओ वा सुत्ते वा परिसागओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा
 से अगणि वा इंगालं वा मुम्भुरं वा अर्चि वा जालं वा अलायं वा सुद्धागणि वा उक्कं वा न उंजिउजा न घट्टिउजा न भिदिउजा न
 न उज्जालिउजा न पउज्जालिउजा न निब्बाविउजा, अन्नं न उंजाविउजा न घट्टाविउजा न भिदाविउजा न उज्जालाविउजा न पउजा-
 लाविउजा न निब्बाविउजा अन्नं उंजंतं वा घट्टंतं वा उज्जालंतं वा पउज्जालंतं वा निब्बावंतं वा न समणुजाणिज्जा जाव-
 ज्जीचाए तिविहं तिविहेणं, मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतंउपि अन्नं न समणुजाणामि, तस्स भंते ! पडिक्कामि
 निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरासि ३ ॥ से भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजयविरयपडिहयचख्वायपाचक्रम्मे दिया वा राओ वा
 एगओ वा परिसागओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा से सिएण वा विहुणेण वा चेलेण वा चेळकन्नेण वा हत्थेण
 वा सुहेण वा अप्पणो वा कायं वाहिरं वाचि पुग्गलं न फुमिउजा न वीएउजा अन्नं न फुमाविउजा न वीयाविउजा अन्नं फुमंतं
 वा वीयंतं वा न समणुजाणिउजा जावज्जीचाए तिविहं तिविहेणं, मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतंउपि अन्नं न
 समणुजाणामि, तस्स भंते ! पडिक्कामि निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरासि ४ ॥ से भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजयविरयपडि-
 हयचख्वायपाचक्रम्मे दिया वा राओ वा एगओ वा परिसागओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा से वीएसु वा वीयपइहेसु वा रुढेसु
 वा रुटपइहेसु वा जाएसु वा जापपइहेसु वा हरिएसु वा छिन्नेसु वा छिन्नपइहेसु वा सचित्तकोलपडिनिस्सिएसु वा
 न गच्छेउजा न चिट्ठिउजा न निसीएउजा न तुयट्ठिउजा अन्ने न गच्छाविउजा न चिट्ठाविउजा न निसीयाविउजा न तुयट्ठाविउजा अन्नं
 गच्छंतं वा चिहेतं वा निसीयंतं वा तुयट्तंतं वा न ममणुजाणिउजा जावज्जीचाए, तिविहं तिविहेणं, मणेणं वायाए काएणं न करेमि

न कारयेयि कर्तंसपि अन्नं न समणुज्जाणामि, तस्स भंते ! पडिक्कामि निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ५. ॥ से भियखु वा
 भिराणुणो वा संजयविरयपडिहयपचखायपयकम्ममे दिया वा राओ वा एगओ वा परिसागओ वा मुत्ते वा जागरमाणे वा से कीडं
 वा पयंगं वा कुंथुं वा पियीळियं वा हत्थंसि वा पायंसि वा वाहुंसि वा ऊरुंसि वा उदरंसि वा सीसंसि वा वत्थंसि वा पडिगगंसि वा
 कंथंसि वा पायंपुंळंसि वा रायहरणंसि वा गोच्छंगंसि वा उडंगंसि वा दंडगंसि वा पीढगंसि वा फळगंसि वा सेउजंसि वा संथा-
 रणंसि वा अन्नयरंसि वा तहस्पगारे उवगरणजाए तओ संजयामेव पडिळेहिय पमज्जिय पमज्जिय एगंतपवणिज्जा,
 नो णं संयायमाचञ्जिजा

अजयं चरमाणो य, पाणभूयाइं हिंसइ । धंधई पाचयं कम्मं, तं से होइ कटुयं फलं ॥ १ ॥ अजयं चिद्धमाणा य,
 पाणभूयाइं हिंसइ । धंधई पाचयं कम्मं, तं से होइ कटुयं फलं ॥ २ ॥ अजयं आसमाणो य, पाणभूयाइं हिंसइ । धंधई
 पाचयं कम्मं, तं से होइ कटुयं फलं ॥ ३ ॥ अजयं समयमाणो य, पाणभूयाइं हिंसइ । धंधई पाचयं कम्मं, तं से होइ
 कटुयं फलं ॥ ४ ॥ अजयं भुंजमाणो य, पाणभूयाइं हिंसइ । धंधई पाचयं कम्मं, तं से होइ कटुयं फलं ॥ ५ ॥ अजयं
 भासमाणो य, पाणभूयाइं हिंसइ । धंधई पाचयं कम्मं, तं से होइ कटुयं फलं ॥ ६ ॥ कंहं चरे? कंहं चिठ्ठे?, कहमासे?
 कंहं मए? । कंहं भुंजंतो? भासंतो?, पाचं कम्मं न धंधई ॥ ७ ॥ जयं चरे जयं चिठ्ठे, जयमासे जयं सए । जयं भुंजंतो
 भासंतो, पाचं कम्मं न धंधई ॥ ८ ॥ मच्चभूयस्सप्यभूयस्स, सम्मं भूयाइं पासओ । पिहियासवस्स दंतस्स, पाचं कम्मं न
 धंधई ॥ ९ ॥ पढमं नाणं तओ दया, एवंचं चिट्ठइ सच्चमंजए । अन्नाणी किं काही?, किं वा नाही य सेयपावगं? ॥ १० ॥

मोगा जाणइ कलाणं, मोगा जाणइ पानगं । उभयंपि जाणई सोगा; जं सेयं तं समापरे ॥ ११ ॥ जो जीवेऽवि न
 याणाइ, अजीवेऽवि न याणाइ । जीवाजीवे अयाणंतो, कहं सो नाही य संजमं ? ॥ १२ ॥ जो जीवेवि वियाणाइ,
 अजीवेवि यियाणाइ । जीवाजीवे वियाणंतो, सो ह्नु नाही य संजमं ॥ १३ ॥ जया जीवमजीवे य, दोवि एए वियाणाइ ।
 तथा गइं यदुविहं, मन्त्रजीयाण जाणइ ॥ १४ ॥ जया गइं यदुविहं, सब्यजीवाण जाणइ । तथा पुढं च पावं च, यंयं
 मोरगं च जाणइ ॥ १५ ॥ जया पुढं च पावं च, यंयं मोरखं च जाणइ । तथा निन्विदए भोए, जे दिव्हे जे य माणुसे
 ॥ १६ ॥ जया निन्विदए भोए, जे दिव्हे जे य माणुसे । तथा चयइ संजोगं, सन्भितर मयाहिरं ॥ १७ ॥ जया चयइ संजोगं,
 मन्भितर मयाहिरं । तथा मुंढे भविताणं, पव्वइए अणगारियं ॥ १८ ॥ जया मुंढे भविताणं, पव्वइए अणगारियं । तथा
 मंररमुक्किं, धम्मं फासे अणुतरं ॥ १९ ॥ जहा संवरमुक्किं, धम्मं फासे अणुतरं । तथा धुणइ कम्मरयं, अबोहिकलुसंरुडं
 ॥ २० ॥ जया धुणइ कम्मरयं, अबोहिकलुसंरुडं । तथा सव्यत्तं नाणं, दंसणं चाभिगच्छई ॥ २१ ॥ जया सव्यत्तं नाणं,
 दंसणं चाभिगच्छई । तथा लोगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली ॥ २२ ॥ जया लोगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली ।
 तथा जोगे निकंभिया, सेलेसि पडियज्जइ ॥ २३ ॥ जया जोगे निकंभिया, सेलेसि पडियज्जइ । तथा कम्मं खविचाणं,
 गिदिं गच्छइ नीरओ ॥ २४ ॥ जया कम्मं खविचाणं, सिद्धिं गच्छइ नीरओ । तथा लोगमत्ययत्थो, सिद्धो ह्वइ
 मामओ ॥ २५ ॥ मुहसायगस्स समणस्स मायाउलगस्स निगामसाइस्स । उच्छोलणापद्योयस्स, इलहा सुगई तारि-
 सगस्स ॥ २६ ॥ तवोगुणप्पहाणस्स उग्गुमइणंतिंसजमरयस्स । परीसहे जिणंतस्स सुलहा सुगई तारिसगस्स ॥ २७ ॥

पञ्चायि ते पयाया त्रिप्यं गच्छंति अमरभवणाइं । जेसि पिपो तवो संजमो य खंती य बंभचरं च ॥ २८ ॥ इच्चैयं
छञ्जीयणियं, मम्महिद्धी सया जए । दुलहं लभित्तु सामन्नं, कम्मणा न विराहिज्जासि, ॥२९॥ चिवेमि ॥ इति छञ्जी-
यणियानां चउत्थं अज्झयणं सम्मचं ॥ ४ ॥

(५८) जिनचैत्यवंदनविधिः—

[पछी बलत थये गुरुनी आत्ता लइ दर्शन करावा जवुं, त्यां आगळ भावशुद्धिए वर्ततो छतो तुभ्यं० कि पूर्णानंद० आदि त्रण चार
स्तुति श्रांतचित्ते मधुरस्वरायी भगवंत समस्त करे, पछी प्रदक्षिणा दइ भगवंत सन्मुख खमासमण (सू० २) दइ ईरियावहियं
(सू० ६) तस्स० (सू० ७) अन्नत्थ० (सू० ८) कही एरु लोगस्स अथवा चार नवकारनो काउस्सग करवो, काउस्सग पारी त्रण
खमासमण दइ 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! चैत्यवंदन करं ? , इच्छं' कही कोइ पण चैत्यवंदन कहे, पछी जंकिंचि,
नमुत्तुणं, जावंतिचि० खमासमण० जावंत केवि० नमोऽर्हत्त० (सू० १२, १३, ३७, २, ३८, १५,) कही गंभीरार्थ, पूर्वाचार्य-
ठत स्तान कहे, पछी हाय उंचा करी जगवीयराय० (सू० ४०) अभवमखंडा सुधी क्हाया पछी हाथ नीचा करीने वाकीनुं सूत्र कहे,
पछी उया यइ अरिहतचैट्ठयाणं० अन्नत्थ० कही एरु नवकारनो काउस्सग करे, पारी नमोऽर्हत्त० (सू० १५) कही कोइ थोय
कहे, ए ममाणे क्रिया करी पचरखाण (सू० ४३). ममाणे ले

(५९) उट्ठ्याटापोरुपीविधि.

उ घही दिवस चल्वा पछी त्थमासमण० (सू० २) दइ 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! बहूपडिपुत्ता पोरिसी ? , गुरु

तदिति कहे, पछी खमासमण० (ख० २) दइ ईरियावहियं० (ख० ६), तस्स० (मू० ७), अन्नत्थ० (ख० ८) कही एरु लोगस्स अण्णो चार नरकारनो काउस्सग करवो, पारी लोगस्स कही खमासमण० (ख० २) दइ 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पडिछेहण करं?, इच्छं' कही मुहपत्ति पडिछेहवी (चोमासानी बखते वसति प्रमाज्जीवी)

(३०) पच्चख्खाणपारवानो विधि.


खमासमण० (ख० २) दइ ईरियावहियं पडिक्की (ख० ६, ७, ८, ९), खमासमण दइ 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! नैत्यबंधन करं?, इच्छं,' कही जगच्चितामणि (ख० ४२), कही जंक्किचि (ख० १२) नमुत्थुणं० (ख० १३), जावंति वेइ० (ख० ३७) खमासमण० (ख० २) जावंत केवि० (मू० ३८), उवसग० (मू० ३९) जय वीयराय० (मू० ४०), कही खमासमण० (मू० २) दइ 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सज्झाय करं?, इच्छं,' कही एक नयकार गणी 'धम्मो मंगलमुक्किहं' (ख० ३४) ५ गाया कहेवी, पछी खमासमण (ख० २) दइ 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! मुहपत्ति पडिछेहूं?, इच्छं,' कही मुहपत्ति पडिछेहवी, पछी खमासमण० (ख० २) दइ 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पच्चख्खाणं पारुं?, 'यथाशयित' कही खमासमण० (ख० २) दइ 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पच्चख्खाण पार्युं, 'तहत्ति' कही, अंगुठो सुठीनी अंदर वाली जमणो हाथ रजोहरण उपर स्थापी एक नयकार गणी नोकारसीयी आयंवील सुधीनां पच्चख्खाण आ प्रमाणे पारवां:—

उग्गए खरे नमुक्कारसहियं १ पोरिसी २ साहपोरिसी ३ खरे उग्गए पुरिमइ ४ अवइ ५ मुद्धिसहियं पच्चख्खाण कर्युं चउचिहार आयंथिल १ नीवी २ एकासणुं ३ बेआसणुं ४ पच्चख्खाण पार्युं तिविहार, पच्चख्खाण फामिअं.

पालिअं, सोहिअं, तीरिअ, किट्ठिअं, आराहिअं, जं च न आराहिअं, तस्स मिच्छामिट्ठुकुडं”

(तिविहार उपवासवाळाए आ प्रमाणे कहेयुं)

“सूरे उग्गए पच्चम्खाण कयुं तिविहार; पोरसि, साढपोरसि, पुरिमड्डु, सुट्ठिसहिअं पच्चम्खाण पार्युं पाणहार, पच्चम्खाण फासियं, पालिअं, सोहिअं तीरिअं, किट्ठिअं, आराहिअं जं च न आराहिअं, तस्स मिच्छामिट्ठुकुडं”
आवीरीते पच्चम्खाण पार्यो पछी दग्गैकालिकम्भवना पहेला वे अध्ययन अने त्रीजा अध्ययननी एरु गाथा मली १७ गाथा कहेवी ते माटे जुओ (नवर ५६)



साधुमुनिराजे पाचे इंद्रियोथी उपयोग दइने पात्रनी पडिळेहणा करवी जोइए, पहेलां मुहपत्तिथी ‘गुच्छा’ पडिळेहवा, पछी ‘पडला’ पछी ‘पातरा’ पडिळेहवां जोइए (यतनापूर्वक सर्वक्रिया करवी.)

पछी उपयोग दइ निर्दोषभिक्षा माटे फरखुं, तेमा वेंतालीस ४२ दोष गोचरीना, अने पांच दोष मांडलीना टाळीने गोचरी करवी, कारण के ते दोषो ज्ञानआदिने उपघात करनारा छे, ते सुडतालीस दोषो आ प्रमाणे:—

गोचरीना ४२ दोष ने मांडलीना ५ दोष.

आहारुम्मु १ देसिय २ पूईरुम्मे ३ य मीसजाए ४ य । ठवणा ५ पाहुडियाए ६ पाओअर ७ कीय ८ पाभिच्चे ९ ॥१॥ परि-

यद्वि १० अर्षिहृ ११ विभन्न १२ मालोहृ १३ य अच्छिउजे १४ । अनिसिष्टं १५ ऽज्ज्ञोपरणं १६ सोलस पिङ्गुगमे दोसा ॥२॥
 धार्ई १ दूइ २ निमित्ते ३ आजीव ४ वणीमगे ५ तिमिच्छा य ६ । कोहे ७ माणे ८ माया ९ लोभे य १० हवन्ति दस एए ॥३॥
 पुद्विपच्छासंथव ११ विज्जा १२ मंते य १३ चृण्ण १४ जोगे य १५ । उप्पायणाए दोसा सोलसमे मूलकम्मे १६ य १६ ॥ ४ ॥
 संक्रिय १ पधिलय २ निविखत्त ३ पिडिय ४ साहरिय ५ दायसु ६ स्मीसे ७ । अपस्सिणप ८ लित्त ९ छड्डिय १० एसणदोसा दस
 हवन्ति ॥ ५ ॥ संजोयणा १ पमाणे २ इंगाले ३ धूम ४ ऽकारणे ५ चेव । साधुसाध्वीए आहारपाणी चहोरतां तेना ४२ दोप
 वर्जवा, तेमां प्रथम उद्गम णटले आहार उपजवाना १३ दोप आ प्रमाणे:—१ मुनिओने उदेशीने करबुं ते 'आधाकर्मी दोप.' २
 धातलाइआदिक मुनिने उदेशीने दहोंगोलावगेरेथी स्वादिष्ट करवा, चूरमा मध्ये घृतादि भेळवी लाइ करवा ते 'औद्वेशिकदोप.
 ३ शुद्ध अन्नादिक आधाकर्मीथी मिश्रित होय ते 'पूतिकर्मदोप.' ४ जे पोताने माटे तथा साधुने माटे प्रथमयीज कल्पीने वनावबुं
 ते 'मिश्रदोप.' ५ साधुने माटे क्षीरआदिक स्यापी राखवां ते 'स्यापित्तदोप.' ६ साधुने रहेला के आघवाना जाणी तेमनो लाभ
 मेळववा माटे नजीक के दूर विवाहादि करवां ते 'पाहुडीदोप.' ७ अंधकारमां दीवाआदिकथी अजवाळुं करी साधुने आपबुं ते 'माहु-
 प्करणदोप.' ८ साधुने माटे किमत आपीने खरीद करबुं ते 'क्रीतदोप.' ९ साधुने माटे लथारे अन्नादिक लावीने आपबुं ते
 'प्रामित्यरुदोप.' १० पोतानी वस्तु बीजा साथे अदलाबदली करीने मुनिने लावी आपवी ते 'परावर्तित्तदोप.' ११ साहसु लावीने
 आपबुं ते 'अभ्याहृतदोप.' १२ लिपेला भाजनना मुखपरथी माटी विगेरे दूर करी घीआदि आपबुं ते 'उद्दिन्नदोप.' १३ उपली
 भूमिथी सीकेथी के भोंयरामांथी कहाडी साधुने आपबुं ते 'मालापहृतदोप.' १४ कोइनी पासेथी आंचकी लइने आपे ते 'आच्छे-

घटोप.' १५ वीजामालीकोनी मरजी विरुद्ध एक जण साधुने आपे ते 'अनिष्टष्टटोप.' १६ साधुनुं आवुं सांभळी पोताने माटे करानी रसवतीपमुखमां वधारे नांखे ते 'अध्यवपूरकटोप.' आ सोळ टोप आहारनी उत्पत्तिने अंगे लागे छे.

हवे उत्पादनाना १६ टोप आ प्रमाणे:—१ पिंडमाटे गृहस्थना वाळकने दुध पावुं नवरावुं शणगावुं रमाडवुं तथा खोळांमां वेसाडवुं इत्यादि कर्म करवाथी मुनिने 'धात्रीपिंड' नामे टोप लागे छे. २ दूतनी पेठे संदेशो लइ जवाथी साधुने 'दूतीपिंड' नामे टोप लागे छे. ३ ग्रणे काळना लाभलाभ जीवित मृत्यु आदि निमित्त कहेवाथी 'निमित्तपिंड' नामे टोप लागे छे. ४ भिक्षा माटे पोताना कुळ, जाति, कर्म, शिल्प, आदिक कहेवाथी 'आत्रीपिंड' नामे टोप लागे छे. ५ ग्रंथांसा करी गृहस्थनी पात्रेथी भिक्षा छेवाथी 'वनीपरुपिंड' नामे टोप लागे छे. ६ भिक्षाप्राप्ति माटे औपधादिक वताववाथी 'चिकित्सापिंड' नामे टोप लागे छे. ७ गृहस्थने डराधीने के शाप दइने आहार ग्रहण करवाथी 'क्रोधपिंड' नामे टोप लागे छे. ८ साधुओनी पासे एथी प्रतिज्ञा करे के 'दुं तो लब्धमान छु के जेथी अशुक बेरथीज सारो आहार तमने लावी आवुं' एम कही जुदीजुदी रीते गृहस्थने विटंवना करी आहार छावे तेथी 'मानपिंड' नामे टोप लागे छे. ९ भिक्षा माटे जूदा जूदा वेप तथा भापा बदलवाथी 'यायापिंड' नामे टोप लागे छे. १० सरस भिक्षा छेवा माटे घणुं भटकवाथी 'लोभपिंड' नामे टोप लागे छे. ११ गृहस्थना मावापनी तथा सासुससरानी साथे पोतानो परिचय जणाववाथी 'पूर्वपथावसंस्त्व' नामे टोप लागे छे. १२-१३-१४-१५ भिक्षा माटे विद्या, मंत्र, चूर्ण तथा योगनो उपयोग करवाथी 'विद्यादिपिंड' नामे चारटोप लागे छे. १६ भिक्षा माटे गर्भनुं स्तंभन कराववाथी 'मूळकर्मपिंड' नामे टोप लागे छे.

हवे साधु तथा गृहस्थ वनेना संयोगथी उत्पन्न थता एपणाना दश टोप आ प्रमाणे—? आधाकर्मोदिकटोपनी शंका सहित

जे पिंड ग्रहण करवी ते 'शंक्रितदोष.' २ सच्चित्त अथवा अचित्त एवा जे मधु आदिक निंदनीय पदार्थोना संघट्टवाळो पिंड ग्रहण करवी ते 'म्रक्षितदोष.' ३ छकाय (सचित्त) मां स्थापन करेलुं जे अचित्त अन्न पण लेवुं ते 'निक्षिप्तदोष.' ४ सचित्तफळादिकथी हंकायेलुं जे अन्नादि ग्रहण करवुं ते 'पिहितदोष.' ५ देवाना पात्रमां रहेला पदार्थने वीजा पात्रमां नांखीने ते वासणथी जे देवुं ते 'संहतदोष.' ६ वाळक, हृळ, नपुंशक, धुजतो, आंधळो, मदोन्मत्त, हाथपगविनानो, वेडीवाळो, पादुकावाळो, खांसीवाळो, अथवा तोडनार, फाडनार, अनाज विगेरे दळनार, भुंजनार, कातरनार, पिजनार विगेरे छकायना विराधक पासेथी तेमज गर्भिणी, दुय-पाती न्हाना छोकरांवाळी स्त्री विगेरे पासेथी आहार लेवो ते 'दायकदोष ७ देवालायक जे खांड आदिक उस्तु तेने सचित्त अनाज आदिकमा मिश्र करीने आपवुं ते 'उन्मिथदोष.' ८ अचित्तपणाने पाम्या विनानुं जे देवुं ते 'अपरिणतदोष.' ९ दही, दूय, घी, खीर आदि द्रव्योथी जे वासण तथा हाथआदिने खरडीने आपे ते 'ल्लिप्तदोष.' १० घी आदिकना जमीनपर छांटा पडे तेम वहोरावबुं ते 'छर्दितदोष.'

इवे ग्रसैपणाना अर्थात् आहारादि वापरती वखतना पांच दोष आ प्रमाणे—१ रसना लोपथी पुढलाआदिकने घी खांड आदिमां झयोळवा ते 'संयोजनादोष.' २ वत्रीश कोळीयाथी उपरांत आहार करे तो 'प्रमाणातिरिक्तादोष.' ३ स्वादिष्ट अन्नने वखाणतो थको जे भोजन करे ते 'अंगारदोष.' ४ अन्ननी निंदा करतो आहार करे ते 'धूम्रदोष.' ५ मुनिने भोजन करवामां छ कारण छे--१ क्षुधावेदना सहन न थवाथी ते शमाववा २ प्राचार्यादिस्त्री बैयावच्च करी शकाय ते माटे, ३ ईर्यासमितिनी शुद्धि माटे, ४ संयम पाळवा माटे, ५ जीवितव्यना रक्षा माटे तथा ६ ध्यानने स्थिर करवा माटे भोजन करवानी जरुरीयात छे, तेना अभावे

मोक्ष करे तो 'कारणाभाव' नामे पांचमो दोष लागे. आ ४७ दोष साधुसाध्वीए धरावर समजीने निरंतर ते दाप न लागे तेम साधुपानपणे वर्तुं.

आ प्रमाणे शुद्ध गोचरी लामी गुरुमहाराज सन्मूल आलोववी:—

(६२) गोचरीआलोववानो विधि.

उपाश्रयमां प्रवेश कृतां 'निसीही निमीही नमो खमासमणं, मत्थणणवंदामि' कहे. पळी पग, भूमि प्रमाजीं गुरु सन्मूल उभा रही दांवा पग उपरं दांढो राखी जमणा हायमां मुहपचि राखी उभा उभा खमासमण दइ ईरियात्रहिया तस्त० अन्नत्य० पही एक खोगस्सनो काउस्सग करे. ने काउस्सगमां जे क्रमथी गोचरीनी जे जे वस्तुओ खीधी होय ते अने तेमां लागेला दोष संभारे, पळी 'नमो अरिहंतानं'थी काउस्सग पारी धारी राखेला अतिचार क्रम प्रमाणे गुरुने कही वतावे. पळी 'पडिक्कामाणि गोअरचरि-आए'थी 'मिच्छामि दुक्कं' पर्यंत कहे, पळी तस्त उत्तरी अन्नत्य० कही काउस्सग करे. ते काउस्सगमां आ गाथा चितवे,

अहो जिणेहिं असावज्जा, चित्ती साहण देसिया । मुक्खसाहणहेउस्स, साहुदेहस्स धारणा ॥ १ ॥

अर्थ--मोक्षनां साधनरूप सम्यग्दर्शनादिने साधनार पंचा साधुना देहने टकाववा श्रीजिनेधंरमहाराजे पापरहित जे वर्तन साधुभोने देलाढेलुं ते ए आर्थरूप छे । पळी काउस्सग पारीने लोगस्स कहे.

[पछी गुरुमहाराज आदिने निर्मत्रणापूर्वक विधिप भोजनक्रिया करे, पछी पात्र धोवे, तेमां पण यतनाथी शुद्धि राखवी, पछी स्थंडिलआदि जंबुं होय तो जई आबी, वसतिमां 'आबी गमनआगमननुं' आलोचन करी (एटले ईरियाचहियं पडिक्कमी) स्वाध्याय आदि करे अने छेह्ला पहोरे (जेटला कलाकनो दिवस होय तेने चारे भागतां जेटलां कलाक' थाय ते प्रमाणे एक' पहोर) एटले लगभग त्रण वागे सांक्षनुं पडिछेहण करे, ते आ प्रमाणे:—



(६३) सांक्षना पडिछेहणनो विधि.

खमासमण० (घ० २) दइ ईरियाचहिया० तस्स० अन्नत्थ० (घ० ६, ७, ८) कही एक लोगस्सनो अथवा चार नवकारनो काउस्सग कंरवो, पछी पारी खमासमण० दइ 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पडिछेहण करं?', इच्छं' कही पछी खमासमण दइ 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! वसति प्रमाहुं?', इच्छं', कही उपवास कर्यो होय तो सुहपत्ति (५० वोळयी) ओघो (१० वोळे) अने आसन (२५ वोळे) सवार प्रमाणे पडिछेहे, अने उपवास आदिक न होय तो कंदोरो, अने चोलपट्टो ए वे मळी पांच पडिछेहवां, पछी खमासमण दइ ईरियाचहिया० तस्स० अन्नत्थ० (घ० ६, ७, ८) कही एक लोगस्स अथवा चार नवकारनो काउस्सग करे, पारी प्रगट लोगस्स० (मू० ९) कहे, पछी खमासमण दइ 'इच्छाकारि भगवन् ! पसाय करी पडिछेहणा पडिछेहावोजी?', एम कही स्थापनाजी तथा गुरु, तपस्वी, ग्लान आदि अनुक्रमे सवार प्रमाणे तेओनी उपधि पडिछेहे, पछी 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! उपधि सुहपत्ति पडिछेहुं?', इच्छं' कही सुहपत्ति पडिछेहवी, पछी 'इच्छा-

कारेण संदिसह भगवन् ! संज्ञाय कर्हं, इच्छं, कही एक नंवार गणी 'धम्मो मंगलमुक्किट्ठं'नी पांच गाथा (मू० ३४) गणवी, पछी आहार कर्हो होय तो वे वादणां (मू० २५) देवां, खमासमण दइ 'इच्छाकारि भगवन् ! पसाय करी पच्चवखाणानो आदेश आपशोजी? (एम कही चोविहार उपयासादिक न दोय तो) "सुट्टिसहियं पच्चवखाइ अन्नत्थऽणाभोगेणं सहसागारेणं महत्तरागारेणं सब्वसमाद्विवत्तिआगारेणं बोसिरइ, (बोसिरामि) एम कपच्चवखाण करी पछी खमासमण (मू० २) दइ 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! उपधि संदिसाहुं?, इच्छं, कही खमासमण दइ 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! उपधि पडिलेहुं? इच्छं, कही सर्व उपधि सवार प्रमाणे पडिलेहे, पछी (सवारना पडिलेहणनी विधिमां वताव्या प्रमाणे इरियावहियं पडिकमी, कानो लइ इरियावहियं पडिकमी तपासी ते परठववो.

त्यार पछी छेल्या मुहूर्तं मुधी स्वाध्याय करवो, पछी स्फंडिलभूमि प्रमार्जवी, तेनो विधि आगल आवी गयो छे. (जुओ पानुं त्रीजुं)

(६४) साधु दररोज सातवार चैत्यवंदन करे ते:—

(१) रात्रिक्रमणमां "जगचितामणिनुं" (२) तेने अंते "विशाललोचन०"नुं (३) जिनचैत्ये जायत्यारे करे ते (४) पच्चवखाण पारतां 'जगचितामणि'नुं (५) वापयां पछी इरियावहिया पडिकमी 'जगचितामणि'नुं चैत्यवंदन करे ते (६) देवसिक्रमतिक्रमणना मारंभमां, [कोइ नपोऽस्तु० नुं कहे छे] (७) संथारा पोरिसिमां 'चरकसाय'नुं कहे छे ते,



(६५) साधु दररोज चार वखत सज्जाय करे ते.

(१) सवारना पडिलेहणमां 'धम्मो मंगल'नी (२) सांझनी पडिलेहणमां 'धम्मो मंगल' (३) दैवसिंपतिक्रमणमां अंते कराय छे ते [कोइ पचंक्वाण पारतां 'धम्मो मंगल'नी गणे छे] (४) राइपडिकपणाना प्रारंभमां भरहेसरनी कइ छे ते. [खरी रीते रात्रि अने दिवसना प्हेला अने छेस्ला प्हेरनो स्वाध्याय ते चतुष्काल स्वाध्याय छे]




(६६) चरणसिचरी

धय ६ समणधम्म १० संजम १७ वेयावधं च १० बंभगुत्तीओ ९ । नाणाइत्तियं ३ तच १२ कोहनिग्गहाइ ४
चरणमेयं ॥ १ ॥

करणमिचरि

विडविसोही ४ समिई ६ भावण १२ पडिमा १२ य इंदियनिरोहो ५ । पडिलेहण २५ गुत्तीओ ३ अभिग्गहा ४
चेव करणं तु ॥ २ ॥

॥ इति प्रतिनियतविधिओ ॥



अथ पाक्षिकप्रतिक्रमणविधिः

[देवसिरुप्रतिक्रमणमां प्रतिक्रमणमूत्र सुधी जेम विधि कळो छे तेम आ प्रतिक्रमणमां पण त्यांसुधी तेज प्रमाणे विधि भाणवो, तेमां तफावत मात्र एदळो छे के चैत्यवंदन सकलाहंतुं करेवुं अने थोय स्नातस्यानी कहेवी, ते चैत्यवंदन आ प्रमाणे—

(६७) सकलाहंतप्रतिष्ठानमधिष्ठानं शिवश्रियः । सुभूवःस्यस्त्रयीशानमाहंत्यं प्रणिदधमहे ॥ १ ॥ नामांकृतिद्रव्यभायै; पुनतत्रिजगज्जनम् । क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नहंतः ससुपास्महे ॥ २ ॥ आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् । आदिमं तीर्थनाथं च, ऋषभस्वामिनं स्तुमः ॥ ३ ॥ अहंतमजितं विश्वकमलाकरभास्करम् । अम्लानकेवलादर्शसंकांतजगत स्तुवे ॥ ४ ॥ विश्वंभव्यजनारामकुल्यातुल्या जयंति ताः । देशनासमये वाचः श्रीसंभवजगत्पतेः ॥ ५ ॥ अनेकान्तमेतांभीधिससुह्लासनचंद्रमाः । दद्यादमंदमानंदं, भगवानभिनन्दनः ॥ ६ ॥ द्युसत्किरीटशाणाग्नोत्तेजितांघ्रिनखावलिः । भगवान् सुमतिस्वामी, तनोत्वभिमतानि वः ॥ ७ ॥ पद्ममभप्रभोर्देहभासः पुष्पंतु वः श्रियम् । अंतरगारिमथने, कोपाटोपादिवारुणाः ॥ ८ ॥ श्रीसुपार्श्वजिनेद्राय महेन्द्रमहिताङ्गये । नमश्चतुर्वर्णसंघगगनाभोगभाङ्गते ॥ ९ ॥ चंद्रमभप्रभोश्चंद्रमरीचिनिचयोज्ज्वला । मूर्तिभूर्चसितध्याननिर्मितेव श्रियेऽस्तु वः ॥ १० ॥ करामलंकचद् विश्वं, कलयन् केवलश्रिया । अधिन्त्यमहात्म्यनिधिः, सुविधिबोधयेऽस्तु वः ॥ ११ ॥ सत्त्वानो परमानन्दकंदोद्भेदनवांडुदः । स्याद्रादाश्रुतनिस्यंदी, शीतलः पातु वो जिनः ॥ १२ ॥ भवरोगार्त-


जत्तुनामगदंकारदर्शनः । निःश्रेयसश्चीरमणः, श्रेयांसः श्रेयसेऽस्तु वः ॥ १३ ॥ विश्वोपकारकीभूततीर्थकृतकर्म-
निर्मितिः । सुरासुरनरः पश्यो, वासुपूज्यः पुनातु, वः ॥ १४ ॥ विमलस्वामिनो वाचः, कतकक्षोदसोदराः । जयंति
त्रिजगद्यतो जलनैर्मल्यहेतवः ॥ १५ ॥ स्वयंभूरमणस्पर्धा, करुणारसचारिणा, अनंतजिदंतां, वः; प्रपच्छतु सुख-
श्रियम् ॥ १६ ॥ कल्पद्रुमस्यर्माणमिष्टप्राप्तौ शरीरिणाम् । चतुर्धा धर्मदेष्टारं, धर्मनाथमुपासहे ॥ १७ ॥ सुधासोदर-
वाग्ज्योत्स्नानिर्मलीकृतदिङ्मुखाः । मृगलक्ष्मा तमःशान्त्यै, शान्तिनाथजिनोऽस्तु वः ॥ १८ ॥ श्रीकुंतुनाथो भगवान्,
सनाथोऽतिशयद्विभिः । सुरासुरवृनाथानामेकनाथोऽस्तु वः श्रिये ॥ १९ ॥ अरनाथस्तु भगवांश्चतुर्थारनभोरविः ।
चतुर्थपुरुषार्थश्रीविलास वितनोतु वः ॥ २० ॥ सुरासुरनराशोशमयूजववारिदम् । कर्मद्रुमूलने हस्तिमहं महिममि-
पुमः ॥ २१ ॥ जगन्महामोहनिद्राप्रत्युपसमयोपमम् । मुनिसुवतनाथस्य, देशनाथचनं स्तुमः ॥ २२ ॥ लुठंतो नमतां
मूर्तिं, निर्मलीकारकारणम् । वारिप्लवा इव नमैः, पांतु पादनन्वांशवः ॥ २३ ॥ पदुवंशसमुद्रैः, कर्मकक्षद्वृताशानः ।
अरिष्टनेमिर्भगवान्, भूयादोऽरिष्ठनाशनः ॥ २४ ॥ कमठे धरणेन्द्रे च, स्वोचितं कर्म कुर्वति । प्रसुस्तुत्यमनोवृत्तिः,
पार्श्वनाथः श्रियेऽस्तु वः ॥ २५ ॥ श्रीमते वीरनाथाय, सनाथायाद्भुतश्रिया । महानंदसरोराजमरालायाद्दत्ते नमः
॥ २६ ॥ कृतापराधेऽपि जने, कृपाभंगरतारयोः । ईपद्वयाज्पाद्र्योर्भद्रं, श्रीवीरजितनेत्रयोः ॥ २७ ॥ जयति विजिता-
न्यतेजाः सुरासुराधीशसेवितः श्रीमान् । विमलल्लासचिरहितक्रिभुवनचितामणिर्भगवान् ॥ २८ ॥ वीरः सर्वसु-
रासुरैरमरितो वीरं बुधाः सश्रिताः, वीरेणाभिहतः स्रुमनिचयो वीराय नित्यं नमः । वीरातीर्थमिदं प्रबृत्तम-

तुलं वीरस्य घोरं तपो, वीरे श्रीधृत्तिकीर्त्तिकांतिनिचयः श्रीवीर ! भद्रं दिश ॥ २९ ॥ अवनितलगतानां कृत्रिमा-
 कृत्रिमानां, वरभवनगतानां दिव्यवैमानिकानाम् । इह मनुजकृतानां देवराजाचितानां, जिनवरभवनानां भावतोऽहं
 नमामि ॥३०॥ सर्वेषां वेधसामाद्यमादिमं परमेष्ठिनाम् । देवाधिदेवं सर्वज्ञं, श्रीवीरं प्रणिदध्महे ॥३१॥ देवोऽनेक-
 भवाजितोजितमहापापप्रदीपानिलो, देवः सिद्धिवधूविशालहृदयालंकारहारोपमः । देवोऽष्टादशदोपसिधुरघटानि-
 भेदपंचाननो, भव्यानां विदधातु वाञ्छितफलं श्रीवीतरागो जिनः ॥ ३२ ॥ ख्यातोऽष्टापदपर्वतो गजपदः संमेत-
 शैलाभिधः, श्रीमान् रैवतकः प्रसिद्धमहिमा शत्रुजयो मंडपः । वैभारः कनकाचलोऽर्बुदगिरिः श्रीचित्रकूटादयस्तत्र
 श्रीऋषभादयो जिनवराः कुर्वतु वो मंगलम् ॥ ३३ ॥

अथ स्नातस्थानी थोय—(६८) स्नातस्याप्रतिमस्य मेरुशिखरे शच्या विभोः शैशवे, रूपालोकनविस्रयाहृतरसभ्रांत्या
 भ्रमचक्षुषा । उन्मृष्टं नयनप्रभाधवलितं क्षीरोदकाशंकया । वक्त्रं यस्य पुनः पुनः स जयति श्रीवर्द्धमानो जिनः ॥१॥
 हंसांसाहतपद्मरेणुकपिशक्षीराणवांभोभृतैः, कुंभैरप्सरसां पयोधरभरप्रस्पर्धिभिः कांचनैः । येषां मंदररत्नशैल-
 शिखरे जन्माभिपेकः कृतः, सर्वैः सर्वसुरासुरेश्वरगणैस्तेषां नतोऽहं क्रमान् ॥ २ ॥ अर्हद्बक्त्रप्रसृतं. गणधर-
 चितं द्वादशांगं विशालं, चित्रं बहर्थयुक्तं सुनिगणवृषभैर्धारितं बुद्धिमद्भिः । मोक्षाग्रद्वारभूतं व्रतचरणफलं ज्ञेय-
 भावप्रदीपं, भक्त्या नित्यं, प्रपद्ये श्रुतमहमखिलं सर्वलोकैकसारम् ॥ ३ ॥ निष्पंकव्योमनीलद्युतिमलसदृशं बाल-
 चंद्राभदंष्ट्रं, मत्तं घंटारवेण प्रसृतमदजलं पूर्यंतं समंतात् । आरूढो दिव्यनागं विचरति गगने कामदः कामरूपी,

यक्षः सर्वानुभूतिर्दिशतु मम सदा सर्वकार्येषु सिद्धिम् ॥ ४ ॥

[ए प्रमाणे प्रतिक्रमणस्य सुधी कथा पछी खमासमण दइ 'देवसिअ आलोइअ पडिकंता इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पक्खि सुहपत्ति पडिलेहुं ? इच्छं' एम कही सुहपत्ति पडिलेहवी, पछी ये वांदणा देवां, पछी 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! संशुद्धास्वामणेणं अब्भुट्टिओमि अब्भतर पक्खिअं स्वामेडं', इच्छं, स्वामेमि पक्खिअं, एकपक्खणं पनरस दिवसाणं पनरस राईणं जंकिंचि अपत्तिअं विगेरे अब्भुट्टियानो पाठ बोली गुरुने वांदवा, पण देवसी अने अहि राइनी, माफक प्रणनेज खामवा, पछी 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पक्खिअं आलोडं', इच्छं, आलोएमि जो मे पक्खिअो अइयारो' विगेरे पाठ कहेवो, पछी 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पक्खिअतिचार आलोडं', इच्छं' कही पाक्षिक अतिचार कहेवा, ते नीचे मुजव



(६९) पाक्षिकअतिचार

नाणंमि दंसणंमि अ, चरणंमि तवंमि, तह य विरियंमि । आयरणं आयारो इय एसो पंचहा भणिओ ॥ १ ॥ ज्ञानाचारं दर्शनाचार चारित्राचार तपआचार वीर्याचार, ए पंचविध आचारमांहि अनेरो जे कोइ अतिचार पक्षदिवसमांहि सूक्ष्म वादर जाणतां अजाणतां हुओ होय ते सविहुं मन वचन कायाए करी मिच्छासिद्धुकडं ॥ १ ॥

तत्र ज्ञानाचारे आठ अतिचार—काले विणए बहुमाणे उवहाणे तह य निणहवणे । वंजण अत्य तदुभए अट्टविहो नाणमायारो ॥२॥

ज्ञान फालवेळामाहे पढ्यो गुण्यो परावर्च्यो नहि, अंकाळे पढ्यो, विनयहीन बहुमानहीन योगोपधानहीन पढ्यो, अनेरा कन्हे पढ्यो अनेरो गुरु क्यो, देववंदण वांदणे पढिक्कमणे. सज्जाय करतां पढतां गुणतां कूडो अक्षर काने मात्रे आंगलो ओछो भण्यो गुण्यो, सूत्रार्थ तदुभय कूडां यथा; कानो अणउद्द्यो; डांडो अणपडिलेहो, वसति अणशोध्यां अणपवेयां असज्जाइ अणोज्जा कालवेळामाहि श्रीदशवैकालिकप्रमुख-सिद्धांत पढ्यो गुण्यो परावर्च्यो, अविधिप-योगोपधान कीधां करांब्यां, ज्ञानोपगर्ण पाटी पोथी ठवणी कंवली नोकारवाली सांपडां सांपडी दखी वही कागलीआ ओलीआ प्रत्ये पग लाग्यो, थुंके करी अक्षर भांड्यो, ज्ञानवंतं प्रत्ये प्रदेपे मंच्छर वयो, अंतराय अवज्ञा आशातना कीधी, कुणहि प्रते तोतडो वावडो देखी हस्यो वितवंयो, मतिज्ञान श्रुतज्ञान अचधिज्ञान मनःपर्यवज्ञान केवलज्ञान, ए पांच ज्ञानतणी अमददहणा आशातना कीधी, ज्ञानाचार-विपश्यो अनेरो जे कोइ अतिचार० ॥ २ ॥

दर्शनाचारे आठ अतिचार—निस्संक्रिय निष्कंखिय, निव्वितिगिच्छा अमूढदिद्वी अ । उववूढ धिरीकरणे, वच्छळ एप्रावणे अष्ट ॥ २ ॥ देव गुरु धर्मतणे विपे निस्संकरणं न कीधुं, तथा एकांत निश्चय धर्यो नदीं, धर्म मंबंधीआ फलतणे विपे निस्संदेह बुद्धि धरी नहिं, सांधु साध्वीतणी निंदा जुगुप्सा कीधी, मिथ्यात्वतणी पूजा प्रभावना देखी मूढदृष्टिपणुं कीधुं, संघमाहि गुणवंतणी अनुपवृंहणा कीधी, अस्थिरीकरण अवात्सल्य अमीति अभक्ति निपजावी, तथा देवद्रव्य गुरुद्रव्य साधारणद्रव्य भक्षित उपेक्षित प्रज्ञापराधे विणाश्यो, विणसंतो उवेळ्यो, छती शक्तिप सारसंभाल न कीधी, ठवणायरिय हाथकी पांड्यो, पडिलेहवो विसार्यो, जिनश्रुतनतणी चोराशी आशातना, गुरुप्रत्ये तेत्रीश आशातना कीधी होय, दर्शनाचार विपश्यो अनेरो जे कोइ अतिचार० ॥ ३ ॥

चारित्र्याचारे आठ अतिचार—पणिदाणभोगजुनो, पंचहिं समिईहिं तीहिं गुतीहिं । एसं चरिचायारो, अष्टविहो होइ नायव्यो

॥ ४ ॥ ईर्ष्यासमिति, भ्रापासमिति, एपणासमिति, आदांनभांडमात्रनिक्षेपणासमिति, पारिष्ठापनिकासमिति, मनो-
गुप्ति, वंचनगुप्ति, कायगुप्ति ए अष्ट प्रवचनमाता रुडीपेरे पाली नहीं, साधुतणे धर्मे सदैव, श्रावकतणे धर्मे सामायिक
पोसह लीधे जे कांइ खंडनविराधना कीधी होय, चारित्राचार विपद्दओ अनेरो जे कोइ अतिचार० ॥

विशेषतश्चारित्राचारे तपोधनतणे धर्मे—चयछकं ६ कायछकं १२ अकल्पो १३ गिह्भिषयणं १४ । पलिअंक १५
निसिज्जाए १६, सिषाणं १७ सोभवज्जणं १८ ॥ १ ॥ व्रतपट्टके पहिले महाव्रते प्राणातिपात सूक्ष्म चादर व्रस थाचर
जीयतंणी विराधना हुइ १ वीजे महाव्रते क्रोध लोभ भय हास्य लगे जूठुं चोल्घार वीजे अदचादानेचिरमणमहाव्रते
'सामीजीचादसं तित्ययरदसं तहेव य गुरुंहि । एवमदसं चउहा पणसं वीपराएहि ॥ १ ॥' स्वामिअदस, जीवअदस
तीर्थकरअदस गुरुअदस, ए चतुविधअदचादानमांहि जे कांइ अदस परिभोगव्युं३ चोधे महाव्रते 'वंसहि? कहर
निमिडिज३ दिय४ कुडितर५ पुच्चकीलिप६ पणिण७ । अइमापाहार८ विभूसणा य९ नव वंभगुत्तीओ ॥ १ ॥ ए
नचवाडी सुधी पाली नहीं, सुहणे स्वप्नांतरे दृष्टिविपर्यास हुओ४ पांचमे महाव्रते धर्मोपगणतणे चिये इच्छा
मृच्छा गृद्धि आसक्ति धरी, अधिको उपगर्ण चावयो, पर्वतिथिए, पडिलेहवो विसार्यो५ छठे रात्रिभोजनचिरमण-
व्रतें असुरो भातं पाणी कीधो, छारोदुगार आव्यो, पात्रे पात्रबंधे तक्रादिनो छांटो लाग्यो, खरब्धो रख्यो, लेयतेलओ-
पंधादिक तणे संनिधि रख्यो, अतिमात्राएं आहार लीधो६, ए छए व्रत विपद्दओ अनेरो जे कोइ अ० ॥

कायंपदके गांमतणे पइसारें नीसारें पग पडिलेहवा विसार्या, माटी मीठुं खडी घावही अरणेने पापाणतणी चा-

तली उपर पग आव्यो७ अष्काय याघारि फूसणा हुवा, विहरवा गया ऊलखो हाल्यो, लोटो दोल्यो, काचा पाणी-
तणा छांटा लाग्या८ तैउकाय वीजदीवातणी उजेही हुइ९ वाउकाय उघाडे सुखे बोल्या, महायाय वाजतां कपडा-
कायलीतणा छेडा साचव्या नही, फूंक दीधी १० वनस्पतिकाय नीलफूल सेवाल थड फल फूल वृक्ष शाखा प्रशाखा-
तणा संघट परंपर निरंतर हुवा११ ब्रसकाय बेइंद्री तेइंद्री चउरिंद्री पंचेद्री काग वग उडाव्या, ढोर चासव्यां, बालक
वीहराव्यां१२, पट्काय विपइओ अनैरो जे कोइ अतिचार० ॥

अकल्पनीय सिज्जा वस्त्र पात्र पिंड परिभोगव्यो, सिज्जातरतणो पिंड परिभोगव्यो, उपयोग कीधा, पाखे वि-
ह्यो, धात्रीदोप ब्रसवीजसंसक्त पूर्वकर्म पश्चात्कर्म उद्गम उत्पादना दोप चितव्या नहीं?३ गृहस्थतणो भाजन भांड्यो,
फोइयो, बलतो पाछे आप्यो नहीं १४ सूतां संथारिया उत्तरपट्टो टाली अधिको उपगरण वाच्यो १५—१६ देशतः
स्नान कीथुं, सुखे भीनो हाथ लगाडयो, सर्वतः स्नानतणी वांछा कीधी १७ शरीरतणो मेल फेडयो, केश रोम नख
समार्यां, अनैरी कांइ राढाविभूषा कीधी १८ अकल्पनीयपिंडादि विपइओ अनैरो जे कोइ अति० ॥

आवस्सय१ सज्झाए२ पडिलेहण३ क्षाण४ भिक्खु५ अभत्तट्टे६ । आगमणे निगमणे७ ठाणे८ निसीअण९ तुअट्टे१० ॥१॥

आयइयक-उभयकाल व्याक्षिप्तचित्तपणे पडिक्कमणो कीधो, पडिक्कमणामांहि उंच आवी, बेठां पडिक्कमणुं कीथुं १
दिवसप्रत्ये चार चार सज्झाय सातचार चैत्यवंदन न कीधां २ पडिलेहणा आघी पाछी भणावी, अस्तोव्यस्त कीधी ३
आर्चध्यान रौद्रध्यान ध्यायां, धर्मध्यान शुक्रध्यान ध्यायां नहीं ४ गोचरी. गयां वेंतालीश दोप उपजता चितव्या नहीं,

पांच दोष मांडली तणा टाल्या नहीं ५ छतीशक्तिः पर्वतिथिः उपवासादिक तप कीधो नहिं ६ देहरा उपासरा मांहि
 पेसतां निसीही, नीसरतां आवस्सही कहेवी विसारी, इच्छामिच्छादिक दशविध चक्रवाल सामाचारी साचवी नहीं,
 गुरुतणो बचन तहत्ति करी पडिवज्यो नहिं, अपराध आव्यां मिच्छामिदुकुंडं दीधां नहिं, ७ स्थानके रहेतां हरियकाप
 वीयकाप कीडीतणां नगरां सोध्यां नहीं ८ ओधो सुहपत्ति चोलपट्टो संघट्ट्या, स्त्री तिर्यचतणा संवट्ट अनंतर परंपर
 हुवा ९ वडा प्रते पसाओ करी लहुडां प्रते इच्छाकार इत्यादिक विनय साचव्यो नहिं १० साधुसामाचारी चिपडओ
 अनेरो जे कोइ अतिचार पक्षदिवसमांही सूक्ष्म घादर जाणतां अजाणतां इवो होय ते सविहुं मनवचनकायाए करी
 मिच्छामिदुकुंडं ॥ ६ ॥ इति साधुअतिचार संपूर्ण ॥

एवंकारे साधुतणे धर्म एकविध असंजम तेत्रीस आशातना प्रमादपर्यंत, श्रावकतणे धर्म सम्यक्त्व मूलवारव्रत एकशो
 चोवीश अतिचार मांहि अनेरो जे कोइ अतिचार पक्ष दिवसमांहि सूक्ष्म घादर जाणतां अजाणतां हुयो होय ते सविहुं मनवच-
 नकायाये करी तस्स मिच्छामिदुकुंडं. पछी 'सब्यस्सवि पक्खिअ दुच्चित्तियं इत्यादि पाठ कहेवो, एम गुरुए कळा पछी
 इच्छकारि भगवन् ! पसाय करी पक्खित्तप प्रसाद करशोजी (एम शिल्ले कहेवुं, ते चार पछी गुरुए पक्खित्तप कहेवुं, ते आ
 ममाणे) चउत्थेणं एक उपवास वे आंबिल त्रण नीवि चार एकासणां आठ वेआसणां वेहजार सज्जाय करी यथाशक्ति
 पहुँचाडजोजी (उपर ममाणे तप कर्युं होय तो अहीं तहत्ति कहेवुं, ओछुं वतुं कर्युं होय तो यथाशक्ति कहीए, न कर्युं होय तो
 मौन रहीये, पछी वे वांदणां (मू० २५) देवां, पछी 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पत्तेगल्लामणेणं अब्भुट्ठिओमि अहिंभतर

पक्खिअं खामेउं?, इच्छं, खामेमि पक्खिअं एकपक्खिअं पनरसरईणं पनरसरईणं जंक्किचि अपचियं० विगेरे पाठ कही पछी वे वांढणां देवां, पछी 'देवसिअ आलोइय पडिक्कंता इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पक्खिअं पडिक्कमावेह ? इच्छं,' कही 'करेमि भंते सामा०' कही 'इच्छामि पडिक्कमिउं जो मे पक्खिअो०' इत्यादि कहेयुं, पछी खमा० दइ पक्खीसूत्र योलनार सायु इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पक्खिअसूत्र कइहुं ? एम कहे, अने वानीना पक्खीसूत्र सांभलं एम कहे, पछी आदेन्नवालो उण नक्कार गणी सायु आ पक्खिअसूत्र कहे, ते:—

पाक्षिकसूत्रम्—(७०) तित्थंकरे अतित्थे अतित्थसिद्धे अ तित्थसिद्धे य । सिद्धे जिणे रिसी महरिसी य नाणं च वंदामि ॥१॥ जे अ इमं गुणरयणसायमविराहिऊण तिणसंसारा । ते मंगलं करित्ता अहमवि आराहणाभिसुहो ॥२॥ मम मंगलमरिहंता सिद्धा साह सुयं च धम्मो अ । खंती गुत्ती सुत्ती अउजवया मइवं चेव ॥ ३ ॥ लोयग्ग्मि संजया जं करिति परमरिसिद्धेसिअमुआरं । अहमवि उवट्ठिओ तं महव्वयउच्चारणं काउं ॥४॥ से किं तं महव्वयउच्चारणा ? , महव्वयउच्चारणा पंचविहा पणत्ता राइभोअणवेरमणछट्ठा, तंजहा-सन्वाओ पाणाइवायाओ वेरमणं ? सन्वाओ मुसावा-याओ वेरमणं २ सन्वाओ अदिन्नादाणाओ वेरमणं ३ सन्वाओ मेहुणाओ वेरमणं ४ सन्वाओ परिग्गहाओ वेरमणं ५ सन्वाओ राइभोअणाओ वेरमणं ६ ॥

तथ ग्वल्ल पढमे भंते ! महव्वए पाणाइवायाओ वेरमणं, सव्वं भंते ! पाणाइवायं पच्चयखामि, से सुहुमं वा पायरं वा तंसं वा थाचरं वा नेव सयं पाणे अइवाएज्जा नेवन्नेहिं पाणे अइवायाविज्जा पाणे अइवायंतेवि अन्ने न

ममणुजाणामि जायज्जीवाणु तिविहं तिविहं करंतेपि अन्नं न समणुजाणामि
तत्स भंते ! पडिक्कमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । से पाणाइवाए चउड्विहं पन्नते, तंजहा—दव्वओ
खित्तओ कालओ भावओ, दव्वओ णं पाणाइवाए छसु जीवणिकाएसु, खित्तओ णं पाणाइवाए सव्वलोए, कालओ
णं पाणाइवाए दिआ वा राओ वा, भावओ णं पाणाइवाए. राणेण वा दोसेण वा, जं मए इमस्स थम्मस्स केवल्लिप-
णत्तस्स अहिंमालक्खणस्स सच्चहिद्वियस्स विणयमूलस्स खंतिप्पहाणस्स अहिरणसोवन्निअस्स उवसमपभवस्स
नययंभेचरयुत्तस्स अपयमाणस्स भिक्खवाचित्तियस्स कुयलीसंवलस्स निरगिसरणस्स संपक्खालियस्स चत्तदोसस्स
गुणगाहियस्स निजियारस्स निव्वित्तिलक्खणस्स पंचमदव्वयजुत्तस्स असंनिहिसंचयस्स अचिसंवाइअस्स संसार-
पारगामिअस्स निव्वाणगमणपज्जवसाणफलस्स पुंवि. अन्नानयाए असवणयाए अयोहीए अणभिगमेणं अभि-
गमेण वा पमाणं रागदोसपडियद्धयाए बालयाए मोहयाए मंदयाए किट्टयाए तिगारवगस्थयाए चउक्कसाओवभएणं
पंचिदोयसहेणं पडिपुन्नभारियाए सायासोक्खमणुपालयंतेणं इहं वा भवे अन्नेसु वा भवगहणेषु पाणाइवाओ कओ
वा काराविओ वा कीरंतो वा परेहिं समणुत्ताओ तं निदामि गरिहामि तिविहं तिविहं मणेणं वायाए काएणं, अईअं
निदामि पटुप्पन्नं संवरेमि अणागयं पक्खलामि सव्वं पाणाइवायं जावज्जीवाए, अणित्तिसओऽहं नेय सयं पाणे
अइयाएत्ता नेवन्नेहिं पाणे अइवायंतेवि अन्ने न समणुजाणिज्जा, तंजहा-अरिहंतसखिलअं सिद्धस-
रित्तअं माहुसखिलअं देवसखिलअं अप्पसखिलअं, एवं भवइ भिक्खु वा भिक्खुणी वा संजयचिरयपडिहयपच्चक्खवायपां-

वकन्मे दिआ वा राओ वा एगओ वा परिसागओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा, एस खलु पाणाइवायस्स वेरमणे हिए
 सुहे खमे निस्सेसिए आणुगामिए, सव्वेसि पाणाणं सव्वेसि भूयाणं सव्वेसि जीवाणं सव्वेसि सत्ताणं अट्टकखणयाए
 असोयणयाए अजूरणयाए अतिप्पणयाए अपीडणयाए अपरिआवणयाए अणुइवणयाए महत्थे महागुणे महाणुभावे
 महापुरिसाणुचिन्ने परमरिसिदेसिए पसत्थे, तं दुक्खभल्लयाए कम्मक्खयाए बोहिलाभाए संसाररुत्तारणा-
 एत्तिकट्ट उपसंपज्जिचाणं विहरामि । पढमे भंते ! महव्वए इवट्ठिओ मि सव्वाओ पणाइवायाओ वेरमणं ॥ १ ॥

अहावरे दोब्बे भंते! महव्वए मुसावायाओ वेरमणं, सव्वं भंते! मुसावायं पच्चक्खामि, से कोहा वा १ लोहा वा २ भया
 वा ३ हासा वा ४ नेव सयं मुसं वएज्जा नेवन्नेहि मुसं वायाचिज्जा मुसं वयंतेवि अन्ने न समणुजाणामि जायज्जीवाए
 त्तिविहं त्तिविहेणं, मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतंपि अन्नं न समणुजाणामि, तस्स भंते ! पडिक्क-
 मामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि, से मुसावाए चउव्विहे पन्नत्ते, तंजहा-दव्वओ ? खित्तओ २ कालओ ३
 भावओ ४, दव्वओ णं मुसावाए सव्वदव्वेसु, खित्तओ णं मुसावाए लोए वा अलोए वा, कालओ णं मुसावाए
 दिआ वा राओ वा, भावओ णं मुसावाए रागेण वा दोसेण वा, जं मए इमस्स धम्मस्स केवल्लिपणत्तस्स अहिसाल-
 कखणस्स सव्वाहिट्ठियस्स विणयमूलस्स खंतिप्पहाणस्स अहिरणसोचन्नियस्स इवसमपभवस्स नववंभचेरगुत्तस्स
 अपयमाणस्स भिक्खावित्तियस्स कुक्खीसंबलस्स निरगीसरणस्स संपक्खालियस्स चत्तदोसस्स गुणगाहियस्स
 निव्वियारस्स निव्वित्तिकखणस्स पंचमहव्वयजुत्तस्स असंनिहिसंचयस्स अविंसवाइअस्स संसारपारगामिअस्स

विज्जा अदिन्नं गिण्हंतेवि अन्ने न समणुजाणामि जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं, मणेणं वायाए काएणं न करेमि
 न कारवेमि करंतंपि अन्नं न समणुजाणामि, तस्स भंते ! पडिक्कमामि ' निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि,
 से अदिन्नादाणे चउव्विहे पन्नं, तंजहा—दव्वओ खिचओ कालओ भावओ, दव्वओ णं आदिन्नादाणे गहणधार-
 णिज्जेसु दव्वेसु खितओ णं अदिन्नादाणे गामे वा नगरे वा अरणे वा कालओ णं अदिन्नादाणे दिआ वा राओ वा,
 भावओ णं अदिन्नादाणे रागेण वां दोसेण वा, जं मए इमस्स धम्मस्स केवल्लिपन्नत्तस्सअ हिंसालक्खणस्स सचाहि-
 दिअस्स विणयमूलस्स खंतिप्पहाणस्स अहिरण्यसोवणियस्स उवसमपभवस्स नवयंभचेरगुत्तस्स अपयमाणस्स
 भिक्खाविचियस्स कुक्खीसवलस्स निरगिसरणस्स संपक्खालियस्स चतदोसस्स गुणगाहिअस्स निव्विआरस्स
 निव्वित्तिलक्खणस्स पंचमहद्वयजुत्तस्स असंनिहिसंचयस्स अविसंवाइयस्स ' संसारपारगामिअस्स निव्वाणगमणप-
 ज्जवत्साणफलस्स पुव्वि अन्नाणयाए असवणयाए अबोहिए अणभिगमेण वा पमाएणं रागदोसपडिबद्धयाए
 धालयाए मोहयाए संदयाए किडुयाए तिगारबगुरुयआए चउक्कसाओवगएणं पंचिदोवसट्टेणं पडिपुण्णभारियाए
 सायासुक्खमणुपालपंतेणं इहं वा भवे अन्नेसु वा भवगहणेसु अदिन्नादाणं गहिअं वा गाहाविअं वा थिप्पंतं वा
 परेहिं समणुत्तायं तं निदामि गरिहामि तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं, अईअं निदामि पडुप्पन्नं संवरेमि अ-
 णागयं पचक्खामि सव्वं अदिन्नादाणं जावज्जीवाए, अणिसिओऽहं नेव सयं अदिन्नं गिण्हज्जा नेवनेहि अदिन्नं
 गिण्हविज्जा अदिन्नं गिण्हंतेवि अन्ने न समणुजाणिज्जा, तंजहा—अरिहंतसक्खिअं सिद्धसक्खिअं साहुसक्खिअं

देवमग्निं अप्सवक्तिअं, एवं भयइ भिमथू वा भिमथुणी वा संजयविरयपडिह्यपचकलायपाचकम्मे दिआ वा
 राओ वा एगओ वा परिसागओ वा सुचे वा जागरणमाणे वा एस खलु अदिन्नादानस्स वेरमणे हिए सुहे खमे
 निस्सेसिए आणुगामिए (पारगामिए) सन्वेसि पाणाणं सन्वेसि भूआणं सन्वेसि जीवाणं सन्वेसि सत्ताणं अइक्ख-
 णयाए असोअणयाए अजूरणयाए अतिप्पणयाए अपीडणयाए अपरिआवणयाए अणुइयणयाए महत्थे महागुणे
 महाणुभाचे महापुरिसाणुच्चिणे परमरिसिदेसिए पसत्थे, तं दुक्खएखयाए कम्मकखयाए सुखयाए बोहिलाभाए सं-
 सारणाएचिरुडुवसंपज्जिताणं विहरामि । तच्चे भंते ! महव्यए उवट्ठिओ मि सव्याओ अदिन्नादानाओ वेरमणं ॥३॥

अहाचरे चउत्थे भंते ! महव्यए मेहुणाओ वेरमणं, सच्चं भंते ! मेहुणं पचक्खामि, से दिव्वं वा माणुसे
 वा तिरियग्गजोणिअं वा, नेव मयं मेहुणं सेविज्जा नेवनेहि मेहुणं सेयाविज्जा मेहुणं सेयंतेवि अन्ने न समणुजा-
 णामि जाचज्जीवाए तिविहं तिविहेणं, मणेणं वायाए काणं न करेमि न कार्वेमि करंतपि अन्नं न समणुजाणामि,
 तस्स भंते ! पडिक्कामि निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥ से मेहुणे चउव्विहे पन्नचे, तंजहा-द्वयओ
 गितओ कालओ भावओ, दव्वओ णं मेहुणे रुवेसु वा रुवसहगएसु वा, खित्तओ णं मेहुणे उडुडलोए वा अहोलोए
 वा तिरियलोए वा, कालओ णं मेहुणे दिआ वा राओ वा, भावओ णं मेहुणे रातेण वा दोसेण वा, जं मए इमस्स
 धम्मस्स केवल्लिपणत्तस्स अहिंसालएत्तणस्स सचाहिट्ठिअस्स विणयमूलस्स खंतिप्पहाणस्स अहिरन्नसोचन्निअस्स
 उवसमपभवस्स नयवंभचेरगुत्तस्स अपयमाणस्स भिक्खावित्तिपस्स कुम्भीसंघलस्स निरगिसरणस्स संगमखालि-

अस्स चत्तदोसस्स गुणगाहिअस्स निव्विआरस्स निव्विचिलक्खणस्स पंचमहव्वयजुत्तस्स असंनिहिंसंचयस्स अवि-
 संवाहअस्स संसारपारगामिअस्स निव्वाणगमणपज्जवसाणफलस्स पुव्वि अन्नाणयाए असवणयाए अयोहीए अण-
 भिगमेणं अभिगमेण वा पमाएणं रागदोसपडिबद्धयाए बालयाए मोहयाए भंदयाए किड्डयाए तिगारवगरुयआए
 चउकसाओवगएणं पंचिदिओवसट्टेणं पड्डिपुण्णभारयाए सायासोचलमणुपालयंतेणं इहं वा भवे अत्तेसु वा भवग्गह-
 पोसु मेहुणं सेविअं वा सेवाविअं वा सेविज्जंतं वा परेहि समणुब्रायं तं निंदामि गरिहामि तिविहं तिविहेणं मणेणं
 वायाए काएणं, अहंयं निंदामि पडुप्पन्नं संवरेमि अणगायं पक्खळांमि सव्वं मेहुणं जावज्जीवाए, अणिसिअओइहं नेव
 सयं मेहुणं सेविज्जा नेवन्नेहि मेहुणं सेवाविज्जा मेहुणं सेवंतेवि अन्ने न समणुजाणिज्जा, तंजहा-अरिहंतसक्खिअं
 सिद्धसक्खिअं साहुसक्खिअं देवसक्खिअं अप्पसक्खिअं, एवं हवह भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजयविरयपड्डि-
 हयपच्चक्खापपावकम्मे दिआ वा राओ वा एगओ वा परिसागओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा, एस खल्लु मेहुणस्स
 वेरमणे हिए सुहे खमे निस्सेसिए आणुगामिए (पारगामिए) सव्वेसिं पाणाणं सव्वेसिं भूआणं सव्वेसिं जीवाणं
 सव्वेसिं सत्ताणं अदुक्खणयाए असोअणयाए अजुरणयाए अतिप्पणयाए अपीडणयाए अपरिआवणयाए अणुदवणयाए
 महत्थे महागुणे महाणुभावे महापुरिसाणुचिन्ने परमरिसिदेसिए पसत्थे, तं दुक्खअखयाए कम्मक्खयाए सुक्खयाए
 धोहिलाभाए संसारत्तारणाएत्तिकट्टु उवसंपज्जिताणं विहरामि । चउत्थे भंते ! महव्वए उव्वद्विओ मि सव्वाओ मेहु-
 णाओ वेरमणं ॥ ४ ॥

अहावरे पंचमे भंते ! महव्वए परिग्गहाओ वेरमणं, सव्वं भंते ! परिग्गहं पच्चक्खामि, से अप्पं वा बहं वा
 अणुं वा थूलं वा चित्तमंतं वा अचित्तमंतं वा, नेव सयं परिग्गहं परिगिण्हज्जा नेवन्नेहिं परिग्गहं परिगिण्हाविज्जा
 परिग्गहं परिगिण्हंतेधि अन्ने न समणुजाणामि जावज्जीवाए त्तिचिहं त्तिचिहं, मणेणं चायाए काएणं न करेमि न
 कारवेमि करंतंपि अन्नं न समणुजाणामि, तस्स भंते ! पडिक्कामामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । से परि-
 ग्गहे चउब्बिहे पन्नत्ते, तंजहा-दव्वओ खित्तओ कालओ भावओ, दव्वओ णं परिग्गहे सच्चिताचित्तमीसेसु दव्वेसु,
 चित्तओ णं परिग्गहे सब्वलोए, कालओ णं परिग्गहे दिआ वा राओ वा, भावओ णं परिग्गहे अप्पग्घे वा महग्घे
 वा रागेण वा दोसेण वा, जं मए इमस्स धम्मस्स केवल्लिपन्नत्तस्स अहिंसालक्खणस्स सचाहिंत्तिअस्स विणयमूलस्स
 भंत्तिप्पहाणस्स अहिरणसोवन्नियस्स उवसमपभवस्स नवर्थभचेरगुत्तस्स अपयमाणस्स भिक्खाल्लिविअस्स कुक्खी-
 संयलस्स निरिगिसरणस्स संपक्खाल्लिअस्स चत्तदोसस्सं गुणग्गहिअस्स निव्विआरस्स निव्वित्तिलक्खणस्स पंचम-
 हव्वययुत्तस्स असंनिहिसंचयस्स अविस्वाहास्स संसारपारगामिअस्स निव्व्याणगमणपज्जवसाणफलस्स पुब्बि
 अन्नाणयाए असघणयाए अयोहीए अणभिगमेणं अभिगमेणं वा पमाणं रागदोसपडिबद्धयाए बालयाए मोहयाए
 मंदयाए किट्टयाए तिगारवगरूपआए चउक्कसाओवगएणं पंचिदिओवसट्ठेणं पडिपुन्नभारियाए सायासोक्खमणुपाल-
 यंतेणं इहं वा भवे अग्नेसु वा भवग्गहणेसु परिग्गहो गहिओ वा गाहाविओ वा धिप्पंतो वा परेहिं समणुन्नाओ तं निंदामि
 गरिहामि त्तिचिहं त्तिचिहं मणेणं चायाए काएणं, अइअं निंदामि पट्टप्पन्नं संवरेमि अणागयं पच्चक्खामि सव्वं

परिगहं जावज्जीवाए, अणिसिसओऽहं नेव सयं परिगहं परिगिण्हिज्जा नेवन्नेहि परिगहं परिगिण्हिज्जा विज्जा परिगहं परिगिण्हंतेयि अन्ने न समणुजाणिज्जा, तंजहा—अरिहंतसखिअं सिद्धसखिअं साहुसखिअं देवसखिअं अ-
 प्पमस्खिअं, एयं हवढ भिसखु वा भिसखुणी वा संजयथिरयपडिहयपच्चकखायपावकम्मे दिया वा राओ वा एगओ
 वा परिमागओ चा सुत्ते वा जागरणमाणे वा, एस खलु परिगहस्स वेरंमणे हिए सुहे खमे निस्सेसिए अणुगामिए
 [पारगामिए] सव्वेसिं पाणाणं सव्वेसिं भूआणं सव्वेसिं जीवाणं सव्वेसिं सत्ताणं अट्टकखणयाए असोअणयाए अज्ज-
 रणयाए अतिप्पणयाए अपीढणयाए अपरिआवणयाए अणुइवणयाए महत्थे महागुणे महाणुभावे महापुरिसाणुचिन्ने
 परमरिसिंदेसिए पसरथे, तं दुक्खस्वयाए कम्मस्वयाए सुक्खयाए वोहिलाभाए संसारुचारणाएचिकट्टु उवसंपज्जित्ताणं
 चिहरामि, पंचमे भंते ! महब्बए उवट्ठिओ मि सव्वाओ परिगहाओ वेरमणं ॥ ५ ॥

अहापरं छेढे भंते ! वए राइभोअणाओ वेरमणं, सव्वं भंते ! राइभोअणं पच्चक्खामि, से असणं वा पाणं वा
 न्याइमं वा साइमं वा, नेव सयं राइं भुंजिज्जा नेवन्नेहि राइं भुंजाविज्जा राइं भुंजंतेवि अन्ने न समणुजाणामि जाव-
 ज्जीयाए तिविहं तिविहेणं, मणेणं वायाए काणं न करेमि न कारयेमि करंतपि अन्नं न समणुजाणामि, तस्स भंते !
 पडिफमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । से राइभोअणे चउच्चिहे पन्नत्ते, तंजहा—इच्चओ खित्तओ
 कालओ भावओ, दच्चओ णं राइभोअणे असणे वा पाणे वा खाइमे वा साइमे वा, खित्तओ णं राइभोअणे सम-
 यणित्थे, कालओ णं राइभोअणे दिआ वा राओ वा, भावओ णं राइभोअणे तित्ते वा कट्टए वा कसाए वा अंबिळे

वा महूरे वा लवणे वा रागेण वा दोसेण वा, जं मए इमस्स धम्मस्स केवलपण्णत्तस्स अहिंसालक्खणस्स सचाहि-
 द्विअस्स विणयमूलस्स खंतिप्पहाणस्त अहिरणसोवणिणअस्स उवसमपभवस्स नवधंभचेरगुत्तस्स अपयमाणस्स
 भित्ताचिन्तिअस्स कुक्खीसंवलस्स निरगिसरणस्स संपक्खालिअस्स चत्तदोसस्स गुणग्गाहिअस्स निव्विआरस्स
 निव्विचीलक्खराणस्स पंचमहव्ययजुत्तस्स असंनिहिसंचयस्स अविंसंवाइयस्स संसारपारगामिअस्स निव्वाणगमणप-
 ज्जबसाणफलस्स पुब्बि अब्बाणयाए असचणयाए अयोहीए अणभिग्मेणं अभिग्मेण वा पमाणं रागदोसपडिध-
 द्दयाए पालयाए मोहयाए मंदयाए किट्टयाए तिगारवगक्यआए चउक्कसाओवगणं पंचिदिओवसट्ठेणं पडिपुण्णभारि-
 आए सायासोररामणुपालयंतेणं इहं वा भवे अन्नेसु वा भवगहणेसु राइभोअणं सुत्तं वा भुंजाविअं वा भुजंतं वा
 पेरोहिं समणुन्नायं तं निदामि गरिदाभि ! तिविह तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं, अईअं निदामि पडुप्पणं संवरेमि
 अणागयं पयत्तामि सव्वे राइभोअणं जावज्जीयाए, अणिसिअओइहं नेव सयं राइभोअणं सुंजिज्जा नेवन्नेहि राइ-
 भोअणं भुंजाविज्जा राइभोअणं भुंजंतेषि अत्ते न समणुजाणिज्जा, तंजहा-अरिहंतसक्खिअं सिट्ठसक्खिअं साहुस-
 णिअं देवसहिराअं अप्पसरिराअं, एवं हवइ भिरखू वा भिरपुणी वा संजयविरपपडिहयपचस्खापपावकम्मे दिआ
 पाराभो या पगओ वा परिसागओ वा सुये वा जागरमाणे वा, एस खल्ल राइभोअणस्स वेरमणे हिए सुहे म्मे नि-
 म्पेणिए आणुगामिए (पारगामिए) सव्वेसि पाणाणं सव्वेसि भूआणं सव्वेसि जीवाणं सव्वेसि सत्ताणं अट्टक्खराणघाए
 4 त्तोपणंघाए अजूरणयाए अतिप्पणयाए अपीडणयाए अपरिआणयाए अणुवणयाए महत्थे महागुणे महाणुभावे

दापुरिसाशुचिण्णे परमरिसिदेसिए पसत्थे, तं दुक्खल्लयाए कम्मक्खलयाए मुक्खल्लयाए बोहिलाभाए संसारुत्तराणाए-
सेरुइ उवसंपज्जिता णं चिहरामि । छट्ठे भंते ! वए उवट्ठिओ मि नन्वाओ राइभोअणाओ वेरमणं ॥ ६ ॥

इच्चेइआइं पंच महब्बयाइं राइभोअणवेरमणछट्ठाइं अत्तहिअट्ठयाए उवसंपज्जिता णं चिहरामि ॥

अप्पसत्था य जे जोगा, परिणामा य दाक्खणा । पाणाइवायस्स वेरमणे, एस जुत्ते अइक्कमे ॥ १ ॥ तिब्बरागा य
जा भामां, तिब्बदोसा तहेय य । मुसावायस्स वेरमणे, एस जुत्ते अइक्कमे ॥ २ ॥ उग्गहंसि अजाइत्ता, अविदिन्ने य
उग्गहे । अदिन्नादाणस्स वेरमणे, एस जुत्ते अइक्कमे ॥ ३ ॥ सद्दारुवारसांगंधाफासाणं पविचारणे । मेहुणस्स वेर-
मणे, एस जुत्ते अइक्कमे ॥ ४ ॥ इच्छा मुच्छा य गेही य, कंखा लोभे य दाक्खणे । परिग्गहस्स वेरमणे, एस जुत्ते अइ-
क्कमे ॥ ५ ॥ अइमत्ते अ आहारे, सुखित्तंमि संकिण । राइभोअणस्स वेरमणे, एस जुत्ते अइक्कमे ॥ ६ ॥ दंसणनाण-
चरित्ते, अविराहिता ठिओ समणधम्मे । पढमं वयमणुरक्खे, विरया मो पाणाइवायाओ ॥ ७ ॥ दंसणनाणचरित्ते,
अविराहिता ठिओ समणधम्मे । धीअं वयमणुरक्खे, विरया मो मुसावायाओ ॥ ८ ॥ दंसणनाणचरित्ते, अवि-
राहिता ठिओ समणधम्मे । तइअं वयमणुरक्खे, विरया मो अदिन्नादाणाओ ॥ ९ ॥ दंसणनाणचरित्ते, अविराहिता
ठिओ समणधम्मे । चउत्थं वयमणुरक्खे, विरया मो मेहुणाओ ॥ १० ॥ दंसणनाणचरित्ते, अविराहिता ठिओ
समणधम्मे । पंचमं वयमणुरक्खे, विरया मो परिग्गहाओ ॥ ११ ॥ दंसणनाणचरित्ते, अविराहिता ठिओ समणधम्मे
। षट्ठं वयमणुरक्खे, विरया मो राइभोअणाओ ॥ १२ ॥ आलयविहारसमिओ, जुत्तो गुत्तो ठिओ समणधम्मे । पढमं

वयमणुरक्खले, विरया मो पाणाड्यायाओ ॥ १३ ॥ आलयविहारसमिओ जुत्तो गुत्तो ठिओ समणधम्ममे । धीअं वयम-
 णुरक्खले, विरया मो द्दसावायाओ ॥ १४ ॥ आलयविहारसमिओ, जुत्तो गुत्तो ठिओ समणधम्ममे । तइअं वयमणुरक्खले
 विरया मो अदिनादाणाओ ॥ १५ ॥ आलयविहारसमिओ, जुत्तो गुत्तो ठिओ समणधम्ममे । चउत्थं वयमणुरक्खले,
 विरया मो मेहुणाओ ॥ १६ ॥ आलयविहारसमिओ, जुत्तो गुत्तो ठिओ समणधम्ममे । पंचमं वयमणुरक्खले, विरया
 मो परिग्गहाओ ॥ १७ ॥ आलयविहारसमिओ, जुत्तो गुत्तो ठिओ समणधम्ममे । छट्ठं वयमणुरक्खले, विरया मो रईभो-
 अणाओ ॥ १८ ॥ आलयविहारसमिओ, जुत्तो गुत्तो ठिओ समणधम्ममे । तिन्निहेण अप्पमत्तो, रक्खामि महव्वए
 पंच ॥ १९ ॥ सावज्जजोगमेगं, मिच्छत्तं एगमेव अन्नाणं । परिवज्जंतो जुत्तो, रक्खामि महव्वए पंच ॥ २० ॥ अण-
 चच्चजोगमेगं, सम्मत्तं एगमेव नाणं तु । उवसंपन्नो जुत्तो, रक्खामि महव्वए पंच ॥ २१ ॥ दो वेव रागदोसे, दुण्णि
 य द्धाणाइं अट्ठब्बाइं । परिवज्जंतो जुत्तो, रक्खामि महव्वए पंच ॥ २२ ॥ दुविहं चरित्तधम्मं, दुन्नि य द्धाणाइं धम्मसु-
 ष्साइं । उवसंपन्नो जुत्तो, रक्खामि महव्वए पंच ॥ २३ ॥ किण्हा नीला काऊ, तिन्नि य लेसाओ अप्पसत्थाओ । परि-
 वज्जंतो जुत्तो, रक्खामि महव्वए पंच ॥ २४ ॥ तेऊ पम्हा सुक्का, तिन्नि य लेसाओ सुप्पसत्थाओ । उवसंपन्नो जुत्तो,
 रक्खामि महव्वए पंच ॥ २५ ॥ मणसा मणसच्चिक्क धायासच्चेण करणसच्चेण । तिन्निहेणवि सच्चविक्क रक्खामि
 महव्वए पंच ॥ २६ ॥ चत्तारि य दुहसिज्जा, चउरो सन्ना तहा कसाया य । परिवज्जंतो जुत्तो, रक्खामि महव्वए
 पंच ॥ २७ ॥ चत्तारि य सुहसिज्जा, चउन्निवहं संवरं समाहिं च । उवसंपन्नो जुत्तो, रक्खामि महव्वए पंच ॥ २८ ॥

पंचेय य कामगुणे, पंचेव य अणहवे महादोसे । परिवर्जन्तो गुत्तो, रक्खामिं महव्वए पंच ॥ २९ ॥ पंचिदियसंवरणो,
 तहेव पंचविहमेव सज्जायं । उवसंपन्नो जुत्तो, रक्खामि महव्वए पंच ॥ ३० ॥ छज्जीवनिकायवहं, छप्पि य भासाउ
 अप्पसत्थाओ । परिवर्जन्तो गुत्तो, रक्खामि महव्वए पंच ॥ ३१ ॥ छड्विहमभित्तरयं, बज्झंपि य छव्विहं तवोक्कम्मं ।
 उवसंपन्नो जुत्तो, रक्खामि महव्वए पंच ॥ ३२ ॥ सत्त यं भयठाणाइं, सत्तविहं चैव नाणविब्भंगं । परिवर्जन्तो गुत्तो,
 रक्खामि महव्वए पंच ॥ ३३ ॥ पिडेसण पाणेसण, उग्गहसत्तिकया महज्झयणा । उवसंपन्नो जुत्तो, रक्खामि महव्वए
 पंच ॥ ३४ ॥ अट्ठ य मयठाणाइं, अट्ठ य कम्माइं तेसि बंधं च । परिवर्जन्तो गुत्तो, रक्खामि महव्वए पंच ॥ ३५ ॥
 अट्ठ य पवयणमाया, दिट्ठा अट्ठविहनिट्ठिअट्ठहिं । उवसंपन्नो जुत्तो, रक्खामि महव्वए पंच ॥ ३६ ॥ नव पावनिआणाइं
 संसारत्था य नवविहा जीवा । परिवर्जन्तो गुत्तो, रक्खामि महव्वए पंच ॥ ३७ ॥ नवयंभचेरगुत्तो, दुनवविहं वंभचेर-
 परिखुद्धं । उवसंपन्नो जुत्तो, रक्खामि महव्वए पंच ॥ ३८ ॥ उवघायं च दसविहं असंवरं तह य संकिलेसं च । परि-
 वर्जन्तो गुत्तो, रक्खामि महव्वए पंच ॥ ३९ ॥ सबसमाहिट्ठाणा, दस चैव दसाउ समणधम्मं च । उवसंपन्नो जुत्तो,
 रक्खामि महव्वए पंच ॥ ४० ॥ आसायणं च सब्वं, तिगुणं इक्कारसं विवर्जन्तो । उवसंपन्नो जुत्तो, रक्खामि मह-
 व्वए पंच ॥ ४१ ॥ एवं तिदंडविरओ तिगरणसुद्धो तिसल्लनीसल्लो । तिविहेण पडिक्कंतो, रक्खामि महव्वए पंच ॥ ४२ ॥

इच्छेअं महव्वयउच्चारणं थिरत्तं सल्लुद्धरणं धिहवलयं ववसाओ साहणद्धो पावनिवारणं निकायणा भावविसोही
 पढागाहरणं निज्जूहणाऽऽराहणा गुणाणं संवरजोगो पसत्थज्झाणोवउत्तया जुत्तया य नाणे परमहो उत्तमहो, एस खल्ल

तित्यं करोहिं रहरागदोसमहणेहिं देसिओ पथयणस्स सारो छज्जीवनिकायंसंजमो, उवएसिअं तेलोकसकयं ठाणं अणु-
 चगया । णमो त्थु ते सिद्ध बुद्ध सुच नीरय निस्संग माणमूरण गुणारयणसायसमणंतमप्पमेअ ! । नमो त्थु ते महह-
 महावीरबद्धमाणसाभिस्स । नमो त्थु ते अरहओ, नमो त्थु ते भगवओत्तिकट्टु । एसा खल्लं महव्वयउच्चारणा कया ॥
 इच्छामो सुत्तकित्तणं कांडं, नमो तेसिं खमासमणां जेहिं इमं वाइअं छव्विंहंमावसयं भगवंतं, तंजहा-सामाइअं
 १ चउवीसत्थओ २ वंदणय ३ पडिकमणं ४ काउस्सगो ५ पच्चमवाणं ६, सव्वेहिंपि एअग्निं छव्विहे आवस्सए भग-
 वंते ससुत्ते सअत्थे संगंथे सनिज्जुत्तिए ससंगहणीए जे गुणा वा भावा वा अरिंहंतेहिं भगवंतेहिं पणत्ता वा परू-
 विआ वा ते भावे सदहामो पत्तियामो रोएमो फासेमो पालेमो अणुपालेमो, ते भावे सदहंतेहिं पत्तिअंतेहिं रोअंतेहिं
 फासंतेहिं पालंतेहिं अथुपालंतेहिं अंतो पक्खस्स जं वाइअं पट्ठिअं परिअट्ठिअं पुच्छिअं अणुपेहिअं अणुपालिअं तं दुग्ख-
 वरयाए कम्मग्खयाए सुग्खयाए बोहिलाभाए संसारुचाराणाएत्तिकट्टु उवसंपज्जिवाणं विहरामि, अंतो पक्खस्स जं न
 वाइअं न पट्ठिअं न परिअट्ठिअं न पुच्छिअं नाणुपेहिअं नाणुपालिअं संते वळे संते वीरिए संते पुरिसकारपरकमे तस्स
 आलोएमो पडिकमामो निदामो गरिहामो विउट्टेमो विसोहेमो अकरणयाए अणुहेमो अहारिहं तवोकम्मं पापच्छित्तं
 पडिवज्जामो तस्स मिच्छामिदुकडं ॥

नमो तेसिं खमासमणां जेहिं इमं वाइअं अंगवाहिरं उक्कालिअं भगवंतं, तंजहा—दसवेआलिअं १ कप्पिआ-
 कप्पिअं २ बुद्धरूपसुअं ३ महकप्पसुअं ४ उववाइअं ५ रायप्पसेणिअं ६ जीवाभिगमो ७ पणवणा ८ महापन्नवणा

१ नंदी १० अणुओगदाराइं ११ देविंदत्थओ १२ तंदुलविआलिअं १३ चंदाविज्झयं १४ पमायप्पमायं १५ पोरिसिमं-
 डलं १६ मंडलप्पवेसो १७ गणिविज्जा १८ विज्जाचरणविणिच्छओ १९ झाणविभत्ती २० मरणविभत्ती २१ आयवि-
 सोही २२ संखेहणासुअं २३ वीयरायसुअं २४ विहारकप्पो २५ चरणविही २६ आडरपच्चक्खाणं २७ महापच्चक्खाणं
 २८, सव्वेहिं पि एअंमि अंगवाहिरे उक्कालिए भगवंते ससुत्ते सअत्थे संगत्थे सविज्जुत्तिए ससंगहणीए जे गुणा वा
 भावा वा अरिहंतेहिं भगवंतेहिं पन्नत्ता वा परुविआ वा ते भावे सइहामो पत्तिआमो रोएमो फासेमो पालेमो अणुपालेमो,
 ते भावे सइहंतेहिं पत्तिअंतेहिं रोअंतेहिं फासंतेहिं पालंतेहिं अणुपालंतेहिं अंतो पक्खस्स जं वाइअं पढिअं परिअ-
 ढ्दिअं पुच्छिअं अणुपेहिअं अणुपालिअं तं दुक्खक्खयाए कम्मक्खयाए सुक्खयाए वोहिलाभाए संसारुत्तारणाएत्तिकट्टं
 उवसंपग्गिज्जाणं विहरामि, अंतो पक्खस्स जं न वाइअं न पढिअं न परिअढ्दिअं न पुच्छिअं नाणुपेहिअं नाणुपालिअं
 संते यले संते वीरिए संते पुरिसकारपरकमे तस्स आलोएमो पडिक्कामो निदामो गरिहामो विउट्टेमो विसोहेमो अक-
 रणयाए अब्भुट्टेमो अहारिहं तवोकम्मं पायच्छित्तं पडिवज्जामो तस्स मिच्छामिदुक्कडं ।

नमो तेसि खमासमणाणं जेहिं इमं वाइअं अंगवाहिरं कालिअं भगवंतं, तंजहा—उत्तरज्झयणाइं १ दसाओ २
 कप्पो ३ ववहारो ४ इत्तिभासिआइं ५ निसीहं ६ महानिसीहं ७ जंभुदीवपन्नत्ती ८ सूरपन्नत्ती ९ चंदपन्नत्ती १०
 दीवसागरपन्नत्ती ११ खुट्टिया विमाणपविभत्ती १२ महल्लिआ विमाणपविभत्ती १३ अंगचूलिआए १४ वगगचूलिआए
 १५ विवाहचूलिआए १६ अरुणोववाए १७ वरुणोववाए १८ गरुलोववाए १९ (धरणोववाए) वेसमणोववाए २०

वेलंघरोवद्याए २१ देविंदोवद्याए २२ उद्घाणसुए २३ समुद्घाणसुए २४ नागपरिआवलिआणं २५ निरयावलिआणं २६
 कप्पिआणं २७ कप्पवडिसयाणं २८ पुक्किआणं २९ पुक्फूलिआणं ३० (वण्हिआणं) वण्हिदसाणं ३१ आसीविमभा-
 वणाणं ३२ दिट्ठीविसभावणाणं ३३ चारण (सुमिण) भावणाणं ३४ महासुमिणभावणाणं ३५ तेअग्गिनिसग्गाणं ३६,
 सन्वेहिंप्पि एअम्मि अंगयाहिरे कालिए भगवंते ससुत्ते सअत्थे संगंथे सणिज्जुत्तिए ससंगहणीए जे गुणा वा भावा
 वा अरिहंतेहिं भगवंतेहिं पणत्ता वा परुविया वा ते भावे सइहामो पत्तिआमो रोएमो फासेमो पालेमो अणुपालेमो,
 ते भावे सइहंतेहिं पत्तिअंतेहिं रोयंतेहिं फासंतेहिं पालंतेहिं अणुपालंतेहिं अंतो पक्खस्स जं वाइअं पढिअं परिअट्ठिअं
 पुच्छिअं अणुपेहिअं अणुपालिअं तं दुक्खय्खयाए कम्मय्खयाए मुक्खयाए संसारुचारणाएचिककट्ट उव-
 संपज्जित्ता णं विहरामि, अंतो पक्खस्स जं न वाइअं न पढिअं न परिअट्ठिअं न पुच्छिअं नाणुपेहिअं नाणुपालिअं संते
 वळे संते वीरिए संते पुरिसकारपरक्खमे तस्स आलोएमो पडिक्कामो निंदामो गरिहामो विउट्टेमो विसोहेमो अकरणयाए
 अणुमुट्टेमो अहारिहं तवोकम्मं पायच्छित्तं पडिवज्जामो तस्स मिच्छामिडुक्कंडं ॥

नमो तेसि खमासमणाणं जेहिं इमं वाइअं दुवालसंगं गणिपिडगं भगवंतं, तंजहा-आयारो १ मूअगडो २ ठाणं
 ३ समवाओ ४ धिवाहपन्नची ५ नायाधम्मकहाओ ६ उवासगदसाओ ७ अंतगडदसाओ ८ अणुत्तरोववाइअदसाओ
 ९ पणहावागरणं १० विवागसुअं ११ दिट्ठियाओ १२, सन्वेहिंप्पि एअंमि दुवालसंगे गणिपिडगे भगवंते ससुत्ते सअत्थे
 संगंथे सणिज्जुत्तिए ससंगहणीए जे गुणा वा भावा वा अरिहंतेहिं भगवंतेहिं पन्नत्ता वा परुविया वा ते भावे सइ-

हामो पस्तिआमो रोएमो फासेमो पालेमो अणुपालेमो, ते भावे सदहंतेहि पत्तिअंतेहि रोयंतेहि फासंतेहि पालंतेहि अणुपालं
तेहि अंतो पक्खस्स जं चाइअं पट्ठिअं परिअट्ठिअं पुच्चिअं अणुपेहिअं अणुपालिअं तं दुनखवखंयाए कम्मवखंयाए सु-
क्खयाए घोहिलाभाए संसारुचरणायत्तिकट्ट उवसंपज्जिताणं विहरामि, अंतो पक्खस्स जं न चाइअं न पट्ठिअं न परि-
अट्ठिअं न पुच्चिअं नाणुपेहिअं नाणुपालिअं संते वले संते वीरिए संते पुरिसकारपरकमे तस्स आलोएमो पडिक्कमामो
निदामो गरिहामो विउट्टेमो विसोहेमो अकरणयाए अब्भुट्टेमो अहारिहं तवोकम्मं पायच्छित्तं पडिवज्जामो तस्स
मिच्छामिदुकुडं । नमो तेसिं खमासमणाणं जेहि इमं चाइअं दुवालसंगं गणिपिडगं भगवंतं, सम्मं काएणं फासंति
पालंति पूरंति तीरंति किट्ठंति सम्मं आणाए आराहंति अहं च नाराहेमि तस्स मिच्छामिदुकुडं ॥ सुअदेवया भगवइ
नाणापरणीअकम्मसंघायं । तेसिं खवेउ सययं जेसिं सुअसायरे भत्ती ॥ १ ॥

॥ इति पाक्षिकसूत्रं समाप्तं ॥



[पत्ती 'अमणयुत्र' (सू० २७) कहेवुं (अगाउ देवसिप्रति० मां कहीगया प्रमाणे) पत्ती करेमि भंते, (सू० २२) इच्छामि
वामि काउस्सगं जो मे पक्खिओ० (सू० २३) तस्स० अंतथ० (सू० ७-८) कहीवार लोगस्सनो काउस्सग करवो, काउस्सग
पारी मगट लोगस्स (सू० ९) कहेवो, पत्ती सुहपत्ति पडिठेहवी, पत्ती वे वांदणां (सू० २५) देवां, पत्ती इच्छाकारेण संदिसह
भागंयं ! समंतंखामणेणं अब्भुट्ठिओमि अग्निभतर पक्खिअं खामेउं ? इच्छं, खामेमि पक्खिअं एकपक्खिअं पनरस्स-

दिवसाणं पनरमराइयाणं जंकिंचि अपत्तिअं० (यु० ४) इत्यादि पाठ कथा पढी खंपासंपण दइ इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पणिलयामणा खामुं ? इच्छं, कही चार खामणां खामवां, ते आ मयाणे—

(७१) श्रीपाक्षिकखामणा

इच्छामि लमासमणो ! पिअं च मे जं मे हृद्धानं तुट्ठानं अप्पायंकाणं अभग्गजोगाणं सुसीलाणं सुब्बयाणं मापरियउयउयाणं नाणेणं दंसणेणं चरित्थेयं तवसा अयाणं भवेसणाणं बहूसुभेण भे दिवसो पोसहो पव्हो वइकंतो भयो य भे कल्लणेणं पञ्चुवट्ठिओ सिरसां मणसा मत्थपणवंदामि ॥ १ ॥ गुरु कहे तुब्भेहि ममं ॥

इच्छामि लमासमणो ! पुट्ठि चैइआहं वंदिसा नमंसिता तुब्भणहं पायमूले विहरमाणेणं जे केई पट्टेवसिया माणो दिट्ठा मासणा वा वसमाणा वा गामानुयासं दइजमाणा वा राइणिया संपुच्छंति ओमराइणिया वंदंति अउज्जा वंदंति अज्जियाओ वंदंति सावयाओ वंदंति अंहंयि निस्सल्लो निकासाओचिकइ सिरसा मणसा मत्थपणवंदामि ॥ २ ॥ गुरु-अहमचि वंदावेमि चैइआहं ॥

इच्छामि लमासमणो ! [अब्बुट्ठिओहं] उयट्ठिओहं तुब्भणहं संतिअं अहाकप्पं वा चत्थं वा पट्ठिगंहं वा कपलं वा पायपुंछणं वा (रयहरणं वा) असत्तरं वा पवं वा गारं सिलोमं वा (सिलोगंदं वा) अट्ठं वा हेउं वा पसिणं वा चाग-रणं वा तुब्भेहि चिअंत्तेणं दिअं मा! अविणाण पट्ठिच्छिअं तस्स मिच्छामिदुकडं ॥ ३ ॥ गुरु-आपरियसंतिअं ॥

इच्छामि लमासमणो ! अट्ठमयुव्याहं कयाइं च मे किइकमाइं आयारमंतरे विणयमंतरे सेहिओ 'सेहंयिओ

संगहिओ उवगगहिओ सारिओ चोइओ पडिचोइओ, चिअत्ता मे पडिचोपणा, (अब्भुद्धिओहं) उवडिओहं तुब्भण्हं तवतेयसिरीए इमाओ चाउरंतसंसारकंताराओ साहट्टु नित्थरिस्सामित्थिकट्टु सिरसा मणसा मत्थएणवंदामि ॥ ४ ॥ गुरु-नित्थारगपारगा होह ॥

त्यारपछी देवसिक्कप्रति० मां थ्रमणमूत्र क्ख्हा पछी जे विधि वताववामां आवेल छे ते विधि प्रमाणे प्रतिक्रमण करबुं, पण तेमां सुअदेवयानी थोयने ठेकाणे भुवणदेवयानो काउस्सग्ग करी (७२) “ज्ञानादिगुणयुतानां नित्यं स्वाध्यायसंयमरतानाम् । विदधातु भुवनदेवी शिवं सदा सर्वसाधूनाम्” ॥१॥ ए प्रमाणे थोय कहेवी, तथा क्षेत्रदेवतानी स्तुतिने ठेकाणे (७३) “यस्याः क्षेत्रं समाश्रित्य साधुभिः साध्यते क्रिया । सा क्षेत्रदेवता नित्यं भूयान्नः सुखदायिनी” ॥ १ ॥ ए प्रमाणे थोय कहेवी । तथा स्तवन अजितगांतित्तुं कहेहुं, ते आ प्रमाणे—

अजितशांतिस्तवं-(७४) अजिअं जिअस्ववभयं, संतिं च पसंतस्ववगयपावं । जयगुरु संतिगुणकरे, दोवि जिणवरे पणिव यामि॥१॥गाहा॥यवगयमंगुलभावे, ते हं विउलतवनिम्मलसहावे । निरुवममहप्पभावे, थोसामि सुदिट्ठसब्भावे ॥२॥गाहा॥ स्ववदुक्खल्पसंतीणं, स्ववपावप्पसंतीणं । सया अजियसंतीणं, नमो अजियसंतीणं ॥३॥ सिलोगो ॥ अजिअजिण ! सुहप्पवचणं, तव पुरिसुत्तम ! नामकित्तणं । तह य धिइमहप्पवत्तणं, तव य जिणुत्तमसंति ! कित्तणं ॥४॥ मागहिआ॥ किरिआविहिसंचिअकम्मकिलेसचिमुक्खयरं, अजियं निचिअं च गुणेहिं महासुणिसिद्धिगयं । अजिअस्स य संति-महासुणिणोऽपि अ संतिकरं । सययं मम निब्बुइकारणयं च नमंसणयं ॥ ५ ॥ आलिगणयं ॥ पुरिमा ! जह दुक्ख-

पारणं, जइ अ चिमगह सुदन्वकारणं । अजिअं संति च भावओ, अभयकरे सरणं पवज्झहा ॥ ६ ॥ मागहिआ ॥ अर
 इइतिमिरावरहिअमुवरयजरमरणं, सुरअसुरगणलभुगवइपययपणिवहयं । अजिअमहमवि अ सुनयनयनिउणम
 भयकरं, सरणमृवसरिअ भुविदिचिमहिअं सययमुवणमे ॥ ७ ॥ संगययं ॥ तं च जिणुत्तममुत्तमनित्तमसत्तधरं
 अज्जमद्वयंतिथिसुचिममाहिनिहिं । संतिकरं पणमामि दमुत्तमतित्थयरं, संतिमुणी मम संतिसमाहिवरं विसउ ।
 ८ ॥ सोयाणयं ॥ सावत्थियुब्बपत्थियं च वरहत्थिमत्थयपसत्थविच्छिन्नसंथियं, थिरसरिच्छवच्छं मयगललीलायमाण-
 यरगंधत्थिपत्थाणपत्थियं संथयारिहं हत्थिहत्थयाहुंधंतकणगरुअगनिरुवहयपिजरं पवरलक्खणोवचियसोमचारुक्खं,
 सुइसुहमणाभिरामपरमरमणिउजवरदेवदुंदुद्धिनिनायमहुरयरसुहगिरं ॥ ९ ॥ वेहुओ ॥ अजिअं जिआरिणं, जिअ-
 मद्वभयं भयोहरिउं । पणमामि अहं पयओ, पाधं पसमेउ मे भयवीं ॥ १० ॥ रासालुद्धओ ॥ कुरुजणवयहत्थिणाउर-
 नरीमरो पठमं तओ महाचक्खट्ठिमोए महप्पभावो, जो धावचरिपुरवरसहस्सवरनगरनिगमजणवयवई यत्तीसाराप-
 यरसहस्साणुयागमगो । चउदसवररणनवमहानिहिचउसहिस्सपवरजुवईणसुंदरवई चुलसीहयगरहसयसहस्स-
 मामी, छन्नवइगामरुडिसामी आमी जो भारहंमि भयवं ॥ ११ ॥ वेहुओ ॥ तं संति संतिकरं, संतिणं सन्वभया ।
 मंति गुणामि जिणं, संति विहेउ मे ॥ १२ ॥ रासानंदिअयं ॥ (युग्मम्) इक्खागविदेहनरीसर नरयसहा सुणियसहा ।
 नयसारयससिक्खलाणविगयतमा विहुअरया । अजिउचमतेअणुणेहिं महासुणि अमिअवला विउलकुला, पणमामि
 ते भयभयमरण ! जगसणा मम सरणं ॥ १३ ॥ चिचलेहा ॥ देवदान्णविदचंदसूरवंद ! हट्ठुद्धिउपरम-लह्खवाधंतकप्पय-

दृसेयसुद्धनिद्धधवल-दंतपति । संति ! सत्किंचित्सुत्तिजुत्तिगुत्तिपथर ! विचिंतेअंबद ! धेअ ! सव्वलोअभाविअप्पभाव-
 णेअ ! पइस मे समाहि ॥ १४ ॥ नारायओ ॥ चिमलससिक्लाइरेअसोमं, चित्तिमिरसुरकराइरेअतेअं । तिसवइगणा-
 इरेअरुखं धरणिघरप्पवराइरेअसारं ॥ १५ ॥ कुसुमलया ! सत्ते अ सया अजिअं, सारीरे अ वले अजिअं । तयसंजमे
 अ अजिअं, एस थुणामि जिणं अजिअं ॥ १६ ॥ सुअगपरिरिगिअं (युगम्) ॥ सोमगुणेहि पावइ न तं
 नवसरयससी, तेअगुणेहि पावइ न तं नचसरयरवी ॥ रूवगुणेहि पावइ न तं तिसअसगणवई, सारगुणेहि पावइ न तं
 धरणीयरवई ॥ १७ ॥ खिज्जिअयं ॥ तित्थवरपवत्तयं तमरयरहिंयं, धीरजणथुअच्चिअं चुअकलिकलुसं, संतिसुह-
 पवत्तयं तिगरणपयओ, संतिमहं महासुणि सरणमुवणमे ॥ १८ ॥ ललिअयं ॥ विणओणयसिरइअंजलिरिसिगण-
 संथुअं थिमिअं, विद्युहाहिवयणवइरवइथुअमहिअच्चिअं बहुसो । अहरुगयसरयदिवायरसमहिअसप्पंभ तवसा,
 गयंगणवियरणसमुइअचारणवंदिअं सिरसा ॥ १९ ॥ किसलयमाला ॥ असुरगळपपरिवंदिअं, किन्नरोरगनमंसिअं ।
 देवकोहिसयसंथुअं, समणसंघपरिवंदिअं ॥ २० ॥ सुसुहं ॥ अभयं अणहं, अरयं अरुअं । अजियं अजियं, पयओ
 पणमे ॥ २१ ॥ विज्जुविलसिअं ॥ आगया वरविमाणदिव्वकणगरहत्तुरयपहकरसणहिं ह्ठुलिअं । ससंभमोअर-
 णलुभिअल्लियचलकुंडलगपतिरीडसोहंतमउलिमाला ॥ २२ ॥ वेडुओ ॥ जं सुरसंघा सासुरसंघा वेरवेउत्ता
 भत्तिसुजुत्ता । आयरभूसियसंभमपिडिय, सुडुसुविम्हियसव्ववलोधा ॥ उत्तमकंचणरयणपरुविगभासुरभूसण-
 भासुरिअंगा । गायसमोणयभत्तिवसागयंपंजलिपेसियसीसपणामा ॥ २३ ॥ रयणमाला ॥ चंदिऊण थोऊण तो जिणं,

तिगुणमेव य पुणो पघाहिणं । पणमिज्ज य जिणं सुरासुरा, पमुहआ सभवणाहं तो गया ॥ २४ ॥ खित्तयं ॥ तं
महासुणिमहंपि पंजली, रागदोसभयमोहवज्जियं । देवदाणघनरिदवंदिअं, संतिमुत्तममहातवं नमे ॥ २५ ॥ खित्तयं ॥
अयंतरविआरणिआहिं, ललिअहंसवहुगामिणिआहिं । पीणसोणिथणसालिणिआहिं, सकलकमलदंललोअणिआहि
२६ ॥ दीवयं ॥ पीणनिरंतरणभरयिणिमिअगायलआहिं, मणिकंचणपसिदिलमेहलसोहिअसोणितडाहिं । वरखिंखि-
णिनेउरसतिलयवलयविभूसणिआहिं, रहकरचउरमणोहरसुंदरदंसणिआहिं ॥ २७ ॥ चित्तखरा ॥ देवसुंदरीहिं पाय-
वंदिआहिं वंदिआ य जस्स ते सुचिक्रमा कमा, अप्पणो निडालएहिं मंडणोडुणप्पगारएहिं केहिं केहिं वीअवंगतिलय-
पत्तेहनामएहिं चिछएहिं संगयंगयाहिं, भत्तिसन्निविद्वंदणगयाहिं हुंति ते वंदिआ पुणो ॥ २८ ॥ नारायओ ।
तमहं णिणचंदं, अजिअं जिअमोहं । धुयसव्वकिलेसं, पयओ पणसाप्पि ॥ २९ ॥ नंदिअयं (चतुर्भिः कलापकं) ॥ युअ-
वंदिअयस्सा रिसिगणदेवगणेहिं, तो देववहुहिं पयओ पणमिअस्सा । जस्स जगुत्तमसासणअस्सा, भत्तिवसागयपिंदि-
अयाहिं । देधवरच्छरसावहुआहिं, सुरवररहगुणपंडियआहिं ॥ ३० ॥ भासुरयं ॥ वंससदंतितालमेलिए तित्तखरा-
भिरामसद्दीसए कए अ । सुहसमाणेअ सुद्धसज्जगीयपायजालघंटिआहिं, वलयमेहलाकलावनेउराभिरामसद्दीसए
कए अ ॥ देवनट्टिआहिं हावभावविअभमप्पगारएहिं नच्चिज्जण अंगहारएहिं वंदिआ य जस्स ते सुचिक्रमा कमा; तयं
तिलोगवव्वसत्तसंत्तिकारयं पसंतमव्वपाचदोसमेसहं नमाप्पि संतिमुत्तमं जिणं ॥ ३१ ॥ नारायओ ॥ छत्तचामरपडागजूअ-
जयमंडिआ, झयवरमगरतुरपसिरिवच्छसुलंच्छणा । दीवसमुद्धमंदरदिसागयसोहिया, सत्थिअवसहसीहरहचक्करं-

क्रिया ॥३२॥ ललिअयं ॥ सहावलहा समप्पइंढा, अदोसइंढा गुणेहिं जिंढा । पसायसिंढा तवेण पुंढा, सिरीहिं इंढा रिंसीहिं जुंढा ॥ ३३ ॥ वाणवासिआ ॥ ते तवेण पुअसव्वपावयां, सव्वलोअहिअमूलपावया । संयुआ अजिअसंतिपायया, पुंतु मे सियसुहाण दायया ॥३४॥ अपरांतिका (त्रिभिर्विशेषकम्) ॥ एवं तववलविडलं, युअं मए अजिअसंतिजिणजुअलं । वयगयफ्फमरयमलं, गइं गयं सासयं विडलं ॥ ३५ ॥ गाहा ॥ तं बहुगुणप्पसायं, मुक्खसुहेण परमेण अविसायं । नासेउ मे विसायं, कुणउ अ परिमावि अ पसायं ॥ ३६ ॥ गाहा ॥ तं मोएउ अ नंदिं, पावेउ अ नंदिसेणमभिनंदिं । परिसावि अ सुहंनंदिं, मम य दिसउ संजमे नंदिं ३७ ॥ गाहा ॥ पविखय चाउम्मासिअ, संवच्छरिए अवस्स भणिअव्वो । सोअव्वो सव्वेहिं उवसगनिवारणो एसो ॥ ३८ ॥ जो पढइ जो अ निसुणइ, उमओ कालंपि अजिअसंतिथयं । न हु हुंति तस्स रोगा, पुब्बुप्पन्नावि नासंति ॥ ३९ ॥ जइ इच्छह परमपयं, अहवा कितिं सुचित्थडं सुचणे । ता तेलुअकुद्धरणे, जिणवयणे आयरं कुणह ॥४०॥ इति अजितशांतिस्तवं समाप्तम्

[पृष्ठी सञ्ज्ञायने ठेगणे नवकार (मू. १) उवसगहंरं (मू. ३९) ने संसारदावा (मू. ४८) नी चार थोय कहेवी, तथा लघुशांतिने ठेगणे वृहच्छांति कहेवी, ते आ प्रमाणे—

वृहच्छांतिस्तवः—(७५) भो भव्याः ! शृणुत वचनं प्रस्तुतं सर्वमेतद्, ये यात्रायां त्रिसुवनगुरोराहता भक्तिभाजः ।
तेषां शांतिर्भवतु भवतामर्हदादिप्रभावादारोग्यश्रीधृतिमतिकरी क्लेशविध्वंसहेतुः ॥ १ ॥ गथं-भो भो भव्यलोका !
इह हि भरतैरावतविदेहसंभवानां समस्ततीर्थकृतां जन्मन्यासनप्रकंपानंतरमवधिना विज्ञाय, सौधर्माधिपतिः सुयोपा-

घंटाचालनानंतरं सकलसुरासुरैः सह समागत्य, सचिनयमहैद्भट्टारकं गृहीत्वा गत्वा कनकादिशृंगे, विहितजन्माभियेकः
 शान्तिमुद्घोषयति यथा, ततोऽहं कृतानुकारमिति कृत्वा महाजनो येन गतः स पंथा इति भव्यजनैः सह समेत्य
 स्नात्रपीठे स्नात्रं विधाय शान्तिमुद्घोषयामि । तत्पूजायात्रास्नात्रादिमहोत्सवानंतरमिति कृत्वा कर्णं दर्या निश-
 म्यनां निशम्यतां स्वाहा ॥ ॐ पुष्पाहं पुष्पाहं प्रीयतां प्रीयतां भगवतोऽहंतः सर्वज्ञाः सर्वदर्शिनस्त्रिलोकनाथास्त्रिलोका-
 महितास्त्रिलोकपूज्यास्त्रिलोकेश्वरास्त्रिलोकोत्क्रोतकराः ॥ ॐ ऋषभअजितसंभवअभिनंदनसुमतिपद्मप्रभसुपार्श्वचंद्रप्र-
 भसुविधिशीतलश्रेयांसवासुपूज्यविमलअनंतधर्मशांतिकुंभुअरमद्विसुनिसुव्रतनमिनेमिपार्श्ववर्द्धमानांता जिनाः शांताः
 शांतिकरा भवंतु स्वाहा ॥ ॐ मुनयो मुनिप्रवरा रिपुविजयदुर्भिक्षकांतारेषु दुर्गमार्गेषु रक्षंतु वो नित्यं स्वाहा ॥ ॐ ह्री
 श्री धृतिनतिकीर्त्तिकांतियुद्धिलक्ष्मीमेधाविद्यासाधनप्रवेशनिवेशनेषु सुगृहीतनामानो जयंतु ते जिनेन्द्राः ॥ ॐ
 रोहिणीप्रज्ञसिचम्रगृंखलायज्रांकुशीअप्रतिचक्रापुरुषदत्ताकालीगौरीगांधारीसर्वास्त्रामहाज्वालामानवीचैरोट्या-
 अच्छुप्तामानसीमहामानसी पोडश विद्यादेव्यो रक्षंतु वो नित्यं स्वाहा ॥ ॐ आचार्योपाध्यायप्रभृतिचातुर्वर्णस्य
 श्रीश्रमणसंघस्य शान्तिर्भवतु तुष्टिर्भवतु पुष्टिर्भवतु ॥ ॐ ग्रहाशंद्रसूर्यागारक्षुधवृहस्पतिशुक्रशनिश्चराराहुकेतुसहिताः
 मलोरुपालाः सोमयमवरुणःकुबेरवासवादित्यस्कंदविनायकोपेताः ये चान्येऽपि ग्रामनगरक्षेत्रदेवतादयस्ते सर्वे प्रीयतां
 प्रीयतां अक्षीणकोशकोप्लागारा नरपतयश्च भवंतु स्वाहा ॥ ॐ पुत्रमित्रभ्रातृकलत्रसुहृत्स्वजनसंबंधिबंधुवर्गसहिता
 नित्यं चामोदप्रमोदकारिणः अस्मिंश्च भूमंडलायतननिवासिधुसाध्वीश्रावकश्राविकाणां रोगोपसर्गव्याधिदुःख-

दुर्भिक्षदीर्घमनस्योपशमनाय शान्तिर्भवतु ॥ ॐ तुष्टिष्टुष्टिकृद्धिद्विमांगलयोत्सवाः, सदा ब्राह्मभूतानि पापानि
 शान्त्यंतु दुरितानि ॥ शत्रवः पराङ्मुखा भवतु स्वाहा ॥ श्रीमते शान्तिनाथाय, नमः शान्तिविधायिने । त्रैलोक्यस्या-
 मराधीशमुकुटाभ्यर्चितांध्रये ॥ १ ॥ शान्तिः शान्तिकरः श्रीमान्, शान्तिं दिशतु मे गुरुः । शान्तिरेव सदा तेषां, येषां
 शान्तिर्गृहे गृहे ॥ २ ॥ उन्मृष्टरिष्टदुष्टग्रहगतिदुःस्वप्नदुर्निमित्तादि । संपादितहितसंपन्नामग्रहणं जयति शान्तेः ॥ ३ ॥
 श्रीसंघजगज्जनपदराजाधिपराज्यसन्निवेशानाम् । गोष्ठिकपुरमुख्यानां व्याहरणैर्व्याहरेच्छान्तिम् ॥ ४ ॥ श्रीश्रमण-
 संघस्य शान्तिर्भवतु, श्रीपौरजनस्य शान्तिर्भवतु, श्रीजनपदानां शान्तिर्भवतु, श्रीराजाधिपानां शान्तिर्भवतु, श्रीराज्यस-
 न्निवेशानां शान्तिर्भवतु, श्रीगोष्ठिकानां शान्तिर्भवतु, श्रीपौरमुख्याणां शान्तिर्भवतु, श्रीब्रह्मलोकस्य शान्तिर्भवतु, ॐ
 स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ श्रीपार्श्वनाथाय स्वाहा ॥ एषा शान्तिप्रतिष्ठा यात्रास्नात्राद्यवसानेषु शान्तिकलशं गृहीत्वा
 कुंकुमचंदनकर्पूरागरुषूपासकुसुमांजलिसमेतः स्नायचतुष्किकायां श्रीसंघसमेतः शुचि शुचिवपुः पुष्पवत्खचंदनाभ-
 रणालंकृतः पुष्पमालां कंठे कृत्वा शान्तिसुदूधोपयित्वा शान्तिपानीयं मस्तके दातव्यमिति ॥ नृत्यंति नृत्यं मणिपुष्प-
 वर्ष्य, खजंति गापंति च मंगलानि । स्तोत्राणि गोघ्राणि पठंति मंत्रान्, कल्याणभाजो हि जिनाभिवेके ॥ १ ॥
 शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवंतु भूतगणाः । दोषाः प्रयांतु नाशं, सर्वत्र सुखीभवतु लोकः ॥ २ ॥ अहं
 तित्थपरमाया, सियादेवी तुम्ह नपरनिवासिनी ॥ अम्ह सिवं तुम्ह सिवं, असिवोवसमं सिवं भवतु स्वाहा
 ॥ ३ ॥ उपसर्गाः क्षयं यांति, छिद्यंते विघ्नवह्नयः ॥ मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे ॥ ४ ॥ सर्वमंगलमंगल्यं,

सर्वकल्याणकारणम् । प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति 'शासनम् ॥ ५ ॥ इति श्रीबृहच्छांतिः
 [तथा प्रतिक्रमणने अंते संतिकरं (शु० ३२) कहेवुं ॥ इति पाक्षिकप्रतिक्रमणविधि]

(७६) अथ चोमासीप्रतिक्रमणविधिः
 आ प्रतिक्रमण पण पक्खिपडिकमणानी विधि प्रमाणेज करवातुं छे, तफावत मात्र एटलोज छे के चार लोगस्सना काउस्सग-
 ने ठेकाणे बीश लोगस्सना काउस्सग करवो, अने 'पक्खी' शब्दने ठेकाणे 'चउमासी' शब्द कहेवो, तथा तपने ठेकाणे 'छट्टेणं
 वे उपवास चार आयंपिल छ नीचि आठ एकामणां सोळ वेआमणां चारहजार सज्जायध्यान' एरीते कहेवुं, वादणामां
 चइकंता कहेवुं ।

(७७) अथ संवत्सरीप्रतिक्रमणविधि

एमां पण उपर लख्या मुभव पक्खीनी विधि मुजव कावुं, पण एटलुंज विशेष छे के चार लोगस्सना काउस्सगना ठेकाणे
 बालीस लोगस्स अने एक नवकार अथवा एम्सोने साठ नवकारनो (एकसठ नवकारनो) काउस्सग करवो, अने तपने ठेकाणे
 'अहमेणं व्रण उपवास छ आयंपिल नव नीचि चार एकासणां चोवीस वेआसणां अने छहजार सज्जायध्यान' ए रीते
 कहेवुं, अने पक्खीशब्दने ठेकाणे संवच्छरी शब्द कहेवो, वांदणामां 'संवच्छरो वइकंतो' कहेवुं ॥

—७६—

पाक्षिक आदि प्रतिक्रमणमां कोइने छींफ आवे तो काउस्सग करवानो विधि—(७८) जो पाक्षिक अतिचार अगाउ छींफ आवे

तो इरिभावहीथी पांढीने प्रारंभथी सर्व फरीने करवुं. त्वारपछी घृहच्छांतिमुधीमां जो आवे तो द्रुवत्वयंत्वओ० नो काउस्सग कर्था अगाउ इरियावही पढिकापी लोगस्स कही लमासमण० इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! क्षुद्रोपद्रवओहृडावणार्थं काउस्सग कर्कं ? इच्छं, धु० करेमि काउस्सग कही अन्नत्थ० कही चार लोगंस्सनो काउस्सग सागरवरगंभीरा सुधी करवो. ते पारीने नीचेनी गापा कहेवी:—

सर्वं यसांविजाना ये, वैयावृत्यकरा जिने । क्षुद्रोपद्रवसंयातं, ते द्रुतं द्रावयंतु नः ॥ १ ॥ पछी प्रगट लोगस्स कहेवो ॥ पारमामी काउस्सग करवानो विधि—(७०) चैत्र शुदि ११-१२-१३ अथवा १२-१३-१४ अथवा १३-१४-१५ ए व्रण दिवसोए दररोज देवतिक्रमणमां सञ्जाय कया पछी आ काउस्सग करवो. प्रथम स्वपासमण दइ इच्छा० अचित्तरज ओहृ-डावणत्थं काउस्सग कर्कं, इच्छं, अचित्त० करेमि काउस्सगं अन्नत्थ० कही चार लोगस्सनो सागरवरगंभीरा सुधी काउस्सग करवो, पारी लोगस्स कहेवो ॥

लोच करवाना प्रारंभमां काउस्सग करवानो विधि—(८०) लोच करवो होय ते दिवसे लोच कर्था अगाउ इरियावही पढिकापी लमासमण दइ इच्छा० 'सचिचभचित्तरजओहृडावणत्थं काउस्सग कर्कं ? इच्छं सचिच० करेमि काउस्सगं अन्नत्थ० कही चार लोगस्सनो काउस्सग सागरवरगंभीरा सुधी करवो, पारीने प्रगट लोगस्स कहेवो ॥

कोइ साधु काळ करे त्वारे साधुने करवानो विधि—(८१) जे साधुए काळ कर्था होय तेनी पासे आवी एक साधु आ प्रमाणे कहे "कोटिक गण, यत्री जाला, चांद्र कुळ, आचार्यश्रीश्री (), उपध्यायश्री (), महत्तराश्री ()

अधुन शिष्य (मुनि) अमुकनी शिष्या () महापारिठायणिआए करेमि काउस्सगं अन्नत्थं कही एक नवकारनो काउस्सग करी पारीने प्रगट नवकार कहे. पछी त्रण वार 'वोसिरे' कहे, श्राक संस्कार करावा लइ जाय त्यार-पछी जीर्ण काचली प्रमुल भांगीए. जीर्ण वस्त्र परववीए. अगोट अचिच पाणीए भूमिथुद्धि हस्तपादथुद्धि करीए, पछी श्राकर पासै गोमूत्रादि छंटावीने अवळा देव वांदीए. तेनी विधि आ प्रमाणे—

अंतिम देव वांदयानो विधि—(८२) काल करेल साधुना एक शिष्य अथवा तेनाथी लघु पर्यायवाला कोइ शिष्य प्रथम अवळो (द्वारथी आसन तरफ) कानो लइ चोलपट्टो अवळो पहरे, पछी काना संबंधी इरिआवही पडिकामीने अवळा देव वांदयानी शरुआत करे. प्रथम कल्याणकंदनी एक थोइ, पछी एक नरकारनो काउस्सग, पछी अन्नत्थं अरिहंतचे० जयपी० उरसग० नमोऽहंत० जावंत के० स्वमासमण० जावंति चे० नमुत्थुणं० चैत्यवंदन० लोगस्स० एरु लोगस्सनो काउस्सग अन्नत्थं तस्स० इरियावही० स्वमासमण दइ, अविधि आशातना मिच्छागि दुकाई कहे, पछी सरळो कानो लइ ते संबंधी इरियावही पडिकामे, पछी प्रभु प्रथरामी सभासमक्ष सर्व साधु साध्वीओ आठथुइए सबळा देव वांदे, तेमां स्तरने स्थानके अजितशांति कहे. अने देव पूरा धाय पछी स्वमा० इच्छा० धुद्रोपद्रवओहृडाचणत्थं काउस्सग करुं ? इच्छं, करेमि काउस्सगं अन्नत्थं कही चार लोगस्सनो काउस्सग 'सागरारंगभीरा' सुधी करे. 'सर्वे यत्तांविक्काया ये०' आ स्तुति अने वृहत्शांति कहेवाय पछी पारे. पछी प्रगट लोगस्स कहे ॥२॥ यहारगाथी स्वसामाचारीवाळा साधु काल्धर्म पाम्याना समाचार आवे तो उपर प्रमाणे आठ थुइए सबळा देव वांदे तथा अजितशांति, वृहत्शांति विगेरे उपर प्रमाणे कहे.

कोइ साधु काळधर्म पामे ल्यारे श्रावकने करवानो विधि—(८३) प्रथम स्नान करावे, केश होय ते प्रथम उतरावे, लगाव हस्तांगुलि ना मूळे परिच्छेद करे, हाथ पगनी आंगलीओनो बंध करे, शरीरे सुखड केशर वरासनुं विलेपन करे, मृत्युस्थानके तेमज स्नान करीने बेसाडवाने स्थानके लोढानी खीली ठोके, नवां वस्त्र पहारावे, जमणी वाजु ओयो (चरवली) मुहपत्ति मूके, डावी वाजु शोत्रीने अंदर भांगेलुं पातुं एरु लाडु सहित मूके. रोहिणी, विशाखा, पुनर्मसु ने त्रण उत्तरा ए छ नक्षत्रे वे पुतलां डाभनां करीने मूके, ज्येष्ठा, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषक, भरणी ने अश्लेषा ए छ नक्षत्रे पुतलं न करीए, वाक्रीना १५ नक्षत्रे एरु पुतलं करीए, ते पुतलाना जमणा हाथमां ओयो [चरवली] मुहपत्ति आपवां ने डावां हाथमां भांगेलुं पातुं तथा एक लाडु सहित झोली आपवी. वे पुतलां होय तो वंनेने ते प्रमाणे आपधुं, पछी शोक्रयुक्त चित्ते महोत्सव सहित योग्य स्थानके लडू जइने चंदनादिकाष्टोवडे अत्रिसंस्कार करवो, प्रांते सर्व अग्नि श्रांत करी, रक्षा योग्य स्थानके परठववी, पछी गुरु पासे आवी लघुशांति के वृहत्शांति सांभळी अनित्यतानो उपदेश श्रवण करवो ॥

पाठ्याविषयगगाथाः—(८४) जाई १ कुल २ बल ३ रूवे ४ तव ५ ईसरिए ६ सुए ७ लाहे ८ ॥१॥ (मदाः) खंती १ य मद्भव-
२ जन ३ सुची ४ तव ५ संजमे ६ य शोद्धन्वे । सचं ७ सोयं ८ आकिंचणं ९ च वंभं १० च जइधम्मो ॥ १ ॥ [श्रमणधर्मः
दंसण १ वप २ सामाइय ३ पोसह ४ पडिमा ५ अवंभ ६ सच्चित्ते ७ । आरंभ ८ पेस ९ उद्विद्वज्जए १० समणभूए य ११ ॥१॥
[श्रावकप्रतिमाः] । अद्वा १ ऽणद्वा २ हिंसा ३ ऽक्रुद्धा ४ दिद्वी ५ य मोस ६ ऽदिण्णे ७ य । अब्भत्य ८ माण ९ मेत्ते १० माय
११ लोभे १२ रियावहिया १३ ॥ १ ॥ [क्रियास्थानानि] । एगिंदिय सुद्धमि १ यरा २ सण्णि ३ यर ४ पर्णिदिया य सवी ५ ति

६ चक्र ७ । पञ्चतापञ्जसा भेषणं चोदसगामा ॥१॥ (जीवभेदाः) । मिच्छादिद्वी १ सासायणे २ य तह सम्ममिच्छदिद्वी ३ य ।
 अवरियसम्मदिद्वी ४ विरयारिए .५ पमत्ते ६ य ॥ १ ॥ तत्तो य अप्पमत्तो ७ नियट्टि ८ अनियट्टियायरो ९ छुट्टुमे १० । उवसंत
 ११ स्त्रीणमोहे १२ होइ सजोगी १३ अजोगी य १४ ॥२॥ (गुणस्थानानि) । पुढवि १ द्दग २ अगणि ३ मारुय ४ वणस्सइ ५ वि ६
 ति ७ चउ ८ पणिदि ९ अज्जीया १० । पेहु ११ प्पेह १२ पमज्जण १३ परिह्वण १४ मणो १५ वई ६ काए १७ ॥३॥ (संयमभेदाः)
 इरियासमिए सया जए, उवेह भुंजेज्ज व पाणभोयणं । आयाणनियखेवहुंछ संजए, समाहिए संजमए मणोवई ॥१॥ अहस्ससत्त्वे अणुरीइ
 भासए, जे कोहलोहभयमेव वज्जए । सदीहरायं समुंवेहिया सिया, पुणो हु मोसं परिवज्जए सया ॥ २ ॥ सयमेयुगगहजायणे घडे,
 मत्तिमं निसम्म सह भियस्तुउगहं । अणुणायि भुंजिज्ज पाणभोयणं, जाइज्जा साहंमियाण उगहं ॥ ३ ॥ आहारगुत्ते अविभूसियप्पा,
 इत्थि न निज्जाइ न संयवेज्जा । बुद्धो सुणी उट्टरुहं न कुज्जा, धम्माणुपेही संघए वंभत्तेरं ॥ ४ ॥ जे सहस्वं रसगंधमागए,
 फासे य संपप्प मणुणपावए । गिहीपदोसं न करेज्ज पंडिए, स होइ दंते विरए अक्किचणे ॥ ४ ॥ (मत्ताद्यतन्मायनाः २५) वय-
 छा ६ मिदियाणं च निग्गहो ११ भावकरणसत्त्वं च १२ । खमया १३ विरागयात्रिय १४ मणमार्णं निरोढो य १७ ॥ १ ॥
 कायाण छक २३ जोगाण जुत्तया २४ वेयणा २५ ऽहियासणया २६ । तह मारणंतियऽहियासणा २७ य एणऽणगारगुणा ॥ २ ॥
 (साधुगुणाः) जोए करणे सत्ता इंदिय भोगाइ समणधम्मे य । सीलंगसहस्साणं अट्टारसगस्स निष्फत्ती ॥ १ ॥ १०×१०×५
 ×४×३×३=१८०००

(८५) उपयोगिन्य उक्तयः

प्रमादत्यागविभागे—१ उच्छिष्ट, निद्रां त्यज, नमस्कारं स्मर २ निद्रा सर्वविघातिनी ३ धर्मजागरणं हितं ४ संस्कारिका स्मृतिः
 प्रातः ५ मानुष्यं दुर्लभं भवे ६ न चारित्रं विना मुक्तिः ७ मातरोऽष्टौ यते ! पाल्याः ८ मोक्षः साध्यं हि सदृशां ९ विपाकरुद्वः
 कामाः १० प्रथवणाय गच्छ ११ परिष्ठापय यतनया १२ प्रक्षालय करौ १३ यतनया गमनागमनं विधेयं १४ सोपयोगमुपविश १५
 वेदा प्रतिक्रमणस्य १६ पापशुद्ध्यै प्रतिक्रान्तिः १७ प्रतिक्रान्तियुतो धर्मः १८ आचार्यस्य सम्मुखं उपविशामि ? १९ कति नादा
 जाताः ? २० विगतं प्रचुरा रात्रिः २१ ब्राह्मणे शुद्धे उत्तिष्ठेत् २२ परमेष्ठिनं धर्मं व्रतं नियमं च संस्मर २३ संस्तारक्रमपनय २४
 आसनं प्रस्तारय २५ कम्बलो मम पार्श्वेऽस्ति २६ पार्श्वयोर्मम कौ मुनी ? २७ ईर्यया गमनं यतेः २८ कार्यो गीः पापवर्जिता २९ प्र-
 मार्ग्यं ग्रहणक्षेपौ ३० परिष्ठापयेन्निर्योवे धाम्नि साधुः ३१ निवर्त्तयेत् वाक्तनुचिचयोगान्, पापान् भवोद्धिततरो महारमा ।

अध्ययनविभागे—१ नृत्राणि अर्थाथानुभेक्षध्वं २ परावर्तय पाठं ३ अनुभेक्षस्य व्याख्यानं ४ कुरु रूपादानं ५ चिन्तय सन्धिं
 विभक्ति समासं कृपां कृदन्तं च ६ स्मरय विस्मृतं ७ निवारय अर्थुद्धि ८ वारंवारमावर्त्तय ९ स्वाध्यायस्तः संयमी १० वर्धते विन-
 याद्विद्या ११ कल्याणकृद् गुरोर्वचः १२ भियो वार्ता न शोभते १३ यत्र तत्र मा पश्यतु ।

रात्रिविभागे—१ उर्वैर्न वाच्यं मुनिभिर्निशायां २ शान्ता निशा धर्मविचाररम्या ३ यामद्वयं स्यात् शयनं रजन्यां ४ स्वापो
 मुनीनां निनि संस्तुतौ स्यात् ५ भुवं प्रमाग्यांस्तुते स्वशय्यां ६ हस्तौ च पादौ परिवर्त्तयेच्चेत् पृथ्वीं प्रमोर्जेत् प्रथमं मुनीशः ७ प्रमा-
 र्जेयेत् प्रथवणाय गच्छन्, रात्रौ मुनीशः पृथिवीमहिंसः ।

जिनमंदिरविभागे—१ नेत्रानंदकरी मूर्तिः २ गृहस्योपरि मंदिरं ३ बंधानां चंदनीयेषा ४ एतत्स्वरूपं सिद्धानां ५ ज्ञान्ते दृष्टे शमो भवेत् ६ सुधीः श्राद्धः सुजेत् पूजाश्च ७ यथा ज्ञानं पुस्तकेभ्यो, मूर्तेर्वोधस्तथाऽऽत्मनः ८ चैत्थं स्म्यतरं ९ चैत्येऽनुपमा शान्तिः १० ग्रामे चैत्थं जिनेशस्य ११ मूर्तिर्मनोहारिणी १२ ग्रामे बहूनि चैत्यानि १३ बहिरप्यस्ति सुंदरं चैत्थं १४ सुवर्णचैत्यक्रियाया समं प्रह्ला मते श्रुते १५ जिनपूजा बोधिदा नित्यं १६ मूर्तेः कृतिः प्रेल्पायोध्ये १७ मौक्षाय पूजा प्रभुपादपद्मे १८ सर्वं नाम-स्थापनाद्रज्यभयमयं १९ निनाऽऽकृत्या न वस्त्वस्ति २० आकृतिः स्मारिकार्थस्य २१ गृहिणां भावयज्ञोऽर्चा २२ अधिकास्त्रिशा-द्विष्टिः २३ येन केनापि विधिना, मूर्तिं सर्वेऽपि मन्वते २४ महान्ति सप्रभावानि च चैल्यानि २५ ईर्या मया प्रतिक्रान्ता २६ चैत्यव-न्दनमात्रिये २७ कृत्वा नैवेधिकीं विशेः २८ चिद्धकृतः स्तवो वाच्यः २९ शोभनीया स्तुती रम्या ३० प्रत्याख्यानं समुषिद्य ३१ आवश्यकी मुने ! कार्या ।

उपाशयविभागे—स्याद् वैराग्यमुपाशये २ वासना क्रियमाऽसकृत् ३ मैत्रीप्रमोदकारुण्योपेक्षाः समयस्त्वभाजनं ४ विशालाः पौषपालयाः ५ रम्योऽराम उपाशयः ६ अर्थो निर्ग्रथवचनं परार्थश्च परं वृथा ७ अमृतं वन्यकारणं ८ सद्गुण मोक्षं समीहते ९ आश्रयः सर्वथा श्रेयः १० धार्षो जीवेन संप्रमः ११ त्यागोऽक्रामोऽन्यक्रामोऽपि, पुज्येत् पुण्यपरंपरा १२ आश्रयापि हितं विशेत् १३ प्रत्यनीक-मयं नयेः १४ वादी धर्मप्रभावकः १५ त्यागो धर्मं जिनोदिते १६ असंयमाद् वरो मृत्युः १७ वन्द्यः स्वार्थतत्पराः १८ गुरवो ज्ञेश्वर भुने १९ माता पिता सियो ब्रह्मं, दुर्गदुर्गतिकारणम् २० मिथ्यात्याग्रतकोपायाः, कर्मवन्द्यसमर्थकाः २१ साधुसेवा वृपाछेदो, धी च धर्मश्रेयः २२ विन्तारत्नसुराद्रुभ्यामधिकं जैनदर्शनम् २३ माता पिता सुदृत्स्वामी, तस्यो व्रतपरो गुरुः । साधूनामन्यहं वाच-या आनन्ति कल्पयाद् । इति स्त्रीपञ्चावश्यकसूत्राणि ॥

सप्तमे २० ध्रुवं शृण्वन्ति साधयः २१ व्याख्याने सुदिता इमे २२ श्रुत्वा धर्मं बुध्यते श्रावकोऽसौ २३ शासनैकतानाः श्राविकाः
२४ धर्मप्रभाचकाः श्रेष्ठिनः २५ धर्माराधनपराः श्राद्धाः २६ सुखिनः श्रावकाः समे

गोचरीचिभागे—१ अद्यः का विठ्ठलस्वप्नाऽस्ति ? २ तत्रं त्रिदोषशमनं ३ अनेके सचित्तपरिहारिण श्राद्धाः ४ रोचकं
दधि सर्वभ्यः ५ वैतालिका चक्रं व्यञ्जनं मूषो मिष्टान्नं च दृश्यते ६ शुद्धं भोजनं ग्रामुकं वारि ७ अचित्तजलपायिनो भूरयः ८
निर्दोषा नमिनां भिक्षा ९ अन्तं प्रान्तं च भोजनं १० संविभागी मुनिः शुद्धः ११ संयमाय श्रेयेद् भिक्षा १२ दुग्धं बुद्धिविवर्धनं
१३ नृसहाय शुभा भिक्षा देया १४ तपस्विग्लानदृढाल्पवयसा प्रथमालिका १५ दानं महाफलं पूतौ, तपसोऽर्वाक् च कीर्त्यते १६
रथमानतपः कार्यं, रथमानहितैषिभिः १७ आचामान्त्रानि श्रीसिद्धचक्राराधनहेतवे ।

चिहारचिभागे—१ पथात् माधव आयान्ति २ मुनयः पुरतो ययुः ३ नाकार्ये गमनं द्रुतं ४ वज्र्यां वर्त्मनि कण्टकाः ५ बालु-
का विपुत्रा पथि ६ राजमार्गः सुव्याहः ७ श्रेयान् क्वचित् पादमार्गः ८ शोधिता स्थण्डिलावनिः ९ प्रमार्जिता कालश्रुमिः १० ग्रामे
वनपथे गेहाः ११ श्रावका भाविनः सन्ति १२ गन्तव्यं कास्ति ते ग्रामे ? १३ मध्ये करकः समेप्यति ? १४ ग्रामः कस्कोऽन्तराऽस्ति
भोः १५ पञ्चपान् दिरसान् वसेत् १६ भद्रकाः श्रावकाः अर्हाः १७ मारवो विक्रतो मार्गः १८ याताः श्रावकाः १९ समुदायोऽत्र
पशान् यतः २० समृद्धाः श्रावकाः सर्वे २१ श्रावकास्ते दृढा धर्मे ।

प्रतिक्रमणचिभागे—१ प्रतिक्रमणं मण्डल्यां स्यात् २ पृथक्कर्त्ता तु दोषभाक् ३ शुद्धिर्वानं च मण्डल्यां ४ ऊर्ध्वम्यो
रन्दनोत्सर्गध्यानान्मोचनसान्त्वने ५ शून्यमना व्यासिषोऽनादृत्यलथ न भवेः ।

जिनमंदिरविभागे—१ नेत्रानंदकरी मूर्तिः २ गृहस्योपरि मंदिरं ३ वंदनानां वंदनीयैषा ४ एतत्स्वरूपं सिद्धानां ५ ज्ञान्ते
 दृष्टे शमो भवेत् ६ सुधीः श्राद्धः सृजेत् पूजाम् ७ यथा ज्ञानं पुस्तकेभ्यो, मूर्तेर्वोधस्तथाऽऽत्मनः ८ चैत्यं रम्यतरं ९ चैत्येऽनुपमा
 शान्तिः १० ग्रामे चैत्यं जिनेशस्य ११ मूर्तिर्मनोहारिणी १२ ग्रामे बहूनि चैत्यानि १३ वह्निरप्यस्ति सुंदरं चैत्यं १४ सुवर्णचैत्यक्रि-
 यया समं ब्रह्म मतं श्रुते १५ जिनपूजा बोधिदा नित्यं १६ मूर्तेः कृतिः प्रेत्याबोधै १७ मोक्षाय पूजा प्रभुपादपद्मे १८ सर्वं नाम-
 स्थापनाद्रव्यभावमयं १९ विनाऽऽकृत्या न वस्त्वस्ति २० आकृतिः स्मारिकार्थस्य २१ गृहिणां भावयज्ञोऽर्चा २२ अधिकारिचशा-
 द्विधिः २३ येन केनापि विधिना, मूर्तिं सर्वेऽपि मन्वते २४ महान्ति सप्रभावानि च चैत्यानि २५ इयां मया प्रतिक्रान्ता २६ चैत्यव-
 न्दनमाद्रिये २७ कृत्वा नैपेधिकां विशेषेः २८ विद्वत्कृतः स्तवो वाच्यः २९ शोभनीया स्तुती रम्या ३० प्रत्याख्यानं समुद्दिश
 ३१ आवश्यकी मुने ! कार्या ।

उपाश्रयविभागे—स्याद् वैराग्यमुपाश्रये २ वासना क्रियायाऽसकृत् ३ मैत्रीप्रमोदकारुण्योपेक्षाः सम्यक्त्वभाजनं ४ विशालाः
 पौपधालयाः ५ रम्योऽराम उपाश्रयः ६ अर्थो निर्ग्रथवचनं परार्थश्च परं वृथा ७ अत्रतं बन्धकारणं ८ सदृग् मोक्षं समीहते ९ आश्रवः
 सर्वथा हेयः १० धार्यो जीवेन संयमः ११ त्यागोऽकामोऽन्यकामोऽपि, पुष्येत् पुण्यपरंपरां १२ अज्ञायानि हितं दिशेत् १३ प्रत्यनीक-
 मयं नर्पेः १४ वादी धर्मप्रभावकः १५ त्यागो धर्मे जिनोदिते १६ असंयमाद् वरो मृत्युः १७ बन्धवः स्वार्थतत्पराः १८ गुरवो
 मोक्षदा ध्रुवं १९ माता पिता स्त्रियो द्रव्यं, दुर्गदुर्गतिकारणम् २० मिथ्यात्वात्रतकोपाद्याः, कर्मबन्धसमर्थकाः २१ साधुसेवा तृपाद्येदो,
 मैत्री च धर्महेतवः २२ चिन्तारत्नसुरद्रुभ्यामधिकं जैनदर्शनम् २३ माता पिता सुहृत्स्वामी, सत्यो व्रतधरो गुरुः । साधूनामन्वहं वाच
 एता आयान्ति कल्पयताम् । इति श्रीपद्मावश्यकसूत्राणि ॥

॥ इति श्रीषडावश्यकसूत्राणि ॥